



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4709]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 1, 2018/अग्रहायण 10, 1940

No. 4709]

NEW DELHI SATURDAY, DECEMBER 1, 2018/AGRAHAYANA 10, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2018

का.आ. 5935(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4079(अ), 20.08.2018, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में NH 754K के कि.मी. 2.045 से कि.मी.16.39 (टिब्बी) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "02.09.2018 " को "राजस्थान पत्रिका" और "दैनिक भास्कर" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्टें प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में NH 754K के कि.मी. 2.045 से कि.मी.16.39 (टिब्बी) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

| राज्य का नाम: राजस्थान | | जिले का नाम: हनुमानगढ़ | | | |
|------------------------|------------------|------------------------|-----------------|----------------------------------|--|
| क्रमिक संख्या | सर्वेक्षण संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| तालुक का नाम: टिब्बी | | | | | |
| गांव का नाम: 10एसबीएन | | | | | |
| 1 | 4//15 | निजी | कृषि | 0.0443 | मामकोरी पत्नी स्व. भोमा, मदन लाल, श्रीराम, नृसिंह, प्रभु, विनोद पुत्रान भोमा 1/4 भाग चन्द्रभान, ओमप्रकाश पुत्रान कृपाल 1/4 भाग बगडावत राम लालचन्द्र जगदीश पुत्रान श्योलाल 1.518 हिस्सा बाधू देवी पत्नी इन्द्राज 0.072 हिस्सा सुभाष चन्द, तेजपाल पुत्रान इन्द्राज 0.434 हिस्सा कौम जांगीड ब्राह्मण साकिन रतनपुरा खातेदार () |
| 2 | 4//16 | निजी | कृषि | 0.1625 | मामकोरी पत्नी स्व. भोमा, मदन लाल, श्रीराम, नृसिंह, प्रभु, विनोद पुत्रान भोमा 1/4 भाग चन्द्रभान, ओमप्रकाश पुत्रान कृपाल 1/4 भाग बगडावत राम लालचन्द्र जगदीश पुत्रान श्योलाल 1.518 हिस्सा बाधू देवी पत्नी इन्द्राज 0.072 हिस्सा सुभाष चन्द, तेजपाल पुत्रान इन्द्राज 0.434 हिस्सा कौम जांगीड ब्राह्मण साकिन रतनपुरा खातेदार () |
| 3 | 4//24 | निजी | कृषि | 0.0329 | सत्यपाल, रामलाल, जयपाल पुत्र शिव प्रताप, कोम जाट साकिन रतनपुरा खातेदार रहन जयपाल, एसबीआई शाखा |

| | | | | | |
|----|-------|------|------|--------|--|
| | | | | | संगरिया मुर्तहीन रहन सत्यपाल, पीएनबी शाखा सांगरिया मुर्तहीन () |
| 4 | 4//25 | निजी | कृषि | 0.2489 | मामकोरी पत्नी स्व. भोमा, मदन लाल, श्रीराम, नृसिंह, प्रभु, विनोद पुत्रान भोमा 1/4 भाग चन्द्रभान, ओमप्रकाश पुत्रान कृपाल 1/4 भाग बगडावत राम लालचन्द्र जगदीश पुत्रान श्योलाल 1.518 हिस्सा बाधू देवी पत्नी इन्द्राज 0.072 हिस्सा सुभाष चन्द, तेजपाल पुत्रान इन्द्राज 0.434 हिस्सा कौम जांगीड ब्राह्मण साकिन रतनपुरा खातेदार () |
| 5 | 5//1 | निजी | कृषि | 0.063 | हिम्मत राम पुत्र खेता राम 2/3 भाग, रावता पुत्र खेता राम 1/3 भाग कॉम जांगीड, ब्राह्मण साकिन रतनपुरा खातेदार () |
| 6 | 5//1 | निजी | कृषि | 0.002 | हिम्मत राम पुत्र खेता राम 2/3 भाग, रावता पुत्र खेता राम 1/3 भाग कॉम जांगीड, ब्राह्मण साकिन रतनपुरा खातेदार (5//1 (रास्ता)) |
| 7 | 5//2 | निजी | कृषि | 0.139 | हिम्मत राम पुत्र खेता राम 2/3 भाग, रावता पुत्र खेता राम 1/3 भाग कॉम जांगीड, ब्राह्मण साकिन रतनपुरा खातेदार () |
| 8 | 5//2 | निजी | कृषि | 0.038 | हिम्मत राम पुत्र खेता राम 2/3 भाग, रावता पुत्र खेता राम 1/3 भाग कॉम जांगीड, ब्राह्मण साकिन रतनपुरा खातेदार (5//2 (रास्ता)) |
| 9 | 5//3 | निजी | कृषि | 0.0058 | हिम्मत राम पुत्र खेता राम 2/3 भाग, रावता पुत्र खेता राम 1/3 भाग कॉम जांगीड, ब्राह्मण साकिन रतनपुरा खातेदार () |
| 10 | 5//3 | निजी | कृषि | 0.009 | हिम्मत राम पुत्र खेता राम 2/3 भाग, रावता पुत्र खेता राम 1/3 भाग कॉम |

| | | | | | |
|----|-------|------|------|--------|--|
| | | | | | जांगीड, ब्राह्मण साकिन रतनपुरा खातेदार (5//3 (रास्ता)) |
| 11 | 5//8 | निजी | कृषि | 0.0025 | मामकोरी पत्नी स्व. भोमा मदन लाल, श्री राम नृसिंह प्रभु, विनोद पुत्रान भोमा 1/4 भाग, चंद्रभान, ओमप्रकाश पुत्रान कृपाल 1/4 भाग, बगडावत राम, लाल चंद, जगदीश पुत्रान श्योलाल 1.518 भाग, बाधु देवी पत्नी इंद्रराज .072 भाग, सुभाष चंद, तेजपाल पुत्र इंद्राज .434 भाग, कॉम जांगीड ब्राह्मण साकिन रतनपुरा खातेदार () |
| 12 | 5//9 | निजी | कृषि | 0.2127 | मामकोरी पत्नी स्व. भोमा मदन लाल, श्री राम नृसिंह प्रभु, विनोद पुत्रान भोमा 1/4 भाग, चंद्रभान, ओमप्रकाश पुत्रान कृपाल 1/4 भाग, बगडावत राम, लाल चंद, जगदीश पुत्रान श्योलाल 1.518 भाग, बाधु देवी पत्नी इंद्रराज .072 भाग, सुभाष चंद, तेजपाल पुत्र इंद्राज .434 भाग, कॉम जांगीड ब्राह्मण साकिन रतनपुरा खातेदार () |
| 13 | 5//12 | निजी | कृषि | 0.0935 | मामकोरी पत्नी स्व. भोमा मदन लाल, श्री राम नृसिंह प्रभु, विनोद पुत्रान भोमा 1/4 भाग, चंद्रभान, ओमप्रकाश पुत्रान कृपाल 1/4 भाग, बगडावत राम, लाल चंद, जगदीश पुत्रान श्योलाल 1.518 भाग, बाधु देवी पत्नी इंद्रराज .072 भाग, सुभाष चंद, तेजपाल पुत्र इंद्राज .434 भाग, कॉम जांगीड ब्राह्मण साकिन रतनपुरा खातेदार () |
| 14 | 5//19 | निजी | कृषि | 0.0048 | मामकोरी पत्नी स्व. भोमा मदन लाल, श्री राम नृसिंह प्रभु, विनोद पुत्रान भोमा 1/4 भाग, चंद्रभान, ओमप्रकाश पुत्रान कृपाल 1/4 भाग, बगडावत राम, लाल चंद, जगदीश पुत्रान श्योलाल 1.518 भाग, बाधु देवी पत्नी इंद्रराज .072 भाग, सुभाष चंद, तेजपाल पुत्र इंद्राज .434 भाग, कॉम |

| | | | | | |
|----|-------|------|------|--------|--|
| | | | | | जांगीड ब्राह्मण साकिन रतनपुरा खातेदार () |
| 15 | 5//20 | निजी | कृषि | 0.2222 | मामकोरी पत्नी स्व. भोमा मदन लाल, श्री राम नृसिंह प्रभु, विनोद पुत्रान भोमा 1/4 भाग, चंद्रभान, ओमप्रकाश पुत्रान कृपाल 1/4 भाग, बगडावत राम, लाल चंद, जगदीश पुत्रान श्योलाल 1.518 भाग, बाधु देवी पत्नी इंद्रराज .072 भाग, सुभाष चंद, तेजपाल पुत्र इंद्राज .434 भाग, काँम जांगीड ब्राह्मण साकिन रतनपुरा खातेदार () |
| 16 | 5//21 | निजी | कृषि | 0.1076 | मामकोरी पत्नी स्व. भोमा मदन लाल, श्री राम नृसिंह प्रभु, विनोद पुत्रान भोमा 1/4 भाग, चंद्रभान, ओमप्रकाश पुत्रान कृपाल 1/4 भाग, बगडावत राम, लाल चंद, जगदीश पुत्रान श्योलाल 1.518 भाग, बाधु देवी पत्नी इंद्रराज .072 भाग, सुभाष चंद, तेजपाल पुत्र इंद्राज .434 भाग, काँम जांगीड ब्राह्मण साकिन रतनपुरा खातेदार () |
| 17 | 20//1 | निजी | कृषि | 0.0058 | चन्द्रभान, ओमप्रकाश पिता कृपाल राम 1/2 हिस्सा नरसीराम 1/10 हिस्सा प्रभुदयाल 1/10 हिस्सा विनोद कुमार 1/10 हिस्सा पिता भोमाराम रोहिताश संजय कुमार पिता श्रीराम बहिव 1/10 हिस्सा गुडडी देवी पत्नी मदनलाल 1/10 हिस्सा काँम सुथार साकिन रतनपुरा खातेदार () |
| 18 | 21//4 | निजी | कृषि | 0.1393 | चन्द्रभान, ओमप्रकाश पिता कृपाल सिंह 1/2 हिस्सा नरसीराम 1/10 हिस्सा प्रभुदयाल 1/10 हिस्सा विनोद कुमार 1/10 हिस्सा पिता भोमाराम रोहिताश संजय कुमार पिता श्रीराम बहिव 1/10 हिस्सा गुडडी देवी पत्नी मदनलाल 1/10 हिस्सा काँम सुथार साकिन रतनपुरा खातेदार |

| | | | | | |
|----|-------|------|------|--------|--|
| | | | | | () |
| 19 | 21//4 | निजी | कृषि | 0.0092 | चन्द्रभान, ओमप्रकाश पिता कृपाल सिंह 1/2 हिस्सा नरसीराम 1/10 हिस्सा प्रभुदयाल 1/10 हिस्सा विनोद कुमार 1/10 हिस्सा पिता भोमाराम रोहिताश संजय कुमार पिता श्रीराम बहिव 1/10 हिस्सा गुडडी देवी पत्नी मदनलाल 1/10 हिस्सा कौम सुथार साकिन रतनपुरा खातेदार (21//4 (रास्ता)) |
| 20 | 21//5 | निजी | कृषि | 0.1931 | सत्यपाल, रामलाल, जयपाल पुत्र शिव प्रताप, कोम जाट साकिन रतनपुरा खातेदार रेहन जयपाल, एसबीआई शाखा संगरिया मूर्तहीन रहन सत्यपाल, पीएनबी शाखा सांगरिया मूर्तहीन () |
| 21 | 5//10 | निजी | कृषि | 0.165 | मामकोरी पत्नी स्व. भोमा मदन लाल, श्री राम नृसिंह प्रभु, विनोद पुत्रान भोमा 1/4 भाग, चंद्रभान, ओमप्रकाश पुत्रान कृपाल 1/4 भाग, बगडावत राम, लाल चंद, जगदीश पुत्रान श्योलाल 1.518 भाग, बाधु देवी पत्नी इंद्रराज .072 भाग, सुभाष चंद, तेजपाल पुत्र इंद्राज .434 भाग, कॉम जांगीड ब्राह्मण साकिन रतनपुरा खातेदार () |
| 22 | 5//11 | निजी | कृषि | 0.228 | मामकोरी पत्नी स्व. भोमा मदन लाल, श्री राम नृसिंह प्रभु, विनोद पुत्रान भोमा 1/4 भाग, चंद्रभान, ओमप्रकाश पुत्रान कृपाल 1/4 भाग, बगडावत राम, लाल चंद, जगदीश पुत्रान श्योलाल 1.518 भाग, बाधु देवी पत्नी इंद्रराज .072 भाग, सुभाष चंद, तेजपाल पुत्र इंद्राज .434 भाग, कॉम जांगीड ब्राह्मण साकिन रतनपुरा खातेदार () |
| 23 | 21//5 | निजी | कृषि | 0.0386 | सत्यपाल, रामलाल, जयपाल पुत्र शिव प्रताप, कोम जाट साकिन रतनपुरा |

| | | | | | |
|----|--------|------|------|--------|--|
| | | | | | खातेदार रेहन जयपाल, एसबीआई शाखा संगरिया मूर्तहीन रहन सत्यपाल, पीएनबी शाखा सांगरिया मुर्तहीन (21//5 (रास्ता)) |
| 24 | 21//6 | निजी | कृषि | 0.1221 | चन्द्रभान, ओमप्रकाश पिता कृपाल राम 1/2 हिस्सा नरसीराम 1/10 हिस्सा प्रभुदयाल 1/10 हिस्सा विनोद कुमार 1/10 हिस्सा पिता भोमाराम रोहिताश संजय कुमार पिता श्रीराम बहिव 1/10 हिस्सा गुडडी देवी पत्नी मदनलाल 1/10 हिस्सा कौम सुथार साकिन रतनपुरा खातेदार () |
| 25 | 21//7 | निजी | कृषि | 0.2445 | चन्द्रभान, ओमप्रकाश पिता कृपाल राम 1/2 हिस्सा नरसीराम 1/10 हिस्सा प्रभुदयाल 1/10 हिस्सा विनोद कुमार 1/10 हिस्सा पिता भोमाराम रोहिताश संजय कुमार पिता श्रीराम बहिव 1/10 हिस्सा गुडडी देवी पत्नी मदनलाल 1/10 हिस्सा कौम सुथार साकिन रतनपुरा खातेदार () |
| 26 | 21//8 | निजी | कृषि | 0.0233 | सत्यपाल, रामलाल, जयपाल पुत्र शिव प्रताप, कोम जाट साकिन रतनपुरा खातेदार रह जयपाल, एसबीआई शाखा संगरिया मुर्तहीन रहन सत्यपाल, पीएनबी शाखा सांगरिया मुर्तहीन () |
| 27 | 21//13 | निजी | कृषि | 0.1343 | चन्द्रभान, ओमप्रकाश पिता कृपाल राम 1/2 हिस्सा नरसीराम 1/10 हिस्सा प्रभुदयाल 1/10 हिस्सा विनोद कुमार 1/10 हिस्सा पिता भोमाराम रोहिताश संजय कुमार पिता श्रीराम बहिव 1/10 हिस्सा गुडडी देवी पत्नी मदनलाल 1/10 हिस्सा कौम सुथार साकिन रतनपुरा खातेदार () |

| | | | | | |
|----|--------|------|------|--------|---|
| 28 | 21//14 | निजी | कृषि | 0.2391 | चन्द्रभान, ओमप्रकाश पिता कृपाल राम 1/2 हिस्सा नरसीराम 1/10 हिस्सा प्रभुदयाल 1/10 हिस्सा विनोद कुमार 1/10 हिस्सा पिता भोमाराम रोहिताश संजय कुमार पिता श्रीराम बहिव 1/10 हिस्सा गुडडी देवी पत्नी मदनलाल 1/10 हिस्सा कौम सुथार साकिन रतनपुरा खातेदार () |
| 29 | 21//15 | निजी | कृषि | 0.0165 | चन्द्रभान, ओमप्रकाश पिता कृपाल राम 1/2 हिस्सा नरसीराम 1/10 हिस्सा प्रभुदयाल 1/10 हिस्सा विनोद कुमार 1/10 हिस्सा पिता भोमाराम रोहिताश संजय कुमार पिता श्रीराम बहिव 1/10 हिस्सा गुडडी देवी पत्नी मदनलाल 1/10 हिस्सा कौम सुथार साकिन रतनपुरा खातेदार () |
| 30 | 21//17 | निजी | कृषि | 0.1358 | मनोहरी देवी पत्नी बद्री प्रसाद मैना देवी पत्नी साहबराम पुत्रियां कालूराम बहिव कौम सुथार साकिन मक्कासर तह व जिला हनुमानगढ खातेदार () |
| 31 | 21//18 | निजी | कृषि | 0.2384 | श्योनारायण 1.181 भाग, दलीप 1.180 भाग, ओमप्रकाश 1.174 भाग, राम कुमार 1.187 भाग पुत्र जगमाल, जसवंत पुत्र मनीराम 1.181 भाग, सरबती पत्नी छयाली राम 1.181 भाग, काँम जाट साकिन नगराना, काँम जाट सालीवाला खातेदार रहन श्योनारायण , दलीप, ओमप्रकाश, राम कुमार, जसवंत, साहबराम, सुभाष एसबीआई शाखा सांगरिया मुर्तहीन रहन सरबती रकबा ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन () |
| 32 | 21//19 | निजी | कृषि | 0.0153 | श्योनारायण 1.181 भाग, दलीप 1.180 भाग, ओमप्रकाश 1.174 भाग, राम कुमार 1.187 भाग पुत्र जगमाल, जसवंत पुत्र |

| | | | | | |
|----|--------|------|------|--------|--|
| | | | | | मनीराम 1.181 भाग, सरबती पत्नी ख्याली राम 1.181 भाग, कॉम जाट साकिन नगराना, कॉम जाट सालीवाला खातेदार रहन श्योनारायण , दलीप, ओमप्रकाश, राम कुमार, जसवंत, साहबराम, सुभाष एसबीआई शाखा सांगरिया मुर्तहीन रहन सरबती रकबा ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन () |
| 33 | 21//22 | निजी | कृषि | 0.1202 | श्योनारायण 1.181 भाग, दलीप 1.180 भाग, ओमप्रकाश 1.174 भाग, राम कुमार 1.187 भाग पुत्र जगमाल, जसवंत पुत्र मनीराम 1.181 भाग, सरबती पत्नी ख्याली राम 1.181 भाग, कॉम जाट साकिन नगराना, कॉम जाट सालीवाला खातेदार रहन श्योनारायण , दलीप, ओमप्रकाश, राम कुमार, जसवंत, साहबराम, सुभाष एसबीआई शाखा सांगरिया मुर्तहीन रहन सरबती रकबा ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन () |
| 34 | 21//23 | निजी | कृषि | 0.2451 | श्योनारायण 1.181 भाग, दलीप 1.180 भाग, ओमप्रकाश 1.174 भाग, राम कुमार 1.187 भाग पुत्र जगमाल, जसवंत पुत्र मनीराम 1.181 भाग, सरबती पत्नी ख्याली राम 1.181 भाग, कॉम जाट साकिन नगराना, कॉम जाट सालीवाला खातेदार रहन श्योनारायण , दलीप, ओमप्रकाश, राम कुमार, जसवंत, साहबराम, सुभाष एसबीआई शाखा सांगरिया मुर्तहीन रहन सरबती रकबा ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन () |
| 35 | 21//24 | निजी | कृषि | 0.0242 | श्योनारायण 1.181 भाग, दलीप 1.180 भाग, ओमप्रकाश 1.174 भाग, राम कुमार 1.187 भाग पुत्र जगमाल, जसवंत पुत्र मनीराम 1.181 भाग, सरबती पत्नी |

| | | | | | |
|----|--------|------|------|--------|--|
| | | | | | ख्याली राम 1.181 भाग, कॉम जाट साकिन नगराना, कॉम जाट सालीवाला खातेदार रहन श्योनारायण , दलीप, ओमप्रकाश, राम कुमार, जसवंत, साहबराम, सुभाष एसबीआई शाखा सांगरिया मुर्तहीन रहन सरबती रकबा ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन () |
| 36 | 27//15 | निजी | कृषि | 0.0007 | श्योनारायण 1.181 भाग, दलीप 1.180 भाग, ओमप्रकाश 1.174 भाग, राम कुमार 1.187 भाग पुत्र जगमाल, जसवंत पुत्र मनीराम 1.181 भाग, सरबती पत्नी ख्याली राम 1.181 भाग, कॉम जाट साकिन नगराना, कॉम जाट सालीवाला खातेदार रहन श्योनारायण , दलीप, ओमप्रकाश, राम कुमार, जसवंत, साहबराम, सुभाष एसबीआई शाखा सांगरिया मुर्तहीन रहन सरबती रकबा ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन () |
| 37 | 27//15 | निजी | कृषि | 0.0039 | श्योनारायण 1.181 भाग, दलीप 1.180 भाग, ओमप्रकाश 1.174 भाग, राम कुमार 1.187 भाग पुत्र जगमाल, जसवंत पुत्र मनीराम 1.181 भाग, सरबती पत्नी ख्याली राम 1.181 भाग, कॉम जाट साकिन नगराना, कॉम जाट सालीवाला खातेदार रहन श्योनारायण , दलीप, ओमप्रकाश, राम कुमार, जसवंत, साहबराम, सुभाष एसबीआई शाखा सांगरिया मुर्तहीन रहन सरबती रकबा ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन (27//15 (रास्ता)) |
| 38 | 27//16 | निजी | कृषि | 0.0672 | जगदीश पुत्र लाधूराम, कॉम जाट साकिन नगराना खातेदार, रेहन ओबीसी शाखा, नगराना मुर्तहीन () |
| 39 | 27//16 | निजी | कृषि | 0.025 | जगदीश पुत्र लाधूराम, कॉम जाट साकिन |

| | | | | | |
|----|--------|------|------|--------|--|
| | | | | | नगराना खातेदार, रेहन ओबीसी शाखा, नगराना मुर्तहीन (27//16 (रास्ता)) |
| 40 | 27//24 | निजी | कृषि | 0.0014 | ताराचन्द पुत्र लूणाराम कॉम जाट साकिन नगराना खातेदार रहन ओ बी सी शाखा नगराना () |
| 41 | 27//25 | निजी | कृषि | 0.1852 | ताराचन्द पुत्र लूणाराम कॉम जाट साकिन नगराना खातेदार रहन ओ बी सी शाखा नगराना () |
| 42 | 27//25 | निजी | कृषि | 0.025 | ताराचन्द पुत्र लूणाराम कॉम जाट साकिन नगराना खातेदार रहन ओ बी सी शाखा नगराना (27//25 (रास्ता)) |
| 43 | 28//1 | निजी | कृषि | 0.009 | श्योनारायण 1.181 भाग, दलीप 1.180 भाग, ओमप्रकाश 1.174 भाग, राम कुमार 1.187 भाग पुत्र जगमाल, जसवंत पुत्र मनीराम 1.181 भाग, सरबती पत्नी ख्याली राम 1.181 भाग, कॉम जाट साकिन नगराना, कॉम जाट सालीवाला खातेदार रहन श्योनारायण , दलीप, ओमप्रकाश, राम कुमार, जसवंत, साहबराम, सुभाष एसबीआई शाखा सांगरिया मुर्तहीन रहन सरबती रकबा ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन () |
| 44 | 28//2 | निजी | कृषि | 0.2306 | श्योनारायण 1.181 भाग, दलीप 1.180 भाग, ओमप्रकाश 1.174 भाग, राम कुमार 1.187 भाग पुत्र जगमाल, जसवंत पुत्र मनीराम 1.181 भाग, सरबती पत्नी ख्याली राम 1.181 भाग, कॉम जाट साकिन नगराना, कॉम जाट सालीवाला खातेदार रहन श्योनारायण , दलीप, ओमप्रकाश, राम कुमार, जसवंत, साहबराम, सुभाष एसबीआई शाखा सांगरिया मुर्तहीन रहन सरबती रकबा ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन |

| | | | | | |
|----|--------|------|------|--------|--|
| | | | | | () |
| 45 | 28//3 | निजी | कृषि | 0.1499 | श्योनारायण 1.181 भाग, दलीप 1.180 भाग, ओमप्रकाश 1.174 भाग, राम कुमार 1.187 भाग पुत्र जगमाल, जसवंत पुत्र मनीराम 1.181 भाग, सरबती पत्नी ख्याली राम 1.181 भाग, कॉम जाट साकिन नगराना, कॉम जाट सालीवाला खातेदार रहन श्योनारायण , दलीप, ओमप्रकाश, राम कुमार, जसवंत, साहबराम, सुभाष एसबीआई शाखा सांगरिया मुर्तहीन रहन सरबती रकबा ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन () |
| 46 | 28//8 | निजी | कृषि | 0.034 | गुरदयाल, अमर सिंह, प्रेम कुमार, पालाराम, घनश्याम, रायसिंह, श्रवण कुमार पुत्र रजीराम विमला देवी कमला देवी पुत्रियां रजीराम जाति जाट साकिन नगराना खातेदार रहन हिस्सा अमर सिंह ओबीसी शाखा नगराना () |
| 47 | 28//9 | निजी | कृषि | 0.2494 | गुरदयाल, अमर सिंह, प्रेम कुमार, पालाराम, घनश्याम, रायसिंह, श्रवण कुमार पुत्र रजीराम विमला देवी कमला देवी पुत्रियां रजीराम जाति जाट साकिन नगराना खातेदार रहन हिस्सा अमर सिंह ओबीसी शाखा नगराना () |
| 48 | 28//10 | निजी | कृषि | 0.1061 | श्योनारायण 1.181 भाग, दलीप 1.180 भाग, ओमप्रकाश 1.174 भाग, राम कुमार 1.187 भाग पुत्र जगमाल, जसवंत पुत्र मनीराम 1.181 भाग, सरबती पत्नी ख्याली राम 1.181 भाग, कॉम जाट साकिन नगराना, कॉम जाट सालीवाला खातेदार रहन श्योनारायण , दलीप, ओमप्रकाश, राम कुमार, जसवंत, साहबराम, सुभाष एसबीआई शाखा सांगरिया मुर्तहीन रहन सरबती रकबा ओबीसी शाखा नगराना |

| | | | | | |
|----|--------|------|------|--------|---|
| | | | | | मुर्तहीनMurataheen () |
| 49 | 28//11 | निजी | कृषि | 0.2212 | राम चंद पुत्र लाधु, कॉम जाट साकिन नगराना खातेदार रहन ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन () |
| 50 | 28//12 | निजी | कृषि | 0.164 | राम चंद पुत्र लाधु, कॉम जाट साकिन नगराना खातेदार रहन ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन () |
| 51 | 28//19 | निजी | कृषि | 0.0455 | राम चंद पुत्र लाधु, कॉम जाट साकिन नगराना खातेदार रहन ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन () |
| 52 | 28//20 | निजी | कृषि | 0.252 | राम चंद पुत्र लाधु, कॉम जाट साकिन नगराना खातेदार रहन ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन () |
| 53 | 28//21 | निजी | कृषि | 0.177 | राम चंद पुत्र लाधु, कॉम जाट साकिन नगराना खातेदार रहन ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन () |
| 54 | 46//14 | निजी | कृषि | 0.253 | सुमित्रा देवी पत्नी आत्मा राम, सोनपाल पुत्र आत्मा राम, शक्ति पुत्र आत्मा राम जाति जाट साकिन नगराना खातेदार रहन हिस्सा सुमित्रा देवी, सोनपाल ओबीसी नगराना () |
| 55 | 46//23 | निजी | कृषि | 0.253 | लाधु पुत्र पन्नाराम कॉम जाट साकिन नगराना खातेदार () |
| 56 | 45//1 | निजी | कृषि | 0.0587 | राम चंद पुत्र लाधु, कॉम जाट साकिन नगराना खातेदार रहन ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन () |
| 57 | 46//4 | निजी | कृषि | 0.0779 | कृष्ण कुमार पुत्र लूणाराम जाति जाट साकिन नगराना खातेदार रहन ओबीसी नगराना |

| | | | | | |
|----|--------|------|------|--------|---|
| | | | | | () |
| 58 | 46//5 | निजी | कृषि | 0.228 | कृष्ण कुमार पुत्र लूणाराम जाति जाट साकिन नगराना खातेदार रहन ओबीसी नगराना () |
| 59 | 46//5 | निजी | कृषि | 0.025 | कृष्ण कुमार पुत्र लूणाराम जाति जाट साकिन नगराना खातेदार रहन ओबीसी नगराना (46//5 (खाला)) |
| 60 | 46//7 | निजी | कृषि | 0.1973 | सुरजा राम पुत्र लूणा राम जाति जाट साकिन नगराना खातेदार रहन ओबीसी नगराना () |
| 61 | 46//13 | निजी | कृषि | 0.0638 | सुमित्रा देवी पत्नी आत्मा राम, सोनपाल पुत्र आत्मा राम, शक्ति पुत्र आत्मा राम जाति जाट साकिन नगराना खातेदार रहन हिस्सा सुमित्रा देवी, सोनपाल ओबीसी नगराना () |
| 62 | 46//15 | निजी | कृषि | 0.0732 | सुमित्रा देवी पत्नी आत्मा राम, सोनपाल पुत्र आत्मा राम, शक्ति पुत्र आत्मा राम जाति जाट साकिन नगराना खातेदार रहन हिस्सा सुमित्रा देवी, सोनपाल ओबीसी नगराना () |
| 63 | 46//16 | निजी | कृषि | 0.0012 | लाधु पुत्र पन्नाराम कॉम जाट साकिन नगराना खातेदार () |
| 64 | 46//18 | निजी | कृषि | 0.1832 | लाधु पुत्र पन्नाराम कॉम जाट साकिन नगराना खातेदार () |
| 65 | 46//22 | निजी | कृषि | 0.0501 | लाधु पुत्र पन्नाराम कॉम जाट साकिन नगराना खातेदार () |
| 66 | 46//24 | निजी | कृषि | 0.0869 | लाधु पुत्र पन्नाराम कॉम जाट साकिन नगराना खातेदार () |
| 67 | 50//16 | निजी | कृषि | 0.0135 | गजानन्द, दयाराम, जगदीश चन्द्र, |

| | | | | | |
|----|--------|------|------|--------|---|
| | | | | | सुरजभान, रविशंकर पुत्र हरलाल जाति बैरागी साकिन नगराना खातेदार () |
| 68 | 50//16 | निजी | कृषि | 0.0143 | गजानन्द, दयाराम, जगदीश चन्द्र, सुरजभान, रविशंकर पुत्र हरलाल जाति बैरागी साकिन नगराना खातेदार (50//16 (रास्ता)) |
| 69 | 50//25 | निजी | कृषि | 0.116 | दुर्गा देवी पत्नी स्व. सहीराम, कॉम बेरागी साकिन नगराना खातेदार () |
| 70 | 50//25 | निजी | कृषि | 0.025 | दुर्गा देवी पत्नी स्व. सहीराम, कॉम बेरागी साकिन नगराना खातेदार (50//25 (रास्ता)) |
| 71 | 51//2 | निजी | कृषि | 0.158 | लाधु पुत्र पन्नाराम कॉम जाट साकिन नगराना खातेदार () |
| 72 | 51//2 | निजी | कृषि | 0.0113 | लाधु पुत्र पन्नाराम कॉम जाट साकिन नगराना खातेदार (51//2 (रास्ता)) |
| 73 | 51//9 | निजी | कृषि | 0.2505 | लाधु पुत्र पन्नाराम कॉम जाट साकिन नगराना खातेदार () |
| 74 | 51//10 | निजी | कृषि | 0.038 | लाधु पुत्र पन्नाराम कॉम जाट साकिन नगराना खातेदार () |
| 75 | 51//11 | निजी | कृषि | 0.155 | सुभाष उर्फ साजन राम पुत्र अमर सिंह, कोम जाट साकिन सालीवाला खातेदार रहन ओबीसी शाखा सांगरिया मुर्तहीन () |
| 76 | 51//13 | निजी | कृषि | 0.0071 | सुभाष उर्फ साजन राम पुत्र अमर सिंह, कोम जाट साकिन सालीवाला खातेदार रहन ओबीसी शाखा सांगरिया मुर्तहीन () |
| 77 | 51//20 | निजी | कृषि | 0.2468 | सुभाष उर्फ साजन राम पुत्र अमर सिंह, कोम जाट साकिन सालीवाला खातेदार रहन ओबीसी शाखा सांगरिया मुर्तहीन () |

| | | | | | |
|----|--------|------|------|--------|--|
| 78 | 51//22 | निजी | कृषि | 0.0128 | सुभाष उर्फ साजन राम पुत्र अमर सिंह, कोम जाट साकिन सालीवाला खातेदार रहन ओबीसी शाखा सांगरिया मुर्तहीन () |
| 79 | 74//11 | निजी | कृषि | 0.0845 | सोना देवी पत्नी बीरबल राम जाति मेघवाल साकिन नगराना खातेदार रहन एस बी बी जे, संगरिया () |
| 80 | 74//12 | निजी | कृषि | 0.2527 | सोना देवी पत्नी बीरबल राम जाति मेघवाल साकिन नगराना खातेदार रहन एस बी बी जे, संगरिया () |
| 81 | 74//13 | निजी | कृषि | 0.0523 | सोना देवी पत्नी बीरबल राम जाति मेघवाल साकिन नगराना खातेदार रहन एस बी बी जे, संगरिया (74//13/1) मनीराम पुत्र सुल्तान राम जाति मेघवाल साकिन नगराना खातेदार रहन आर एम जी बी शाखा संगरिया (74//13/2) () |
| 82 | 74//19 | निजी | कृषि | 0.1856 | साहब राम पुत्र सुल्तान राम जाति मेघवाल साकिन नगराना खातेदार रहन आर एम जी बी शाखा संगरिया () |
| 83 | 74//20 | निजी | कृषि | 0.2035 | साहब राम पुत्र सुल्तान राम जाति मेघवाल साकिन नगराना खातेदार रहन आर एम जी बी शाखा संगरिया () |
| 84 | 74//21 | निजी | कृषि | 0.253 | हरबंस पुत्र सुल्तान राम जाति मेघवाल साकिन नगराना खातेदार रहन आर एम जी बी संगरिया () |
| 85 | 74//22 | निजी | कृषि | 0.0661 | हरबंस पुत्र सुल्तान राम जाति मेघवाल साकिन नगराना खातेदार रहन आर एम जी बी संगरिया () |
| 86 | 85//10 | निजी | कृषि | 0.0803 | सीमा देवी पत्नी कृष्ण जाति मेघवाल साकिन नगराना रहन ओबीसी नगराना () |
| 87 | 85//11 | निजी | कृषि | 0.0018 | मथरा देवी पत्नी दलीप राम कोम जाट साकिन दौलतपुरा, खातेदार |

| | | | | | |
|----|--------|------|------|--------|---|
| | | | | | () |
| 88 | 86//5 | निजी | कृषि | 0.1898 | पन्ना देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति मेघवाल साकिन नगराना खातेदार (86//5/1), सोमा देवी पत्नी कृष्ण जाति मेघवाल साकिन नगराना रहन ओबीसी नगराना (86//5/2), साहब राम पुत्र सुल्तान राम जाति मेघवाल साकिन नगराना खातेदार रहन आर एम जी बी शाखा संगरिया (86//5/3) () |
| 89 | 86//6 | निजी | कृषि | 0.253 | सीमा देवी पत्नी कृष्ण जाति मेघवाल साकिन नगराना रहन ओबीसी नगराना () |
| 90 | 86//7 | निजी | कृषि | 0.0564 | ओमप्रकाश रामसिंह पिसरान भादरराम, कॉम जाट साकिन मल्लडखेड़ा खातेदार () |
| 91 | 86//14 | निजी | कृषि | 0.1757 | लिच्छी राम पुत्र भागीरथ, कोम जाट साकिन मल्लडखेड़ा खातेदार () |
| 92 | 86//15 | निजी | कृषि | 0.212 | गणपत पुत्र जीवन, कॉम जाट साकिन मल्लडखेड़ा खातेदार रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा संगरिया () |
| 93 | 86//16 | निजी | कृषि | 0.0944 | गणपत पुत्र जीवन, कॉम जाट साकिन मल्लडखेड़ा खातेदार रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा संगरिया () |
| 94 | 86//17 | निजी | कृषि | 0.2517 | लिच्छी राम पुत्र भागीरथ, कोम जाट साकिन मल्लडखेड़ा खातेदार () |
| 95 | 86//18 | निजी | कृषि | 0.0435 | लिच्छमा देवी पत्नी सुल्तान, सतपाल, कृष्ण चंद पुत्र सुल्तान, गुड्डी, गोमती, सरोज पुत्री सुल्तान, कोम जाट साकिन मल्लडखेड़ा खातेदार () |
| 96 | 86//23 | निजी | कृषि | 0.1616 | लिच्छमा देवी पत्नी सुल्तान, सतपाल, कृष्ण चंद पुत्र सुल्तान, गुड्डी, गोमती, सरोज पुत्री |

| | | | | | |
|-----|--------|------|------|--------|--|
| | | | | | सुल्तान, कोम जाट साकिन मल्लडखेड़ा खातेदार () |
| 97 | 86//24 | निजी | कृषि | 0.2228 | लिच्छी राम पुत्र भागीरथ, कोम जाट साकिन मल्लडखेड़ा खातेदार () |
| 98 | 86//25 | निजी | कृषि | 0.005 | गणपत पुत्र जीवन, कॉम जाट साकिन मल्लडखेड़ा खातेदार रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा संगरिया () |
| 99 | 46//6 | निजी | कृषि | 0.19 | सुरजा राम पुत्र लूणा राम जाति जाट साकिन नगराना खातेदार रहन ओबीसी नगरा () |
| 100 | 46//17 | निजी | कृषि | 0.165 | लाधु पुत्र पन्नाराम कॉम जाट साकिन नगराना खातेदार () |
| 101 | 51//3 | निजी | कृषि | 0.165 | लाधु पुत्र पन्नाराम कॉम जाट साकिन नगराना खातेदार () |
| 102 | 51//8 | निजी | कृषि | 0.089 | लाधु पुत्र पन्नाराम कॉम जाट साकिन नगराना खातेदार () |
| 103 | 51//12 | निजी | कृषि | 0.19 | सुभाष उर्फ साजन राम पुत्र अमर सिंह, कोम जाट साकिन सालीवाला खातेदार रहन ओबीसी शाखा सांगरिया मुर्तहीन () |
| 104 | 51//19 | निजी | कृषि | 0.101 | सुभाष उर्फ साजन राम पुत्र अमर सिंह, कोम जाट साकिन सालीवाला खातेदार रहन ओबीसी शाखा सांगरिया मुर्तहीन () |
| 105 | 51//21 | निजी | कृषि | 0.19 | सुभाष उर्फ साजन राम पुत्र अमर सिंह, कोम जाट साकिन सालीवाला खातेदार रहन ओबीसी शाखा सांगरिया मुर्तहीन () |
| 106 | 85//1 | निजी | कृषि | 0.19 | पन्ना देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति मेघवाल साकिन नगराना खातेदार () |

| | | | | | |
|-----|--------|------|------|--------|---|
| 107 | 70//1 | निजी | कृषि | 0.1292 | साहब राम पुत्र तनूराम 1.265 भाग, प्रेम कुमार पुत्र सरदूल सिंह 2.087 भाग, राज कुमार, राजेंद्र पुत्र लालचंद 2.720 भाग, कॉम जाट साकिन सालीवाला खातेदार रहन प्रेम कुमार, राजकुमार, राजेन्द्र एसबीआई शाखा सांगरिया मुर्तहीन () |
| 108 | 70//10 | निजी | कृषि | 0.0202 | साहब राम पुत्र तनूराम 1.265 भाग, प्रेम कुमार पुत्र सरदूल सिंह 2.087 भाग, राज कुमार, राजेंद्र पुत्र लालचंद 2.720 भाग, कॉम जाट साकिन सालीवाला खातेदार रहन प्रेम कुमार, राजकुमार, राजेन्द्र एसबीआई शाखा सांगरिया मुर्तहीन () |
| 109 | 71//4 | निजी | कृषि | 0.0189 | दुर्गा देवी पत्नी स्व. सहीराम, कॉम बेरागी साकिन नगराना खातेदार () |
| 110 | 71//5 | निजी | कृषि | 0.2166 | दुर्गा देवी पत्नी स्व. सहीराम, कॉम बेरागी साकिन नगराना खातेदार () |
| 111 | 71//5 | निजी | कृषि | 0.025 | दुर्गा देवी पत्नी स्व. सहीराम, कॉम बेरागी साकिन नगराना खातेदार (71//5 (रास्ता)) |
| 112 | 71//6 | निजी | कृषि | 0.2255 | दुर्गा देवी पत्नी स्व. सहीराम, कॉम बेरागी साकिन नगराना खातेदार () |
| 113 | 71//6 | निजी | कृषि | 0.0171 | दुर्गा देवी पत्नी स्व. सहीराम, कॉम बेरागी साकिन नगराना खातेदार (71//6 (रास्ता)) |
| 114 | 71//7 | निजी | कृषि | 0.1268 | दुर्गा देवी पत्नी स्व. सहीराम, कॉम बेरागी साकिन नगराना खातेदार () |
| 115 | 71//13 | निजी | कृषि | 0.0118 | दुर्गा देवी पत्नी स्व. सहीराम, कॉम बेरागी साकिन नगराना खातेदार () |
| 116 | 71//14 | निजी | कृषि | 0.2345 | दुर्गा देवी पत्नी स्व. सहीराम, कॉम बेरागी |

| | | | | | |
|-----|--------|------|------|--------|--|
| | | | | | साकिन नगराना खातेदार () |
| 117 | 71//15 | निजी | कृषि | 0.1437 | दुर्गा देवी पत्नी स्व. सहीराम, कॉम बेरागी साकिन नगराना खातेदार () |
| 118 | 71//16 | निजी | कृषि | 0.0296 | भूरा लाल पुत्र मन्ना राम कोम जाट साकिन सालीवाला खातेदार रहन राज मुरुधर ग्रामीण बैंक, शाखा सालीवाला मुर्तहीन () |
| 119 | 71//18 | निजी | कृषि | 0.1127 | भूरा लाल पुत्र मन्ना राम कोम जाट साकिन सालीवाला खातेदार रहन राज मुरुधर ग्रामीण बैंक, शाखा सालीवाला मुर्तहीन () |
| 120 | 71//22 | निजी | कृषि | 0.0063 | साहब राम पुत्र तनूराम 1.265 भाग, प्रेम कुमार पुत्र सरदूल सिंह 2.087 भाग, राज कुमार, राजेंद्र पुत्र लालचंद 2.720 भाग, कॉम जाट साकिन सालीवाला खातेदार रहन प्रेम कुमार, राजकुमार, राजेन्द्र एसबीआई शाखा सांगरिया मुर्तहीन () |
| 121 | 71//23 | निजी | कृषि | 0.2258 | भूरा लाल पुत्र मन्ना राम कोम जाट साकिन सलीवाला खातेदार रहन राज मुरुधर ग्रामीण बैंक, शाखा सालीवाला मुर्तहीन () |
| 122 | 71//24 | निजी | कृषि | 0.1574 | भूरा लाल पुत्र मन्ना राम कोम जाट साकिन सलीवाला खातेदार रहन राज मुरुधर ग्रामीण बैंक, शाखा सालीवाला मुर्तहीन () |
| 123 | 73//25 | निजी | कृषि | 0.0464 | पन्ना देवी पत्नी ओमप्रकाश साहबराम पुत्र सुल्तान राम जाति मेघवाल साकिन नगराना खातेदार रहन साहबराम आर एमजीबी शाखा नगराना () |
| 124 | 73//25 | निजी | कृषि | 0.0242 | पन्ना देवी पत्नी ओमप्रकाश साहबराम पुत्र सुल्तान राम जाति मेघवाल साकिन नगराना खातेदार रहन साहबराम आर एमजीबी शाखा नगराना (73//25 (खला)) |
| 125 | 74//2 | निजी | कृषि | 0.0986 | सुभाष उर्फ साजन राम पुत्र अमर सिंह, |

| | | | | | |
|-----|----------------------|------|------|--------|--|
| | | | | | कोम जाट साकिन सलीवाला खातेदार रहन ओबीसी शाखा सांगरिया मुर्तहीन () |
| 126 | 74//3 | निजी | कृषि | 0.251 | भूरा लाल पुत्र मन्ना राम कोम जाट साकिन सलीवाला खातेदार रहन राज मुरुधर ग्रामीण बैंक, शाखा सालीवाला मुर्तहीन () |
| 127 | 74//4 | निजी | कृषि | 0.0399 | साहब राम पुत्र तनूराम 1.265 भाग, प्रेम कुमार पुत्र सरदूल सिंह 2.087 भाग, राज कुमार, राजेंद्र पुत्र लाल चंद 2.720 भाग, काँम जाट साकिन सालीवाला खातेदार रहन एसबीआई शाखा सांगरिया मुर्तहीन () |
| 128 | 74//8 | निजी | कृषि | 0.1715 | भूरा लाल पुत्र मन्ना राम कोम जाट साकिन सलीवाला खातेदार रहन राज मुरुधर ग्रामीण बैंक, शाखा सालीवाला मुर्तहीन () |
| 129 | 74//9 | निजी | कृषि | 0.2155 | सोना देवी पत्नी बीरबल राम जाति मेघवाल साकिन नगराना खातेदार रहन एस बी बी जे, सांगरिया () |
| 130 | 74//10 | निजी | कृषि | 0.0026 | भादर राम पुत्र नानू राम, काँम जाट साकिन मल्लडखेडा खातेदार () |
| 131 | 71//17 | निजी | कृषि | 0.24 | भूरा लाल पुत्र मन्ना राम कोम जाट साकिन सालीवाला खातेदार रहन राज मुरुधर ग्रामीण बैंक, शाखा सालीवाला मुर्तहीन () |
| | गांव का नाम: 2एनजीआर | | | | |
| 132 | 24//1 | निजी | कृषि | 0.2456 | महन, मनीराम पुत्रान बीरबल राम कोम जाट साकिन मल्लडखेडा खातेदार रहन एसबीबीजे शाखा सांगरिया मुर्तहीन () |
| 133 | 24//2 | निजी | कृषि | 0.0253 | फतेह सिंह उर्फ फताराम वल्द भागीरथ काँम जाट साकिन मल्लडखेडा खातेदार () |
| 134 | 24//10 | निजी | कृषि | 0.1518 | सोहन, मनीराम पुत्रान बीरबल राम कोम |

| | | | | | |
|----------------------|--------|------|------|--------|---|
| | | | | | जाट साकिन मल्लडखेडा खातेदार रहन एसबीबीजे शाखा सांगरिया मुर्तहीन () |
| 135 | 24//11 | निजी | कृषि | 0.0357 | सोहन, मनीराम पुत्रान बीरबल राम कोम जाट साकिन मल्लडखेडा खातेदार रहन एसबीबीजे शाखा सांगरिया मुर्तहीन () |
| गांव का नाम: 4एनजीआर | | | | | |
| 136 | 5//2 | निजी | कृषि | 0.0324 | कृष्ण चंद पुत्र सुल्तान कोम जाट, साकिन मल्लडखेडा खातेदार रहन ओ.बी.सी. नगराना () |
| 137 | 5//3 | निजी | कृषि | 0.2375 | मनीराम पुत्र भागीरथ, 0.126 हिस्सा लिच्छीराम पुत्र भागीरथ कौम जाट साकिन मल्लडखेडा 0.127 हिस्सा () |
| 138 | 5//3 | निजी | कृषि | 0.0113 | मनीराम पुत्र भागीरथ, 0.126 हिस्सा लिच्छीराम पुत्र भागीरथ कौम जाट साकिन मल्लडखेडा 0.127 हिस्सा (5//3 (रास्ता)) |
| 139 | 5//4 | निजी | कृषि | 0.0998 | लिच्छीराम पुत्र भागीरथ कौम जाट साकिन मल्लडखेडा खातेदार () |
| 140 | 5//4 | निजी | कृषि | 0.0083 | लिच्छीराम पुत्र भागीरथ कौम जाट साकिन मल्लडखेडा खातेदार (5//4 (रास्ता)) |
| 141 | 5//7 | निजी | कृषि | 0.0099 | तारा सिंह पुत्र दरिया सिंह, काँम राय सिख साकिन मल्लडखेडा खातेदार रेहन कैनरा बैंक शाखा, हनुमानगढ मुर्तहीन () |
| 142 | 5//8 | निजी | कृषि | 0.232 | कृष्ण चंद पुत्र सुल्तान कोम जाट, साकिन मल्लडखेडा खातेदार रहन ओ.बी.सी. नगराना () |
| 143 | 5//9 | निजी | कृषि | 0.1475 | मनीराम पुत्र भागीरथ कौम जाट साकिन मल्लडखेडा खातेदार () |

| | | | | | |
|-----|-------|------|------|--------|---|
| 144 | 5//11 | निजी | कृषि | 0.0225 | राम कुमार पुत्र मनीराम, कॉम मेघवाल साकिन नगराना खातेदार रेहन ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन () |
| 145 | 5//12 | निजी | कृषि | 0.2441 | मनीराम पुत्र भागीरथ कौम जाट साकिन मल्लडखेडा खातेदार () |
| 146 | 5//13 | निजी | कृषि | 0.1227 | कृष्ण चंद्र पुत्र सुल्तान कोम जाट, साकिन मल्लडखेडा खातेदार रहन ओ.बी.सी. नगराना () |
| 147 | 5//18 | निजी | कृषि | 0.0167 | कृष्ण चंद्र पुत्र सुल्तान कोम जाट, साकिन मल्लडखेडा खातेदार रहन ओ.बी.सी. नगराना () |
| 148 | 5//19 | निजी | कृषि | 0.2398 | जगदीश पुत्र भागीरथ कौम जाट साकिन मल्लडखेडा खातेदार () |
| 149 | 5//20 | निजी | कृषि | 0.1329 | राम कुमार पुत्र मनीराम, कॉम मेघवाल साकिन नगराना खातेदार रहन ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन () |
| 150 | 5//21 | निजी | कृषि | 0.2376 | शंकर लाल पुत्र दूनी राम 1/2 भाग, सूर्या पुत्री रत्ती राम, रामस्वरूप, जगदीश, श्योप्रकाश पुत्र रत्ती राम, रोशनी देवी, उर्मिला देवी पुत्री रत्ती राम 1/2 भाग, कॉम जाट साकिन मल्लडखेडा खातेदार रहन एसबीआई शाखा सांगरिया मुर्तहीन () |
| 151 | 5//22 | निजी | कृषि | 0.1373 | फतेहसिंह उर्फ फताराम पुत्र भागीरथ कौम जाट साकिन मल्लडखेडा खातेदार () |
| 152 | 6//5 | निजी | कृषि | 0.1122 | शंकर लाल पुत्र दूनी राम 1/2 भाग, सूर्या पुत्री रत्ती राम, रामस्वरूप, जगदीश, श्योप्रकाश पुत्र रत्ती राम, रोशनी देवी, उर्मिला देवी पुत्री रत्ती राम 1/2 भाग, कॉम जाट साकिन मल्लडखेडा खातेदार रहन एसबीआई शाखा सांगरिया मुर्तहीन () |

| | | | | | |
|-----|-------|------|------|--------|--|
| | | | | | () |
| 153 | 6//5 | निजी | कृषि | 0.0062 | शंकर लाल पुत्र दूनी राम 1/2 भाग, सूर्या पुत्री रत्ती राम, रामस्वरूप, जगदीश, श्योप्रकाश पुत्र रत्ती राम, रोशनी देवी, उर्मिला देवी पुत्री रत्ती राम 1/2 भाग, कॉम जाट साकिन मल्लडखेडा खातेदार रहन एसबीआई शाखा सांगरिया मुर्तहीन (6//5 (खाला)) |
| 154 | 6//6 | निजी | कृषि | 0.2294 | सोहन, मनीराम पुत्रान बीरबल राम, कोम जाट साकिन मल्लडखेडा खातेदार रेहन एसबीबीजे शाखा सांगरिया मुर्तहीन () |
| 155 | 6//7 | निजी | कृषि | 0.0082 | भादर पुत्र नानू राम, कॉम जाट साकिन मल्लडखेडा खातेदार () |
| 156 | 6//14 | निजी | कृषि | 0.1037 | केसर देवी पत्नी सहीराम 1/6 भाग, कृष्ण चंद, राजाराम, जोतराम, श्योपाल पुत्रान सहीराम 2/3 भाग सरोज पत्नी रामेश्वर लाल, सुरेश पुत्रान रामेश्वर लाल, कविता पुत्री रामेश्वर लाल 1 / 6 भाग, कॉम जाट साकिन मल्लडखेडा खातेदार रहन कृष्ण चंद, राजाराम, जोतराम, श्योपाल भाग, एसबीआई शाखा सांगरिया मुर्तहीन () |
| 157 | 6//15 | निजी | कृषि | 0.25 | सोहन, मनीराम पुत्रान बीरबल राम, कोम जाट साकिन मल्लडखेडा खातेदार रहन एसबीबीजे शाखा सांगरिया मुर्तहीन () |
| 158 | 6//16 | निजी | कृषि | 0.1666 | केसर देवी पत्नी सहीराम 1/6 भाग, कृष्ण चंद, राजाराम, जोतराम, श्योपाल पुत्रान सहीराम 2/3 भाग सरोज पत्नी रामेश्वर लाल, सुरेश पुत्रान रामेश्वर लाल, कविता पुत्री रामेश्वर लाल 1 / 6 भाग, कॉम जाट साकिन मल्लडखेडा खातेदार रहन कृष्ण चंद, राजाराम, जोतराम, श्योपाल भाग, एसबीआई शाखा सांगरिया मुर्तहीन () |

| | | | | | |
|-----|-------|------|------|--------|--|
| 159 | 6//17 | निजी | कृषि | 0.2192 | केसर देवी पत्नी सहीराम 1/6 भाग, कृष्ण चंद, राजाराम, जोतराम, श्योपाल पुत्रान सहीराम 2/3 भाग सरोज पत्नी रामेश्वर लाल, सुरेश पुत्रान रामेश्वर लाल, कविता पुत्री रामेश्वर लाल 1 / 6 भाग, कॉम जाट साकिन मल्लडखेडा खातेदार रहन कृष्ण चंद, राजाराम, जोतराम, श्योपाल भाग, एसबीआई शाखा सांगरिया मुर्तहीन () |
| 160 | 6//18 | निजी | कृषि | 0.0036 | केसर देवी पत्नी सहीराम 1/6 भाग, कृष्ण चंद, राजाराम, जोतराम, श्योपाल पुत्रान सहीराम 2/3 भाग सरोज पत्नी रामेश्वर लाल, सुरेश पुत्रान रामेश्वर लाल, कविता पुत्री रामेश्वर लाल 1 / 6 भाग, कॉम जाट साकिन मल्लडखेडा खातेदार रहन कृष्ण चंद, राजाराम, जोतराम, श्योपाल भाग, एसबीआई शाखा सांगरिया मुर्तहीन () |
| 161 | 6//23 | निजी | कृषि | 0.0891 | शांति पुत्री राम चंद, कॉम अरोडा साकिन मल्लडखेडा, खातेदार () |
| 162 | 6//24 | निजी | कृषि | 0.2523 | केसर देवी पत्नी सहीराम 1/6 भाग, कृष्ण चंद, राजाराम, जोतराम, श्योपाल पुत्रान सहीराम 2/3 भाग सरोज पत्नी रामेश्वर लाल, सुरेश पुत्रान रामेश्वर लाल, कविता पुत्री रामेश्वर लाल 1 / 6 भाग, कॉम जाट साकिन मल्लडखेडा खातेदार रहन कृष्ण चंद, राजाराम, जोतराम, श्योपाल भाग, एसबीआई शाखा सांगरिया मुर्तहीन () |
| 163 | 6//25 | निजी | कृषि | 0.0481 | केसर देवी पत्नी सहीराम 1/6 भाग, कृष्ण चंद, राजाराम, जोतराम, श्योपाल पुत्रान सहीराम 2/3 भाग सरोज पत्नी रामेश्वर लाल, सुरेश पुत्रान रामेश्वर लाल, कविता पुत्री रामेश्वर लाल 1 / 6 भाग, कॉम जाट साकिन मल्लडखेडा खातेदार रहन कृष्ण चंद, राजाराम, जोतराम, श्योपाल भाग, |

| | | | | | |
|-----|--------|------|------|--------|---|
| | | | | | एसबीआई शाखा सांगरिया मुर्तहीन () |
| 164 | 13//2 | निजी | कृषि | 0.0009 | मलकीयत सिंह पुत्र सजन सिंह, कॉम जटसिख साकिन नगराना खातेदार () |
| 165 | 13//3 | निजी | कृषि | 0.2073 | संदीप कौर पत्नी सुखमन्दर सिंह, सुखपाल कौर पत्नी गुरदीप सिंह, कॉम जटसिख साकिन मल्लडखेडा खातेदार () |
| 166 | 13//4 | निजी | कृषि | 0.1811 | संदीप कौर पत्नी सुखमन्दर सिंह, सुखपाल कौर पत्नी गुरदीप सिंह, कॉम जटसिख साकिन मल्लडखेडा खातेदार () |
| 167 | 13//7 | निजी | कृषि | 0.0619 | कृपाल सिंह पुत्र पहाड सिंह, कॉम जटसिख साकिन सुरेवाला अलोटी गैर खातेदार () |
| 168 | 13//8 | निजी | कृषि | 0.127 | सन्दीप कौर पत्नी सुखमन्दर सिंह, सुखपाल कौर पत्नी गुरदीप सिंह कॉम जटसिख साकिन मल्लडखेडा खातेदार () |
| 169 | 13//9 | निजी | कृषि | 0.0745 | मलकीयत सिंह पुत्र सजन सिंह, कॉम जटसिख साकिन नगराना खातेदार () |
| 170 | 13//12 | निजी | कृषि | 0.1936 | मलकीत सिंह पुत्र साजन सिंह, कॉम जटसिख साकिन नगराना खातेदार () |
| 171 | 13//13 | निजी | कृषि | 0.1957 | मलकीत सिंह पुत्र साजन सिंह, कॉम जटसिख साकिन नगराना खातेदार () |
| 172 | 13//18 | निजी | कृषि | 0.0765 | कृपाल सिंह पुत्र पहाड सिंह, कॉम जटसिख साकिन सुरेवाला अलोटी गैर खातेदार () |
| 173 | 13//19 | निजी | कृषि | 0.253 | कृपाल सिंह पुत्र पहाड सिंह, कॉम जटसिख साकिन सुरेवाला अलोटी गैर खातेदार () |
| 174 | 13//20 | निजी | कृषि | 0.0599 | कृपाल सिंह पुत्र पहाड सिंह, कॉम जटसिख |

| | | | | | |
|-----|--------|------|------|--------|---|
| | | | | | साकिन सुरेवाला अलोटी गैर खातेदार () |
| 175 | 13//21 | निजी | कृषि | 0.1792 | कलावती पत्नी दुर्गा राम 1/7 भाग, ओमप्रकाश, रामेश्वर लाल, जगदीश पुत्रान दुर्गा राम 6/7 भाग, कोम जाट साकिन मल्लडखेडा खातेदार रहन ओमप्रकाश रामेश्वर लाल, जगदीश, ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन () |
| 176 | 13//22 | निजी | कृषि | 0.2092 | कृपाल सिंह पुत्र पहाड सिंह, कॉम जटसिख साकिन सुरेवाला अलोटी गैर खातेदार () |
| 177 | 13//23 | निजी | कृषि | 0.0014 | कृपाल सिंह पुत्र पहाड सिंह, कॉम जटसिख साकिन सुरेवाला अलोटी गैर खातेदार () |
| 178 | 14//1 | निजी | कृषि | 0.228 | कृपाल सिंह पुत्र पहाड सिंह, कॉम जटसिख साकिन सुरेवाला अलोटी गैर खातेदार () |
| 179 | 14//1 | निजी | कृषि | 0.025 | कृपाल सिंह पुत्र पहाड सिंह, कॉम जटसिख साकिन सुरेवाला अलोटी गैर खातेदार (14//1 (रास्ता)) |
| 180 | 14//2 | निजी | कृषि | 0.0771 | चतर सिंह पुत्र बजीर सिंह, कॉम बावरी साकिन मल्लडखेडा अलोटी गैर खातेदार () |
| 181 | 14//2 | निजी | कृषि | 0.0142 | चतर सिंह पुत्र बजीर सिंह, कॉम बावरी साकिन मल्लडखेडा अलोटी गैर खातेदार (14//2 (रास्ता)) |
| 182 | 14//9 | निजी | कृषि | 0.0042 | चतर सिंह पुत्र बजीर सिंह, कॉम बावरी साकिन मल्लडखेडा अलोटी गैर खातेदार () |
| 183 | 14//10 | निजी | कृषि | 0.2209 | कृपाल सिंह पुत्र पहाड सिंह, कॉम जटसिख साकिन सुरेवाला अलोटी गैर खातेदार () |
| 184 | 14//11 | निजी | कृषि | 0.1059 | छतर सिंह पुत्र बजीर सिंह, कॉम बावरी साकिन मल्लडखेडा अलोटी गैर खातेदार () |

| | | | | | |
|-----|--------|------|------|--------|---|
| 185 | 14//20 | निजी | कृषि | 0.0091 | नरेंद्र कुमार पुत्र तुलछी राम, अरुण कुमार पुत्र सुरेंद्र कुमार, कोम जाट साकिन नगराना खातेदार रहन ओबीसी बैंक शाखा नगराना मुर्तहीन () |
| 186 | 15//5 | निजी | कृषि | 0.0248 | कलावती पत्नी दुर्गा राम 1/7 भाग, ओमप्रकाश, रामेश्वर लाल, जगदीश पुत्रान दुर्गा राम 6/7 भाग, कोम जाट साकिन मल्हडखेडा खातेदार रहन ओमप्रकाश रामेश्वर लाल, जगदीश, ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन () |
| 187 | 15//5 | निजी | कृषि | 0.0195 | कलावती पत्नी दुर्गा राम 1/7 भाग, ओमप्रकाश, रामेश्वर लाल, जगदीश पुत्रान दुर्गा राम 6/7 भाग, कोम जाट साकिन मल्हडखेडा खातेदार रहन ओमप्रकाश रामेश्वर लाल, जगदीश, ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन (15//5 (खाला)) |
| 188 | 15//6 | निजी | कृषि | 0.1396 | कलावती पत्नी दुर्गा राम 1/7 भाग, ओमप्रकाश, रामेश्वर लाल, जगदीश पुत्रान दुर्गा राम 6/7 भाग, कोम जाट साकिन मल्हडखेडा खातेदार रहन ओमप्रकाश रामेश्वर लाल, जगदीश, ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन () |
| 189 | 15//6 | निजी | कृषि | 0.025 | कलावती पत्नी दुर्गा राम 1/7 भाग, ओमप्रकाश, रामेश्वर लाल, जगदीश पुत्रान दुर्गा राम 6/7 भाग, कोम जाट साकिन मल्हडखेडा खातेदार रहन ओमप्रकाश रामेश्वर लाल, जगदीश, ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन (15//6 (खाला)) |
| 190 | 15//14 | निजी | कृषि | 0.0342 | भाग सिंह पुत्र ज्ञान सिंह, कोम रायसिख साकिन मल्लडखेडा आवंटी गैर खातेदार () |
| 191 | 13//8 | निजी | कृषि | 0.126 | मलकीयत सिंह पुत्र सजन सिंह, कॉम जटसिख साकिन नगराना खातेदार |

| | | | | | |
|-----|--------|------|------|--------|---|
| | | | | | () |
| 192 | 15//15 | निजी | कृषि | 0.2245 | चतर सिंह पुत्र बजीर सिंह, कॉम बावरी साकिन मल्लडखेडा अलोटी गैर खातेदार () |
| 193 | 15//15 | निजी | कृषि | 0.025 | चतर सिंह पुत्र बजीर सिंह, कॉम बावरी साकिन मल्लडखेडा अलोटी गैर खातेदार (15//15 (खला)) |
| 194 | 15//16 | निजी | कृषि | 0.2185 | चतर सिंह पुत्र बजीर सिंह, कॉम बावरी साकिन मल्लडखेडा अलोटी गैर खातेदार () |
| 195 | 15//16 | निजी | कृषि | 0.0123 | चतर सिंह पुत्र बजीर सिंह, कॉम बावरी साकिन मल्लडखेडा अलोटी गैर खातेदार (15//16 (खाला)) |
| 196 | 15//17 | निजी | कृषि | 0.1498 | भाग सिंह पुत्र ज्ञान सिंह, कोम रायसिख साकिन मल्लडखेडा आवंट गैर खातेदार () |
| 197 | 15//23 | निजी | कृषि | 0.0239 | दलीप कौर पत्नी पहाड सिंह 0.106 हिस्सा अमरजीत कौर पुत्री पहाड सिंह 0.120 हिस्सा जगतार सिंह पुत्र पहाड सिंह 0.120 हिस्सा जगजीत सिंह पुत्र हरदयाल सिंह 0.903 हिस्सा देवेन्द्र सिंह पुत्र मलकीत सिंह 0.902 हिस्सा गुरमेल सिंह पुत्र मंहगा सिंह 0.885 हिस्सा मलकीत सिंह पुत्र हरदयाल सिंह 0.018 हिस्सा कौम जटसिख साकिन नगराना परविन्द्र कौर पत्नी गुरमीत सिंह 0.557 हिस्सा जाति जटसिख साकिन 76 मिनी सचिवालय, न्यू सिविल लाईन, वार्ड नं; 1 हनुमानगढ़ जंक्शन मीरा देवी पुत्री देवसी राम पत्नी राजकपूर उर्फ मोहन लाल 0.506 हिस्सा बृजलाल देवीलाल ओमप्रकाश मीरा देवी शारदा देवी पुत्रियां केसर देवी पत्नी देवसी राम हर समभाग 1.771 भाग कौम जाट साकिन नगराना खातेदार रहन मीरा देवी ओ बी सी नगराना देवेन्द्र सिंह स्टेट बैंक ऑफ पटियाला संगरिया () |

| | | | | | |
|-----|--------|------|------|--------|--|
| 198 | 15//24 | निजी | कृषि | 0.2449 | चतर सिंह पुत्र बजीर सिंह, कॉम बावरी साकिन मल्लडखेडा अलोटी गैर खातेदार () |
| 199 | 15//25 | निजी | कृषि | 0.1208 | चतर सिंह पुत्र बजीर सिंह, कॉम बावरी साकिन मल्लडखेडा अलोटी गैर खातेदार () |
| 200 | 20//3 | निजी | कृषि | 0.1275 | गुरमीत सिंह पुत्र टेक सिंह, कॉम जटसिख साकिन नगराना खातेदार रहन ओबीसी शाखा सांगरिया, मुर्तहीन () |
| 201 | 20//3 | निजी | कृषि | 0.0079 | गुरमीत सिंह पुत्र टेक सिंह, कॉम जटसिख साकिन नगराना खातेदार रहन ओबीसी शाखा सांगरिया, मुर्तहीन (20//3 (खाला)) |
| 202 | 20//4 | निजी | कृषि | 0.2138 | चतर सिंह पुत्र बजीर सिंह, कॉम बावरी साकिन मल्लडखेडा अलोटी () |
| 203 | 20//4 | निजी | कृषि | 0.025 | चतर सिंह पुत्र बजीर सिंह, कॉम बावरी साकिन मल्लडखेडा अलोटी (20//4 (खाला)) |
| 204 | 20//5 | निजी | कृषि | 0.0105 | चतर सिंह पुत्र बजीर सिंह, कॉम बावरी साकिन मल्लडखेडा अलोटी () |
| 205 | 20//5 | निजी | कृषि | 0.0052 | चतर सिंह पुत्र बजीर सिंह, कॉम बावरी साकिन मल्लडखेडा अलोटी (20//5 (खाला)) |
| 206 | 20//7 | निजी | कृषि | 0.135 | पृथ्वी राज, चुन्नी लाल, धर्मपाल, भूप सिंह पुत्र हुकमा राम जाति जाट साकिन मल्लडखेडा खातेदार () |
| 207 | 20//8 | निजी | कृषि | 0.2388 | गुरमीत सिंह पुत्र टेक सिंह, कॉम जटसिख साकिन नगराना खातेदार रहन ओबीसी शाखा सांगरिया, मुर्तहीन () |
| 208 | 20//9 | निजी | कृषि | 0.0156 | दलीप कौर पत्नी पहाड सिंह 0.106 हिस्सा अमरजीत कौर पुत्री पहाड सिंह |

| | | | | | |
|-----|--------|------|------|--------|--|
| | | | | | <p>0.120 हिस्सा जगतार सिंह पुत्र पहाड सिंह 0.120 हिस्सा जगजीत सिंह पुत्र हरदयाल सिंह 0.903 हिस्सा देवेन्द्र सिंह पुत्र मलकीत सिंह 0.902 हिस्सा गुरमेल सिंह पुत्र मंहगा सिंह 0.885 हिस्सा मलकीत सिंह पुत्र हरदयाल सिंह 0.018 हिस्सा कौम जटसिख साकिन नगराना परविन्द्र कौर पत्नी गुरमीत सिंह 0.557 हिस्सा जाति जटसिख साकिन 76 मिनी सचिवालय, न्यू सिविल लाईन, वार्ड नं; 1 हनुमानगढ़ जंक्शन मीरा देवी पुत्री देवसी राम पत्नी राजकपूर उर्फ मोहन लाल</p> <p>0.506 हिस्सा बृजलाल देवीलाल ओमप्रकाश मीरा देवी शारदा देवी पुत्रियां केसर देवी पत्नी देवसी राम हर समभाग 1.771 भाग कौम जाट साकिन नगराना खातेदार रहन मीरा देवी ओ बी सी नगराना देवेन्द्र सिंह स्टेट बैंक ऑफ पटियाला संगरिया</p> <p>()</p> |
| 209 | 20//12 | निजी | कृषि | 0.1206 | <p>दलीप कौर पत्नी पहाड सिंह 0.106 हिस्सा अमरजीत कौर पुत्री पहाड सिंह 0.120 हिस्सा जगतार सिंह पुत्र पहाड सिंह 0.120 हिस्सा जगजीत सिंह पुत्र हरदयाल सिंह 0.903 हिस्सा देवेन्द्र सिंह पुत्र मलकीत सिंह 0.902 हिस्सा गुरमेल सिंह पुत्र मंहगा सिंह 0.885 हिस्सा मलकीत सिंह पुत्र हरदयाल सिंह 0.018 हिस्सा कौम जटसिख साकिन नगराना परविन्द्र कौर पत्नी गुरमीत सिंह 0.557 हिस्सा जाति जटसिख साकिन 76 मिनी सचिवालय, न्यू सिविल लाईन, वार्ड नं; 1 हनुमानगढ़ जंक्शन मीरा देवी पुत्री देवसी राम पत्नी राजकपूर उर्फ मोहन लाल</p> <p>0.506 हिस्सा बृजलाल देवीलाल ओमप्रकाश मीरा देवी शारदा देवी पुत्रियां केसर देवी पत्नी देवसी राम हर समभाग 1.771 भाग कौम जाट साकिन नगराना खातेदार रहन मीरा देवी ओ बी सी नगराना देवेन्द्र सिंह स्टेट बैंक ऑफ</p> |

| | | | | | |
|-----|--------|------|------|--------|---|
| | | | | | पटियाला संगरिया () |
| 210 | 20//13 | निजी | कृषि | 0.2449 | गुरमीत सिंह पुत्र टेक सिंह, कॉम जटसिख साकिन नगराना खातेदार रेहन ओबीसी शाखा सांगरिया, मुर्तहीन () |
| 211 | 20//14 | निजी | कृषि | 0.0238 | पृथ्वी राज, चुन्नी लाल, धर्मपाल, भूप सिंह पुत्र हुकमा राम जाति जाट साकिन मल्हडखेडा खातेदार () |
| 212 | 20//18 | निजी | कृषि | 0.1496 | गुरमीत सिंह पुत्र टेक सिंह, कॉम जटसिख साकिन नगराना खातेदार रेहन ओबीसी शाखा सांगरिया, मुर्तहीन () |
| 213 | 20//19 | निजी | कृषि | 0.2307 | दलीप कौर पत्नी पहाड सिंह 0.106 हिस्सा अमरजीत कौर पुत्री पहाड सिंह 0.120 हिस्सा जगतार सिंह पुत्र पहाड सिंह 0.120 हिस्सा जगजीत सिंह पुत्र हरदयाल सिंह 0.903 हिस्सा देवेन्द्र सिंह पुत्र मलकीत सिंह 0.902 हिस्सा गुरमेल सिंह पुत्र मंहगा सिंह 0.885 हिस्सा मलकीत सिंह पुत्र हरदयाल सिंह 0.018 हिस्सा कौम जटसिख साकिन नगराना परविन्द्र कौर पत्नी गुरमीत सिंह 0.557 हिस्सा जाति जटसिख साकिन 76 मिनी सचिवालय, न्यू सिविल लाईन, वार्ड नं; 1 हनुमानगढ़ जंक्शन मीरा देवी पुत्री देवसी राम पत्नी राजकपूर उर्फ मोहन लाल 0.506 हिस्सा वृजलाल देवीलाल ओमप्रकाश मीरा देवी शारदा देवी पुत्रियां केसर देवी पत्नी देवसी राम हर समभाग 1.771 भाग कौम जाट साकिन नगराना खातेदार रहन मीरा देवी ओ बी सी नगराना देवेन्द्र सिंह स्टेट बैंक ऑफ पटियाला संगरिया () |
| 214 | 20//20 | निजी | कृषि | 0.009 | Ramlal, Ranvir s/o Hariram Kamla, Sumitra D/o's Hariram all |

| | | | | | |
|-----|--------|------|------|--------|--|
| | | | | | share eqaul koun Jaat sakin Malladkheda khatedar () |
| 215 | 20//21 | निजी | कृषि | 0.1059 | Ramlal, Ranvir s/o Hariram Kamla, Sumitra D/o's Hariram all share eqaul koun Jaat sakin Malladkheda khatedar () |
| 216 | 20//22 | निजी | कृषि | 0.2493 | राम लाल पुत्र हरि राम, काँम जाट साकिन मल्लडखेडा खातेदार रहन 1.696 भाग, ओबीसी नगराना मुर्तहीन () |
| 217 | 20//23 | निजी | कृषि | 0.0339 | राम लाल पुत्र हरि राम, काँम जाट साकिन मल्लडखेडा खातेदार रहन 1.696 भाग, ओबीसी नगराना मुर्तहीन () |
| 218 | 25//1 | निजी | कृषि | 0.2042 | राम लाल पुत्र हरि राम, काँम जाट साकिन मल्लडखेडा खातेदार रहन 1.696 भाग, ओबीसी नगराना मुर्तहीन () |
| 219 | 25//1 | निजी | कृषि | 0.0169 | राम लाल पुत्र हरि राम, काँम जाट साकिन मल्लडखेडा खातेदार रहन 1.696 भाग, ओबीसी नगराना मुर्तहीन (25//1 (रास्ता)) |
| 220 | 25//2 | निजी | कृषि | 0.1428 | राम लाल पुत्र हरि राम, काँम जाट साकिन मल्लडखेडा खातेदार रहन 1.696 भाग, ओबीसी नगराना मुर्तहीन () |
| 221 | 25//2 | निजी | कृषि | 0.0216 | राम लाल पुत्र हरि राम, काँम जाट साकिन मल्लडखेडा खातेदार रहन 1.696 भाग, ओबीसी नगराना मुर्तहीन (25//2 (रास्ता)) |
| 222 | 25//9 | निजी | कृषि | 0.0459 | राम लाल पुत्र हरि राम, काँम जाट साकिन मल्लडखेडा खातेदार रहन 1.696 भाग, ओबीसी नगराना मुर्तहीन () |

| | | | | | |
|-----|--------|------|------|--------|--|
| 223 | 25//10 | निजी | कृषि | 0.2521 | राम लाल पुत्र हरि राम, कौम जाट साकिन मल्लडखेडा खातेदार रहन 1.696 भाग, ओबीसी नगराना मुर्तहीन () |
| 224 | 25//11 | निजी | कृषि | 0.1788 | जगदीश सिंह वल्द दलीप सिंह 1/30 हिस्सा रणजीत कौर पत्नी जगदीश सिंह 1/15 हिस्सा राजेन्द्र सिंह वल्द दलीप सिंह बहिव 1/10 हिस्सा, पृथ्वी सिंह, प्रीतम सिंह, निहाल सिंह, मान सिंह, मकखन सिंह, अमर सिंह पिता गजन सिंह, गुरमीत कौर पुत्री गजन सिंह बहिव 0.158 है0 कौम मजहबी साकिन 7 एल.एम.डी.बी. तहसील घडसाना अग्रेज कौर पत्नी फूलासिंह, हरदेव सिंह, हरदीप सिंह पिता फूला सिंह परम कौर इन्द्रा कौर सोमा कौर मनजीत कौर पिता फूलासिंह 1/5 हिस्सा बलवन्त सिंह, आत्मा सिंह, महावीर सिंह, भगवान सिंह, जसवन्त सिंह पिता कृपाल सिंह सावित्री कौर पुत्री कृपाल सिंह 1/5 हिस्सा अजमेर कौर पत्नी जगर सिंह राजा सिंह, मनीसिंह, बलविन्द्र सिंह, कर्मजीत कौर, नरिन्द्र कौर, कीडो कौर, मंगू कौर पिता जगर सिंह 1/5 हिस्सा जाति मजहबी पृथ्वीराज पुत्र चेताराम मेघवाल साकिन नगराना 1.107 है0 खातेदार () |
| 225 | 25//20 | निजी | कृषि | 0.0596 | भीखा राम पुत्र तेजा राम, कोम नायक साकिन मल्लडखेडा खातेदार () |
| 226 | 26//5 | निजी | कृषि | 0.0042 | रामलाल, रणवीर पिता हरीराम कमला, सुमित्रा पुत्रियां हरीराम बहिव कौम जाट साकिन मल्लडखेडा खातेदार () |
| 227 | 26//6 | निजी | कृषि | 0.0914 | रामलाल, रणवीर पिता हरीराम कमला, सुमित्रा पुत्रियां हरीराम बहिव कौम जाट साकिन मल्लडखेडा खातेदार () |
| 228 | 26//14 | निजी | कृषि | 0.0012 | मामचंद, सहीराम, संत राम, चुनी लाल, |

| | | | | | |
|-----|--------|------|------|--------|---|
| | | | | | राम प्रताप पुत्र बहादुर राम, कोम जाट साकिन नगराना खातेदार, रामप्रताप रेहन ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन () |
| 229 | 26//15 | निजी | कृषि | 0.2093 | रामलाल, रणवीर पिता हरीराम कमला, सुमित्रा पुत्रियां हरीराम बहिव कौम जाट साकिन मल्लडखेडा खातेदार () |
| 230 | 26//16 | निजी | कृषि | 0.253 | मामचंद, सहीराम, संत राम, चुनी लाल, राम प्रताप पुत्र बहादुर राम, कोम जाट साकिन नगराना खातेदार, रामप्रताप रहन ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन () |
| 231 | 26//17 | निजी | कृषि | 0.0768 | मामचंद, सहीराम, संत राम, चुनी लाल, राम प्रताप पुत्र बहादुर राम, कोम जाट साकिन नगराना खातेदार, रामप्रताप रहन ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन () |
| 232 | 26//24 | निजी | कृषि | 0.1959 | नरेंद्र कुमार पुत्र तुलछी राम, अरुण कुमार पुत्र सुरेंद्र कुमार, कोम जाट साकिन नगराना खातेदार रहन ओबीसी बैंक शाखा नगराना मुर्तहीन () |
| 233 | 26//25 | निजी | कृषि | 0.1934 | नरेंद्र कुमार पुत्र तुलछी राम, अरुण कुमार पुत्र सुरेंद्र कुमार, कोम जाट साकिन नगराना खातेदार रहन ओबीसी बैंक शाखा नगराना मुर्तहीन () |
| 234 | 29//3 | निजी | कृषि | 0.0618 | नरेंद्र कुमार पुत्र तुलछी राम, अरुण कुमार पुत्र सुरेंद्र कुमार, कोम जाट साकिन नगराना खातेदार रहन ओबीसी बैंक शाखा नगराना मुर्तहीन () |
| 235 | 29//3 | निजी | कृषि | 0.0006 | नरेंद्र कुमार पुत्र तुलछी राम, अरुण कुमार पुत्र सुरेंद्र कुमार, कोम जाट साकिन नगराना खातेदार रहन ओबीसी बैंक शाखा नगराना मुर्तहीन |

| | | | | | |
|-----|--------|------|------|--------|---|
| | | | | | (29//3 (खाला)) |
| 236 | 29//4 | निजी | कृषि | 0.228 | उग्रसेन, सतपाल पुत्रान श्योकरन, कोम जाट साकिन नगराना खातेदार रहन ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन () |
| 237 | 29//4 | निजी | कृषि | 0.025 | उग्रसेन, सतपाल पुत्रान श्योकरन, कोम जाट साकिन नगराना खातेदार रहन ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन (29//4 (खाला)) |
| 238 | 29//5 | निजी | कृषि | 0.0619 | उग्रसेन, सतपाल पुत्रान श्योकरन, कोम जाट साकिन नगराना खातेदार रहन ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन () |
| 239 | 29//5 | निजी | कृषि | 0.0125 | उग्रसेन, सतपाल पुत्रान श्योकरन, कोम जाट साकिन नगराना खातेदार रहन ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन (29//5 (खाला)) |
| 240 | 29//6 | निजी | कृषि | 0.0009 | उग्रसेन, सतपाल पुत्रान श्योकरन, कोम जाट साकिन नगराना खातेदार रहन ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन () |
| 241 | 29//7 | निजी | कृषि | 0.2071 | उग्रसेन, सतपाल पुत्रान श्योकरन, कोम जाट साकिन नगराना खातेदार रहन ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन () |
| 242 | 29//8 | निजी | कृषि | 0.1813 | नरेंद्र कुमार पुत्र तुलछी राम, अरुण कुमार पुत्र सुरेंद्र कुमार, कोम जाट साकिन नगराना खातेदार रहन ओबीसी बैंक शाखा नगराना मुर्तहीन () |
| 243 | 29//12 | निजी | कृषि | 0.0482 | नरेंद्र कुमार पुत्र तुलछी राम, अरुण कुमार पुत्र सुरेंद्र कुमार, कोम जाट साकिन नगराना खातेदार रहन ओबीसी बैंक शाखा नगराना मुर्तहीन () |
| 244 | 29//13 | निजी | कृषि | 0.2523 | नरेंद्र कुमार पुत्र तुलछी राम, अरुण कुमार पुत्र सुरेंद्र कुमार, कोम जाट साकिन नगराना खातेदार रहन ओबीसी बैंक शाखा |

| | | | | | |
|-----|--------|------|------|--------|--|
| | | | | | नगराना मुर्तहीन () |
| 245 | 29//14 | निजी | कृषि | 0.0888 | उग्रसेन, सतपाल पुत्रान श्योकरन, कोम जाट साकिन नगराना खातेदार रेहन ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन () |
| 246 | 29//17 | निजी | कृषि | 0.0036 | उग्रसेन, सतपाल पुत्रान श्योकरन, कोम जाट साकिन नगराना खातेदार रेहन ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन () |
| 247 | 29//18 | निजी | कृषि | 0.219 | नरेंद्र कुमार पुत्र तुलछी राम, अरुण कुमार पुत्र सुरेंद्र कुमार, कोम जाट साकिन नगराना खातेदार रहन ओबीसी बैंक शाखा नगराना मुर्तहीन () |
| 248 | 29//19 | निजी | कृषि | 0.1667 | मनसी देवी पत्नी आईदान 1/9 भाग भादरराम, धर्मपाल, कृष्ण लाल, श्योपत, रोहताश पुत्रान आईदान 5/9 भाग, संतोष, निर्मला, सुमित्रा पुत्रिया आईदान 3/9 भाग, कॉम जाट साकिन नगराना खातेदार रहन भादरराम, कृष्ण लाल, धर्मपाल, श्योपत पुत्रान आईदान 4/9 भाग, ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन रहन रोहिताश एस बी आई संगरिया () |
| 249 | 29//21 | निजी | कृषि | 0.0359 | मनसी देवी पत्नी आईदान 1/9 भाग भादरराम, धर्मपाल, कृष्ण लाल, श्योपत, रोहताश पुत्रान आईदान 5/9 भाग, संतोष, निर्मला, सुमित्रा पुत्रिया आईदान 3/9 भाग, कॉम जाट साकिन नगराना खातेदार रहन भादरराम, कृष्ण लाल, धर्मपाल, श्योपत पुत्रान आईदान 4/9 भाग, ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन रहन रोहिताश एस बी आई संगरिया () |
| 250 | 29//22 | निजी | कृषि | 0.25 | मनसी देवी पत्नी आईदान 1/9 भाग भादरराम, धर्मपाल, कृष्ण लाल, श्योपत, |

| | | | | | |
|-----|--------|------|------|--------|--|
| | | | | | रोहताश पुत्रान आईदान 5/9 भाग, संतोष, निर्मला, सुमित्रा पुत्रिया आईदान 3/9 भाग, कॉम जाट साकिन नगराना खातेदार रहन भादरराम, कृष्ण लाल, धर्मपाल, श्योपत पुत्रान आईदान 4/9 भाग, ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन रहन रोहिताश एस बी आई संगरिया () |
| 251 | 29//23 | निजी | कृषि | 0.1034 | मनसी देवी पत्नी आईदान 1/9 भाग भादरराम, धर्मपाल, कृष्ण लाल, श्योपत, रोहताश पुत्रान आईदान 5/9 भाग, संतोष, निर्मला, सुमित्रा पुत्रिया आईदान 3/9 भाग, कॉम जाट साकिन नगराना खातेदार रहन भादरराम, कृष्ण लाल, धर्मपाल, श्योपत पुत्रान आईदान 4/9 भाग, ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन रहन रोहिताश एस बी आई संगरिया () |
| 252 | 36//1 | निजी | कृषि | 0.1521 | भादरराम पुत्र वीरबल 1/3 भाग, पृथ्वी पुत्र वीरबल 2/3 हिस्सा कुल सात दर 2/8 हिस्सा, राजाराम, भूप सिंह, मोहनलाल, कृष्ण पुत्र गणपत राम बहिब 52 दर 2/8 हिस्सा, छोगा पुत्र दराम 1/4 हिस्सा, मनफूल पुत्र हुणता 1/4 भाग, सुल्तान, रूपराम पुत्रान बालूरम 1/4 हिस्सा, कॉम जाट साकिन नगराना खातेदार राजाराम, भूप सिंह, मोहन लाल, कृष्ण, ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन () |
| 253 | 36//2 | निजी | कृषि | 0.2292 | भादरराम पुत्र वीरबल 1/3 भाग, पृथ्वी पुत्र वीरबल 2/3 हिस्सा कुल सात दर 2/8 हिस्सा, राजाराम, भूप सिंह, मोहनलाल, कृष्ण पुत्र गणपत राम बहिब 52 दर 2/8 हिस्सा, छोगा पुत्र दराम 1/4 हिस्सा, मनफूल पुत्र हुणता 1/4 भाग, सुल्तान, रूपराम पुत्रान बालूरम 1/4 हिस्सा, कॉम जाट साकिन नगराना खातेदार राजाराम, |

| | | | | | |
|-----|--------|------|------|--------|---|
| | | | | | भूप सिंह, मोहन लाल, कृष्ण, ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन () |
| 254 | 36//3 | निजी | कृषि | 0.0081 | मनसी देवी पत्नी आईदान 1/9 भाग भादरराम, धर्मपाल, कृष्ण लाल, श्योपत, रोहताश पुत्रान आईदान 5/9 भाग, संतोष, निर्मला, सुमित्रा पुत्रिया आईदान 3/9 भाग, कॉम जाट साकिन नगराना खातेदार रहन भादरराम, कृष्ण लाल, धर्मपाल, श्योपत पुत्रान आईदान 4/9 भाग, ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन रहन रोहिताश एस बी आई संगरिया () |
| 255 | 36//9 | निजी | कृषि | 0.1181 | भादरराम पुत्र वीरबल 1/3 भाग, पृथ्वी पुत्र वीरबल 2/3 हिस्सा कुल सात दर 2/8 हिस्सा, राजाराम, भूप सिंह, मोहनलाल, कृष्ण पुत्र गणपत राम बहिब 52 दर 2/8 हिस्सा, छोगा पुत्र दराम 1/4 हिस्सा, मनफूल पुत्र हुणता 1/4 भाग, सुल्तान, रूपराम पुत्रान बालूरम 1/4 हिस्सा, कॉम जाट साकिन नगराना खातेदार राजाराम, भूप सिंह, मोहन लाल, कृष्ण, ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन () |
| 256 | 36//10 | निजी | कृषि | 0.2458 | भादरराम पुत्र वीरबल 1/3 भाग, पृथ्वी पुत्र वीरबल 2/3 हिस्सा कुल सात दर 2/8 हिस्सा, राजाराम, भूप सिंह, मोहनलाल, कृष्ण पुत्र गणपत राम बहिब 52 दर 2/8 हिस्सा, छोगा पुत्र दराम 1/4 हिस्सा, मनफूल पुत्र हुणता 1/4 भाग, सुल्तान, रूपराम पुत्रान बालूरम 1/4 हिस्सा, कॉम जाट साकिन नगराना खातेदार राजाराम, भूप सिंह, मोहन लाल, कृष्ण, ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन () |
| 257 | 36//11 | निजी | कृषि | 0.0238 | भादरराम पुत्र वीरबल 1/3 भाग, पृथ्वी |

| | | | | | |
|-----|--------|------|------|--------|--|
| | | | | | पुत्र बीरबल 2/3 हिस्सा कुल सात दर 2/8 हिस्सा, राजाराम, भूप सिंह, मोहनलाल, कृष्ण पुत्र गणपत राम बहिब 52 दर 2/8 हिस्सा, छोगा पुत्र दराम 1/4 हिस्सा, मनफूल पुत्र हुणता 1/4 भाग, सुल्तान, रूपराम पुत्रान बालूरम 1/4 हिस्सा, कॉम जाट साकिन नगराना खातेदार राजाराम, भूप सिंह, मोहन लाल, कृष्ण, ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन () |
| 258 | 36//12 | निजी | कृषि | 0.0143 | भादरराम पुत्र बीरबल 1/3 भाग, पृथ्वी पुत्र बीरबल 2/3 हिस्सा कुल सात दर 2/8 हिस्सा, राजाराम, भूप सिंह, मोहनलाल, कृष्ण पुत्र गणपत राम बहिब 52 दर 2/8 हिस्सा, छोगा पुत्र दराम 1/4 हिस्सा, मनफूल पुत्र हुणता 1/4 भाग, सुल्तान, रूपराम पुत्रान बालूरम 1/4 हिस्सा, कॉम जाट साकिन नगराना खातेदार राजाराम, भूप सिंह, मोहन लाल, कृष्ण, ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन () |
| 259 | 36//20 | निजी | कृषि | 0.1327 | भादरराम पुत्र बीरबल 1/3 भाग, पृथ्वी पुत्र बीरबल 2/3 हिस्सा कुल सात दर 2/8 हिस्सा, राजाराम, भूप सिंह, मोहनलाल, कृष्ण पुत्र गणपत राम बहिब 52 दर 2/8 हिस्सा, छोगा पुत्र दराम 1/4 हिस्सा, मनफूल पुत्र हुणता 1/4 भाग, सुल्तान, रूपराम पुत्रान बालूरम 1/4 हिस्सा, कॉम जाट साकिन नगराना खातेदार राजाराम, भूप सिंह, मोहन लाल, कृष्ण, ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन () |
| 260 | 36//21 | निजी | कृषि | 0.0224 | भादरराम पुत्र बीरबल 1/3 भाग, पृथ्वी पुत्र बीरबल 2/3 हिस्सा कुल सात दर 2/8 हिस्सा, राजाराम, भूप सिंह, मोहनलाल, कृष्ण पुत्र गणपत राम बहिब 52 दर 2/8 हिस्सा, छोगा पुत्र दराम 1/4 हिस्सा, |

| | | | | | |
|-----|--------|------|------|--------|--|
| | | | | | मनफूल पुत्र हुणता 1/4 भाग, सुल्तान, रूपराम पुत्रान बालूरम 1/4 हिस्सा, कॉम जाट साकिन नगराना खातेदार राजाराम, भूप सिंह, मोहन लाल, कृष्ण, ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन () |
| 261 | 37//6 | निजी | कृषि | 0.0255 | भादरराम पुत्र वीरबल 1/3 भाग, पृथ्वी पुत्र वीरबल 2/3 हिस्सा कुल सात दर 2/8 हिस्सा, राजाराम, भूप सिंह, मोहनलाल, कृष्ण पुत्र गणपत राम बहिब 52 दर 2/8 हिस्सा, छोगा पुत्र दराम 1/4 हिस्सा, मनफूल पुत्र हुणता 1/4 भाग, सुल्तान, रूपराम पुत्रान बालूरम 1/4 हिस्सा, कॉम जाट साकिन नगराना खातेदार राजाराम, भूप सिंह, मोहन लाल, कृष्ण, ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन () |
| 262 | 37//15 | निजी | कृषि | 0.1375 | भादरराम पुत्र वीरबल 1/3 भाग, पृथ्वी पुत्र वीरबल 2/3 हिस्सा कुल सात दर 2/8 हिस्सा, राजाराम, भूप सिंह, मोहनलाल, कृष्ण पुत्र गणपत राम बहिब 52 दर 2/8 हिस्सा, छोगा पुत्र दराम 1/4 हिस्सा, मनफूल पुत्र हुणता 1/4 भाग, सुल्तान, रूपराम पुत्रान बालूरम 1/4 हिस्सा, कॉम जाट साकिन नगराना खातेदार राजाराम, भूप सिंह, मोहन लाल, कृष्ण, ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन () |
| 263 | 37//16 | निजी | कृषि | 0.2399 | भादरराम पुत्र वीरबल 1/3 भाग, पृथ्वी पुत्र वीरबल 2/3 हिस्सा कुल सात दर 2/8 हिस्सा, राजाराम, भूप सिंह, मोहनलाल, कृष्ण पुत्र गणपत राम बहिब 52 दर 2/8 हिस्सा, छोगा पुत्र दराम 1/4 हिस्सा, मनफूल पुत्र हुणता 1/4 भाग, सुल्तान, रूपराम पुत्रान बालूरम 1/4 हिस्सा, कॉम जाट साकिन नगराना खातेदार राजाराम, |

| | | | | | |
|-----|--------|------|------|--------|--|
| | | | | | भूप सिंह, मोहन लाल, कृष्ण, ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन () |
| 264 | 37//17 | निजी | कृषि | 0.0168 | भादरराम पुत्र वीरबल 1/3 भाग, पृथ्वी पुत्र वीरबल 2/3 हिस्सा कुल सात दर 2/8 हिस्सा, राजाराम, भूप सिंह, मोहनलाल, कृष्ण पुत्र गणपत राम बहिब 52 दर 2/8 हिस्सा, छोगा पुत्र दराम 1/4 हिस्सा, मनफूल पुत्र हुणता 1/4 भाग, सुल्तान, रूपराम पुत्रान बालूरम 1/4 हिस्सा, कॉम जाट साकिन नगराना खातेदार राजाराम, भूप सिंह, मोहन लाल, कृष्ण, ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन () |
| 265 | 37//24 | निजी | कृषि | 0.1229 | भादरराम पुत्र वीरबल 1/3 भाग, पृथ्वी पुत्र वीरबल 2/3 हिस्सा कुल सात दर 2/8 हिस्सा, राजाराम, भूप सिंह, मोहनलाल, कृष्ण पुत्र गणपत राम बहिब 52 दर 2/8 हिस्सा, छोगा पुत्र दराम 1/4 हिस्सा, मनफूल पुत्र हुणता 1/4 भाग, सुल्तान, रूपराम पुत्रान बालूरम 1/4 हिस्सा, कॉम जाट साकिन नगराना खातेदार राजाराम, भूप सिंह, मोहन लाल, कृष्ण, ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन () |
| 266 | 37//25 | निजी | कृषि | 0.244 | भादरराम पुत्र वीरबल 1/3 भाग, पृथ्वी पुत्र वीरबल 2/3 हिस्सा कुल सात दर 2/8 हिस्सा, राजाराम, भूप सिंह, मोहनलाल, कृष्ण पुत्र गणपत राम बहिब 52 दर 2/8 हिस्सा, छोगा पुत्र दराम 1/4 हिस्सा, मनफूल पुत्र हुणता 1/4 भाग, सुल्तान, रूपराम पुत्रान बालूरम 1/4 हिस्सा, कॉम जाट साकिन नगराना खातेदार राजाराम, भूप सिंह, मोहन लाल, कृष्ण, ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन () |

| | | | | | |
|-----|-------|------|------|--------|--|
| 267 | 38//3 | निजी | कृषि | 0.01 | भादरराम पुत्र वीरबल 1/3 भाग, पृथ्वी पुत्र वीरबल 2/3 हिस्सा कुल सात दर 2/8 हिस्सा, राजाराम, भूप सिंह, मोहनलाल, कृष्ण पुत्र गणपत राम बहिब 52 दर 2/8 हिस्सा, छोगा पुत्र दराम 1/4 हिस्सा, मनफूल पुत्र हुणता 1/4 भाग, सुल्तान, रूपराम पुत्रान बालूरम 1/4 हिस्सा, कॉम जाट साकिन नगराना खातेदार राजाराम, भूप सिंह, मोहन लाल, कृष्ण, ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन () |
| 268 | 38//4 | निजी | कृषि | 0.2321 | भादरराम पुत्र वीरबल 1/3 भाग, पृथ्वी पुत्र वीरबल 2/3 हिस्सा कुल सात दर 2/8 हिस्सा, राजाराम, भूप सिंह, मोहनलाल, कृष्ण पुत्र गणपत राम बहिब 52 दर 2/8 हिस्सा, छोगा पुत्र दराम 1/4 हिस्सा, मनफूल पुत्र हुणता 1/4 भाग, सुल्तान, रूपराम पुत्रान बालूरम 1/4 हिस्सा, कॉम जाट साकिन नगराना खातेदार राजाराम, भूप सिंह, मोहन लाल, कृष्ण, ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन () |
| 269 | 38//5 | निजी | कृषि | 0.1473 | भादरराम पुत्र वीरबल 1/3 भाग, पृथ्वी पुत्र वीरबल 2/3 हिस्सा कुल सात दर 2/8 हिस्सा, राजाराम, भूप सिंह, मोहनलाल, कृष्ण पुत्र गणपत राम बहिब 52 दर 2/8 हिस्सा, छोगा पुत्र दराम 1/4 हिस्सा, मनफूल पुत्र हुणता 1/4 भाग, सुल्तान, रूपराम पुत्रान बालूरम 1/4 हिस्सा, कॉम जाट साकिन नगराना खातेदार राजाराम, भूप सिंह, मोहन लाल, कृष्ण, ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन () |
| 270 | 38//6 | निजी | कृषि | 0.0323 | भादरराम पुत्र वीरबल 1/3 भाग, पृथ्वी पुत्र वीरबल 2/3 हिस्सा कुल सात दर 2/8 हिस्सा, राजाराम, भूप सिंह, मोहनलाल, |

| | | | | | |
|-----|--------|------|------|--------|--|
| | | | | | कृष्ण पुत्र गणपत राम बहिब 52 दर 2/8 हिस्सा, छोगा पुत्र दराम 1/4 हिस्सा, मनफूल पुत्र हुणता 1/4 भाग, सुल्तान, रूपराम पुत्रान बालूरम 1/4 हिस्सा, कॉम जाट साकिन नगराना खातेदार राजाराम, भूप सिंह, मोहन लाल, कृष्ण, ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन () |
| 271 | 38//7 | निजी | कृषि | 0.2488 | भादरराम पुत्र वीरबल 1/3 भाग, पृथ्वी पुत्र वीरबल 2/3 हिस्सा कुल सात दर 2/8 हिस्सा, राजाराम, भूप सिंह, मोहनलाल, कृष्ण पुत्र गणपत राम बहिब 52 दर 2/8 हिस्सा, छोगा पुत्र दराम 1/4 हिस्सा, मनफूल पुत्र हुणता 1/4 भाग, सुल्तान, रूपराम पुत्रान बालूरम 1/4 हिस्सा, कॉम जाट साकिन नगराना खातेदार राजाराम, भूप सिंह, मोहन लाल, कृष्ण, ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन () |
| 272 | 38//8 | निजी | कृषि | 0.1083 | भादरराम पुत्र वीरबल 1/3 भाग, पृथ्वी पुत्र वीरबल 2/3 हिस्सा कुल सात दर 2/8 हिस्सा, राजाराम, भूप सिंह, मोहनलाल, कृष्ण पुत्र गणपत राम बहिब 52 दर 2/8 हिस्सा, छोगा पुत्र दराम 1/4 हिस्सा, मनफूल पुत्र हुणता 1/4 भाग, सुल्तान, रूपराम पुत्रान बालूरम 1/4 हिस्सा, कॉम जाट साकिन नगराना खातेदार राजाराम, भूप सिंह, मोहन लाल, कृष्ण, ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन () |
| 273 | 38//12 | निजी | कृषि | 0.0049 | भादरराम पुत्र वीरबल 1/3 भाग, पृथ्वी पुत्र वीरबल 2/3 हिस्सा कुल सात दर 2/8 हिस्सा, राजाराम, भूप सिंह, मोहनलाल, कृष्ण पुत्र गणपत राम बहिब 52 दर 2/8 हिस्सा, छोगा पुत्र दराम 1/4 हिस्सा, मनफूल पुत्र हुणता 1/4 भाग, सुल्तान, रूपराम पुत्रान बालूरम 1/4 हिस्सा, कॉम |

| | | | | | |
|-----|--------|------|------|--------|--|
| | | | | | जाट साकिन नगराना खातेदार राजाराम, भूप सिंह, मोहन लाल, कृष्ण, ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन () |
| 274 | 38//13 | निजी | कृषि | 0.2226 | भादरराम पुत्र वीरबल 1/3 भाग, पृथ्वी पुत्र वीरबल 2/3 हिस्सा कुल सात दर 2/8 हिस्सा, राजाराम, भूप सिंह, मोहनलाल, कृष्ण पुत्र गणपत राम बहिब 52 दर 2/8 हिस्सा, छोगा पुत्र दराम 1/4 हिस्सा, मनफूल पुत्र हुणता 1/4 भाग, सुल्तान, रूपराम पुत्रान बालूरम 1/4 हिस्सा, कॉम जाट साकिन नगराना खातेदार राजाराम, भूप सिंह, मोहन लाल, कृष्ण, ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन () |
| 275 | 38//14 | निजी | कृषि | 0.1619 | भादरराम पुत्र वीरबल 1/3 भाग, पृथ्वी पुत्र वीरबल 2/3 हिस्सा कुल सात दर 2/8 हिस्सा, राजाराम, भूप सिंह, मोहनलाल, कृष्ण पुत्र गणपत राम बहिब 52 दर 2/8 हिस्सा, छोगा पुत्र दराम 1/4 हिस्सा, मनफूल पुत्र हुणता 1/4 भाग, सुल्तान, रूपराम पुत्रान बालूरम 1/4 हिस्सा, कॉम जाट साकिन नगराना खातेदार राजाराम, भूप सिंह, मोहन लाल, कृष्ण, ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन () |
| 276 | 38//17 | निजी | कृषि | 0.0439 | भादरराम पुत्र वीरबल 1/3 भाग, पृथ्वी पुत्र वीरबल 2/3 हिस्सा कुल सात दर 2/8 हिस्सा, राजाराम, भूप सिंह, मोहनलाल, कृष्ण पुत्र गणपत राम बहिब 52 दर 2/8 हिस्सा, छोगा पुत्र दराम 1/4 हिस्सा, मनफूल पुत्र हुणता 1/4 भाग, सुल्तान, रूपराम पुत्रान बालूरम 1/4 हिस्सा, कॉम जाट साकिन नगराना खातेदार राजाराम, भूप सिंह, मोहन लाल, कृष्ण, ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन |

| | | | | | |
|-----|--------|------|------|--------|---|
| | | | | | () |
| 277 | 38//18 | निजी | कृषि | 0.2518 | भादरराम पुत्र वीरबल 1/3 भाग, पृथ्वी पुत्र वीरबल 2/3 हिस्सा कुल सात दर 2/8 हिस्सा, राजाराम, भूप सिंह, मोहनलाल, कृष्ण पुत्र गणपत राम बहिब 52 दर 2/8 हिस्सा, छोगा पुत्र दराम 1/4 हिस्सा, मनफूल पुत्र हुणता 1/4 भाग, सुल्तान, रूपराम पुत्रान बालूरम 1/4 हिस्सा, काँम जाट साकिन नगराना खातेदार राजाराम, भूप सिंह, मोहन लाल, कृष्ण, ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन () |
| 278 | 38//19 | निजी | कृषि | 0.0937 | भादरराम पुत्र वीरबल 1/3 भाग, पृथ्वी पुत्र वीरबल 2/3 हिस्सा कुल सात दर 2/8 हिस्सा, राजाराम, भूप सिंह, मोहनलाल, कृष्ण पुत्र गणपत राम बहिब 52 दर 2/8 हिस्सा, छोगा पुत्र दराम 1/4 हिस्सा, मनफूल पुत्र हुणता 1/4 भाग, सुल्तान, रूपराम पुत्रान बालूरम 1/4 हिस्सा, काँम जाट साकिन नगराना खातेदार राजाराम, भूप सिंह, मोहन लाल, कृष्ण, ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन () |
| 279 | 38//21 | निजी | कृषि | 0.0016 | बिन्द्र सिंह, गुरजन्ट सिंह, जरनैल सिंह पुत्रान छोटू सिंह कौम जटसिख साकिन नगराना खातेदार () |
| 280 | 38//22 | निजी | कृषि | 0.2113 | भादरराम पुत्र वीरबल 1/3 भाग, पृथ्वी पुत्र वीरबल 2/3 हिस्सा कुल सात दर 2/8 हिस्सा, राजाराम, भूप सिंह, मोहनलाल, कृष्ण पुत्र गणपत राम बहिब 52 दर 2/8 हिस्सा, छोगा पुत्र दराम 1/4 हिस्सा, मनफूल पुत्र हुणता 1/4 भाग, सुल्तान, रूपराम पुत्रान बालूरम 1/4 हिस्सा, काँम जाट साकिन नगराना खातेदार राजाराम, भूप सिंह, मोहन लाल, कृष्ण, ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन |

| | | | | | |
|-----|--------|------|------|--------|---|
| | | | | | () |
| 281 | 38//23 | निजी | कृषि | 0.1765 | कलावती पत्नी साहब राम 0.2 9 5 भाग, कालूराम, भीमसेन पुत्रान साहब राम 0.843 भाग, आत्माराम पुत्र राम बख्श 0.127, कॉम मेघवाल साकिन नगराना खातेदार रहन आत्माराम, कलावती, कालुराम, भीमसेन भाग, ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन () |
| 282 | 44//1 | निजी | कृषि | 0.079 | बिन्द्र सिंह, गुरजन्ट सिंह, जरनैल सिंह पुत्रान छोटू सिंह कौम जटसिख साकिन नगराना खातेदार () |
| 283 | 44//2 | निजी | कृषि | 0.253 | कलावती पत्नी साहब राम 0.2 9 5 भाग, कालूराम, भीमसेन पुत्रान साहब राम 0.843 भाग, आत्माराम पुत्र राम बख्श 0.127, कॉम मेघवाल साकिन नगराना खातेदार रेहन आत्माराम, कलावती, कालुराम, भीमसेन भाग, ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन () |
| 284 | 44//3 | निजी | कृषि | 0.0573 | कलावती पत्नी साहब राम 0.2 9 5 भाग, कालूराम, भीमसेन पुत्रान साहब राम 0.843 भाग, आत्माराम पुत्र राम बख्श 0.127, कॉम मेघवाल साकिन नगराना खातेदार रेहन आत्माराम, कलावती, कालुराम, भीमसेन भाग, ओबीसी शाखा नगराना मुर्तहीन () |
| 285 | 44//9 | निजी | कृषि | 0.1911 | बिन्द्र सिंह, गुरजन्ट सिंह पुत्रान छोटू सिंह कौम जटसिख साकिन नगराना खातेदार () |
| 286 | 44//10 | निजी | कृषि | 0.1981 | बिन्द्र सिंह, गुरजन्ट सिंह, जरनैल सिंह पुत्रान छोटू सिंह कौम जटसिख साकिन नगराना खातेदार () |

| | | | | | |
|-----|--------|------|------------|----------------|--|
| 287 | 44//11 | निजी | कृषि | 0.1264 | बिन्द्र सिंह, गुरजन्ट सिंह, जरनैल सिंह पुत्रान छोटू सिंह कौम जटसिख साकिन नगराना खातेदार () |
| 288 | 44//12 | निजी | कृषि | 0.0461 | बिन्द्र सिंह, गुरजन्ट सिंह पुत्रान छोटू सिंह कौम जटसिख साकिन नगराना खातेदार () |
| | | | कुल | 33.4356 | |

[फा. सं. NHAI/PIU-JDH/BM/AJEC-RAJ/2018/LA/3D2]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th November, 2018

S.O. 5935(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 4079(E) dated 20th August 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH 754K on the stretch of land from Km 2.045 to Km 16.39 (Tibi) in the district of HANUMANGARH in the state of RAJASTHAN

And whereas the substance of the said notification has been published in “Rajasthan Patrika” and “Dainik Bhaskar” both dated 02.09.2018; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas 29 objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH 754K in the stretch of land from Km. 2.045 to Km. 16.39 (Tibi) in the district of HANUMANGARH in the state of RAJASTHAN

| State: RAJASTHAN | | District: HANUMANGARH | | | |
|------------------------|---------------|-----------------------|----------------|-----------------|--|
| Sr. No. | Survey Number | Type of Land | Nature of Land | Area in Hectare | Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Taluk: Tibbi | | | | | |
| Village: 10 SBN | | | | | |
| 1 | 4//15 | Private | Agriculture | 0.0443 | Mamkori W/o Late. Bhoma Madan Lal, Shri Ram Nar Singh Prabhu, Vinod S/o's Bhoma 1/4 share, Chandarbhan , Omparkash S/o's Kripal 1/4 share, |

| | | | | | |
|----|-------|---------|-------------|--------|---|
| | | | | | Bagrawat Ram, Lal Chand, jagdish S/o's ShyoLal 1.518 share, Badhu Devi W/o Indraj 0.072 share, Subash Chand, Tejpal S/o's Indraj 0.434 share, Kom Jangir Brahman, Ratanpura Khatedar |
| 2 | 4//16 | Private | Agriculture | 0.1625 | Mamkori W/o Late. Bhoma Madan Lal, Shri Ram Nar Singh Prabhu, Vinod S/o's Bhoma 1/4 share, Chandarbhan , Omparkash S/o's Kripal 1/4 share, Bagrawat Ram, Lal Chand, jagdish S/o's ShyoLal 1.518 share, Badhu Devi W/o Indraj 0.072 share, Subash Chand, Tejpal S/o's Indraj 0.434 share, Kom Jangir Brahman, Ratanpura Khatedar |
| 3 | 4//24 | Private | Agriculture | 0.0329 | Satyapal, Ramlal, Jaypal S/o's Shiv Partap, Kom Jaat sakin Ratanpura Khatedar rahan Jaypal, SBI Branch Sangria Murataheen rahan Satyapal, PNB Branch Sangria Murataheen |
| 4 | 4//25 | Private | Agriculture | 0.2489 | Mamkori W/o Late. Bhoma Madan Lal, Shri Ram Nar Singh Prabhu, Vinod S/o's Bhoma 1/4 share, Chandarbhan , Omparkash S/o's Kripal 1/4 share, Bagrawat Ram, Lal Chand, jagdish S/o's ShyoLal 1.518 share, Badhu Devi W/o Indraj 0.072 share, Subash Chand, Tejpal S/o's Indraj 0.434 share, Kom Jangir Brahman, Ratanpura Khatedar |
| 5 | 5//1 | Private | Agriculture | 0.063 | Himmat Ram S/o Kheta Ram 2/3 share, Ravta S/o Kheta Ram 1/3 share Kom Jangir, Brahmansa, Ratanpura Khatedar |
| 6 | 5//1 | Private | Agriculture | 0.002 | Himmat Ram S/o Kheta Ram 2/3 share, Ravta S/o Kheta Ram 1/3 share Kom Jangir, Brahmansa, Ratanpura Khatedar 5//1 (Passage) |
| 7 | 5//2 | Private | Agriculture | 0.139 | Himmat Ram S/o Kheta Ram 2/3 share, Ravta S/o Kheta Ram 1/3 share Kom Jangir, Brahmansa, Ratanpura Khatedar |
| 8 | 5//2 | Private | Agriculture | 0.038 | Himmat Ram S/o Kheta Ram 2/3 share, Ravta S/o Kheta Ram 1/3 share Kom Jangir, Brahmansa, Ratanpura Khatedar 5//2 (Passage) |
| 9 | 5//3 | Private | Agriculture | 0.0058 | Himmat Ram S/o Kheta Ram 2/3 share, Ravta S/o Kheta Ram 1/3 share Kom Jangir, Brahmansa, Ratanpura Khatedar |
| 10 | 5//3 | Private | Agriculture | 0.009 | Himmat Ram S/o Kheta Ram 2/3 share, Ravta S/o Kheta Ram 1/3 share Kom Jangir, Brahmansa, Ratanpura Khatedar 5//3 (Passage) |
| 11 | 5//8 | Private | Agriculture | 0.0025 | Mamkori W/o Late. Bhoma Madan Lal, Shri Ram Nar Singh Prabhu, Vinod S/o's Bhoma 1/4 share, Chandarbhan , Omparkash S/o's Kripal 1/4 share, Bagrawat Ram, Lal Chand, jagdish S/o's ShyoLal 1.518 share, Badhu Devi W/o Indraj 0.072 share, Subash Chand, |

| | | | | | |
|----|-------|---------|-------------|--------|---|
| | | | | | Tejpal S/o's Indraj 0.434 share, Kom Jangir Brahman, Ratanpura Khatedar |
| 12 | 5//9 | Private | Agriculture | 0.2127 | Mamkori W/o Late. Bhoma Madan Lal, Shri Ram Nar Singh Prabhu, Vinod S/o's Bhoma 1/4 share, Chandarbhan , Omparkash S/o's Kripal 1/4 share, Bagrawat Ram, Lal Chand, jagdish S/o's ShyoLal 1.518 share, Badhu Devi W/o Indraj 0.072 share, Subash Chand, Tejpal S/o's Indraj 0.434 share, Kom Jangir Brahman, Ratanpura Khatedar |
| 13 | 5//12 | Private | Agriculture | 0.0935 | Mamkori W/o Late. Bhoma Madan Lal, Shri Ram Nar Singh Prabhu, Vinod S/o's Bhoma 1/4 share, Chandarbhan , Omparkash S/o's Kripal 1/4 share, Bagrawat Ram, Lal Chand, jagdish S/o's ShyoLal 1.518 share, Badhu Devi W/o Indraj 0.072 share, Subash Chand, Tejpal S/o's Indraj 0.434 share, Kom Jangir Brahman, Ratanpura Khatedar |
| 14 | 5//19 | Private | Agriculture | 0.0048 | Mamkori W/o Late. Bhoma Madan Lal, Shri Ram Nar Singh Prabhu, Vinod S/o's Bhoma 1/4 share, Chandarbhan , Omparkash S/o's Kripal 1/4 share, Bagrawat Ram, Lal Chand, jagdish S/o's ShyoLal 1.518 share, Badhu Devi W/o Indraj 0.072 share, Subash Chand, Tejpal S/o's Indraj 0.434 share, Kom Jangir Brahman, Ratanpura Khatedar |
| 15 | 5//20 | Private | Agriculture | 0.2222 | Mamkori W/o Late. Bhoma Madan Lal, Shri Ram Nar Singh Prabhu, Vinod S/o's Bhoma 1/4 share, Chandarbhan , Omparkash S/o's Kripal 1/4 share, Bagrawat Ram, Lal Chand, jagdish S/o's ShyoLal 1.518 share, Badhu Devi W/o Indraj 0.072 share, Subash Chand, Tejpal S/o's Indraj 0.434 share, Kom Jangir Brahman, Ratanpura Khatedar |
| 16 | 5//21 | Private | Agriculture | 0.1076 | Mamkori W/o Late. Bhoma Madan Lal, Shri Ram Nar Singh Prabhu, Vinod S/o's Bhoma 1/4 share, Chandarbhan , Omparkash S/o's Kripal 1/4 share, Bagrawat Ram, Lal Chand, jagdish S/o's ShyoLal 1.518 share, Badhu Devi W/o Indraj 0.072 share, Subash Chand, Tejpal S/o's Indraj 0.434 share, Kom Jangir Brahman, Ratanpura Khatedar |
| 17 | 20//1 | Private | Agriculture | 0.0058 | Chandrbhan, Omprakash s/o Kripal Ram 1/2 share Narasi Ram 1/10 share Prabhu Dayal 1/10 share Vinod Kumar 1/10 share s/o Bhoma Ram Rohitash, Sanjay Kumar s/o Sriram all share equal 1/10 share Guddi Devi w/o Madan Lal 1/10 share koum Suthar sakin Ratanpura khatedar |
| 18 | 21//4 | Private | Agriculture | 0.1393 | Satyapal, Ramlal, Jaypal S/o's Shiv Partap, Kom Jaat sakin Ratanpura Khatedar rahan Jaypal, SBI Branch |

| | | | | | |
|----|-------|---------|-------------|--------|---|
| | | | | | Sangria Murataheen rahan Sachayapal, PNB Branch Sangria Murataheen |
| 19 | 21//4 | Private | Agriculture | 0.0092 | Satyapal, Ramlal, Jaypal S/o's Shiv Partap, Kom Jaat sakin Ratanpura Khatedar rahan Jaypal, SBI Branch Sangria Murataheen rahan Sachayapal, PNB Branch Sangria Murataheen 21//4 (Passage) |
| 20 | 21//5 | Private | Agriculture | 0.1931 | Satyapal, Ramlal, Jaypal S/o's Shiv Partap, Kom Jaat sakin Ratanpura Khatedar rahan Jaypal, SBI Branch Sangria Murataheen rahan Sachayapal, PNB Branch Sangria Murataheen |
| 21 | 5//10 | Private | Agriculture | 0.165 | Mamkori W/o Late. Bhoma Madan Lal, Shri Ram Nar Singh Prabhu, Vinod S/os Bhoma 1/4 share, Chandarbhan , Omparkash S/os Kripal 1/4 share, Bagrawat Ram, Lal Chand, jagdish S/os ShyoLal 1.518 share, Badhu Devi W/o Indraj 0.072 share, Subash Chand, Tejpal S/os Indraj 0.434 share, Kom Jangir Brahman, Ratanpura Khatedar |
| 22 | 5//11 | Private | Agriculture | 0.228 | Mamkori W/o Late. Bhoma Madan Lal, Shri Ram Nar Singh Prabhu, Vinod S/os Bhoma 1/4 share, Chandarbhan , Omparkash S/os Kripal 1/4 share, Bagrawat Ram, Lal Chand, jagdish S/os ShyoLal 1.518 share, Badhu Devi W/o Indraj 0.072 share, Subash Chand, Tejpal S/os Indraj 0.434 share, Kom Jangir Brahman, Ratanpura Khatedar |
| 23 | 21//5 | Private | Agriculture | 0.0386 | Satyapal, Ramlal, Jaypal S/o's Shiv Partap, Kom Jaat sakin Ratanpura Khatedar rahan Jaypal, SBI Branch Sangria Murataheen rahan Sachayapal, PNB Branch Sangria Murataheen 21//5 (Passage) |
| 24 | 21//6 | Private | Agriculture | 0.1221 | Chandrbhan, Omprakash s/o Kripal Ram 1/2 share Narasi Ram 1/10 share Prabhu Dayal 1/10 share Vinod Kumar 1/10 share s/o Bhoma Ram Rohitash, Sanjay Kumar s/o Sriram all share equal 1/10 share Guddi Devi w/o Madan Lal 1/10 share kour Suthar sakin Ratanpura khatedar |
| 25 | 21//7 | Private | Agriculture | 0.2445 | Chandrbhan, Omprakash s/o Kripal Ram 1/2 share Narasi Ram 1/10 share Prabhu Dayal 1/10 share Vinod Kumar 1/10 share s/o Bhoma Ram Rohitash, Sanjay Kumar s/o Sriram all share equal 1/10 share Guddi Devi w/o Madan Lal 1/10 share kour Suthar sakin Ratanpura khatedar |
| 26 | 21//8 | Private | Agriculture | 0.0233 | Satyapal, Ramlal, Jaypal S/o's Shiv Partap, Kom Jaat sakin Ratanpura Khatedar rahan Jaypal, SBI Branch Sangria Murataheen rahan Sachayapal, |

| | | | | | |
|----|--------|---------|-------------|--------|--|
| | | | | | PNB Branch Sangria Murataheen |
| 27 | 21//13 | Private | Agriculture | 0.1343 | Chandrbhan, Omprakash s/o Kripal Ram 1/2 share Narasi Ram 1/10 share Prabhu Dayal 1/10 share Vinod Kumar 1/10 share s/o Bhoma Ram Rohitash, Sanjay Kumar s/o Sriram all share equal 1/10 share Guddi Devi w/o Madan Lal 1/10 share kour Suthar sakin Ratanpur khatedar |
| 28 | 21//14 | Private | Agriculture | 0.2391 | Chandrbhan, Omprakash s/o Kripal Ram 1/2 share Narasi Ram 1/10 share Prabhu Dayal 1/10 share Vinod Kumar 1/10 share s/o Bhoma Ram Rohitash, Sanjay Kumar s/o Sriram all share equal 1/10 share Guddi Devi w/o Madan Lal 1/10 share kour Suthar sakin Ratanpur khatedar |
| 29 | 21//15 | Private | Agriculture | 0.0165 | Chandrbhan, Omprakash s/o Kripal Ram 1/2 share Narasi Ram 1/10 share Prabhu Dayal 1/10 share Vinod Kumar 1/10 share s/o Bhoma Ram Rohitash, Sanjay Kumar s/o Sriram all share equal 1/10 share Guddi Devi w/o Madan Lal 1/10 share kour Suthar sakin Ratanpur khatedar |
| 30 | 21//17 | Private | Agriculture | 0.1358 | Manohari Devi w/o Badri Prasad Maina Devi w/o Sahabran D/o's Kalu ram All share equal kour Suthar sakin Makkasar tehsil & District Hanumangarh khatear |
| 31 | 21//18 | Private | Agriculture | 0.2384 | Shyonarayan 1.181 Share, Dalip 1.180 Share, Omparkash 1.174 share, Ram Kumar 1.187 Share S/o Jagmal, Jaswant S/o Mani Ram 1.181 share, Sarbati W/o Khayali Ram 1.181 share, Kom Jaat, Nagrana, Kom Jaat Saliwala Khatedar rahan Shyonarayan, Dalip, Omparkash, Ram Kumar, Jaswant, Sahabram, Subhash SBI branch Sangria Murataheen rahan Sarbati Rakba OBC branch Nagrana Murataheen |
| 32 | 21//19 | Private | Agriculture | 0.0153 | Shyonarayan 1.181 Share, Dalip 1.180 Share, Omparkash 1.174 share, Ram Kumar 1.187 Share S/o Jagmal, Jaswant S/o Mani Ram 1.181 share, Sarbati W/o Khayali Ram 1.181 share, Kom Jaat, Nagrana, Kom Jaat Saliwala Khatedar rahan Shyonarayan, Dalip, Omparkash, Ram Kumar, Jaswant, Sahabram, Subhash SBI branch Sangria Murataheen rahan Sarbati Rakba OBC branch Nagrana Murataheen |
| 33 | 21//22 | Private | Agriculture | 0.1202 | Shyonarayan 1.181 Share, Dalip 1.180 Share, Omparkash 1.174 share, Ram Kumar 1.187 Share S/o Jagmal, Jaswant S/o Mani Ram 1.181 share, Sarbati W/o Khayali Ram 1.181 share, Kom Jaat, Nagrana, Kom Jaat Saliwala Khatedar |

| | | | | | |
|----|--------|---------|-------------|--------|---|
| | | | | | rahan Shyonarayan, Dalip, Omparkash, Ram Kumar, Jaswant, Sahabram, Subhash SBI branch Sangria Murataheen rahan Sarbati Rakba OBC branch Nagrana Murataheen |
| 34 | 21//23 | Private | Agriculture | 0.2451 | Shyonarayan 1.181 Share, Dalip 1.180 Share, Omparkash 1.174 share, Ram Kumar 1.187 Share S/o Jagmal, Jaswant S/o Mani Ram 1.181 share, Sarbati W/o Khayali Ram 1.181 share, Kom Jaat, Nagrana, Kom Jaat Saliwala Khatedar rahan Shyonarayan, Dalip, Omparkash, Ram Kumar, Jaswant, Sahabram, Subhash SBI branch Sangria Murataheen rahan Sarbati Rakba OBC branch Nagrana Murataheen |
| 35 | 21//24 | Private | Agriculture | 0.0242 | Shyonarayan 1.181 Share, Dalip 1.180 Share, Omparkash 1.174 share, Ram Kumar 1.187 Share S/o Jagmal, Jaswant S/o Mani Ram 1.181 share, Sarbati W/o Khayali Ram 1.181 share, Kom Jaat, Nagrana, Kom Jaat Saliwala Khatedar rahan Shyonarayan, Dalip, Omparkash, Ram Kumar, Jaswant, Sahabram, Subhash SBI branch Sangria Murataheen rahan Sarbati Rakba OBC branch Nagrana Murataheen |
| 36 | 27//15 | Private | Agriculture | 0.0007 | Shyonarayan 1.181 Share, Dalip 1.180 Share, Omparkash 1.174 share, Ram Kumar 1.187 Share S/o Jagmal, Jaswant S/o Mani Ram 1.181 share, Sarbati W/o Khayali Ram 1.181 share, Kom Jaat, Nagrana, Kom Jaat Saliwala Khatedar rahan Shyonarayan, Dalip, Omparkash, Ram Kumar, Jaswant, Sahabram, Subhash SBI branch Sangria Murataheen rahan Sarbati Rakba OBC branch Nagrana Murataheen |
| 37 | 27//15 | Private | Agriculture | 0.0039 | Shyonarayan 1.181 Share, Dalip 1.180 Share, Omparkash 1.174 share, Ram Kumar 1.187 Share S/o Jagmal, Jaswant S/o Mani Ram 1.181 share, Sarbati W/o Khayali Ram 1.181 share, Kom Jaat, Nagrana, Kom Jaat Saliwala Khatedar rahan Shyonarayan, Dalip, Omparkash, Ram Kumar, Jaswant, Sahabram, Subhash SBI branch Sangria Murataheen rahan Sarbati Rakba OBC branch Nagrana Murataheen 27//15 (Passage) |
| 38 | 27//16 | Private | Agriculture | 0.0672 | Jagdish S/o Ladhu Ram, Kom Jaat sakin Nagrana Khatedar, Rahan OBC branch, Nagrana Murataheen |
| 39 | 27//16 | Private | Agriculture | 0.025 | Jagdish S/o Ladhu Ram, Kom Jaat sakin Nagrana Khatedar, Rahan OBC branch, Nagrana Murataheen 27//16 (Passage) |

| | | | | | |
|----|--------|---------|-------------|--------|--|
| 40 | 27//24 | Private | Agriculture | 0.0014 | Tarachand S/o Luna Ram Koum Jaat Sakin Nagrana Khatedar rahan OBC, Branch Nagrana |
| 41 | 27//25 | Private | Agriculture | 0.1852 | Tarachand S/o Luna Ram Koum Jaat Sakin Nagrana Khatedar rahan OBC, Branch Nagrana |
| 42 | 27//25 | Private | Agriculture | 0.025 | Tarachand S/o Luna Ram Koum Jaat Sakin Nagrana Khatedar rahan OBC, Branch Nagrana 27//25 (Passage) |
| 43 | 28//1 | Private | Agriculture | 0.009 | Shyonarayan 1.181 Share, Dalip 1.180 Share, Omparkash 1.174 share, Ram Kumar 1.187 Share S/o Jagmal, Jaswant S/o Mani Ram 1.181 share, Sarbati W/o Khayali Ram 1.181 share, Kom Jaat, Nagrana, Kom Jaat Saliwala Khatedar rahan Shyonarayan, Dalip, Omparkash, Ram Kumar, Jaswant, Sahabram, Subhash SBI branch Sangria Murataheen rahan Sarbati Rakba OBC branch Nagrana Murataheen |
| 44 | 28//2 | Private | Agriculture | 0.2306 | Shyonarayan 1.181 Share, Dalip 1.180 Share, Omparkash 1.174 share, Ram Kumar 1.187 Share S/o Jagmal, Jaswant S/o Mani Ram 1.181 share, Sarbati W/o Khayali Ram 1.181 share, Kom Jaat, Nagrana, Kom Jaat Saliwala Khatedar rahan Shyonarayan, Dalip, Omparkash, Ram Kumar, Jaswant, Sahabram, Subhash SBI branch Sangria Murataheen rahan Sarbati Rakba OBC branch Nagrana Murataheen |
| 45 | 28//3 | Private | Agriculture | 0.1499 | Shyonarayan 1.181 Share, Dalip 1.180 Share, Omparkash 1.174 share, Ram Kumar 1.187 Share S/o Jagmal, Jaswant S/o Mani Ram 1.181 share, Sarbati W/o Khayali Ram 1.181 share, Kom Jaat, Nagrana, Kom Jaat Saliwala Khatedar rahan Shyonarayan, Dalip, Omparkash, Ram Kumar, Jaswant, Sahabram, Subhash SBI branch Sangria Murataheen rahan Sarbati Rakba OBC branch Nagrana Murataheen |
| 46 | 28//8 | Private | Agriculture | 0.034 | Guradayal, Amar Singh, Prem Kumar, Palaram, Ghanshyam, Raysingh, Sharvan Kumar S/o Rajiram, Vimla Devi, Kamla Devi D/o's Raji Ram Caste Jaat Sakin Nagrana Khatedar Rahan share Amar Singh OBC Branch Nagrana |
| 47 | 28//9 | Private | Agriculture | 0.2494 | Guradayal, Amar Singh, Prem Kumar, Palaram, Ghanshyam, Raysingh, Sharvan Kumar S/o Rajiram, Vimla Devi, Kamla Devi D/o's Raji Ram Caste Jaat Sakin Nagrana Khatedar Rahan share Amar Singh OBC Branch Nagrana |
| 48 | 28//10 | Private | Agriculture | 0.1061 | Shyonarayan 1.181 Share, Dalip 1.180 Share, Omparkash 1.174 share, Ram |

| | | | | | |
|----|--------|---------|-------------|--------|---|
| | | | | | Kumar 1.187 Share S/o Jagmal, Jaswant S/o Mani Ram 1.181 share, Sarbati W/o Khayali Ram 1.181 share, Kom Jaat, Nagrana, Kom Jaat Saliwala Khatedar rahan Shyonarayan, Dalip, Omparkash, Ram Kumar, Jaswant, Sahabram, Subhash SBI branch Sangria Murataheen rahan Sarbati Rakba OBC branch Nagrana Murataheen |
| 49 | 28//11 | Private | Agriculture | 0.2212 | Ram Chand S/o Ladhu, Kom Jaat, Nagrana Khatedar rahan OBC Branch Nagrana Murataheen |
| 50 | 28//12 | Private | Agriculture | 0.164 | Ram Chand S/o Ladhu, Kom Jaat, Nagrana Khatedar rahan OBC Branch Nagrana Murataheen |
| 51 | 28//19 | Private | Agriculture | 0.0455 | Ram Chand S/o Ladhu, Kom Jaat, Nagrana Khatedar rahan OBC Branch Nagrana Murataheen |
| 52 | 28//20 | Private | Agriculture | 0.252 | Ram Chand S/o Ladhu, Kom Jaat, Nagrana Khatedar rahan OBC Branch Nagrana Murataheen |
| 53 | 28//21 | Private | Agriculture | 0.177 | Ram Chand S/o Ladhu, Kom Jaat, Nagrana Khatedar rahan OBC Branch Nagrana Murataheen |
| 54 | 46//14 | Private | Agriculture | 0.253 | Sumitra Devi W/o Atma Ram, Sonapal S/o Atma Ram, Shakti S/o Atma Ram Caste Jaat Sakin Nagrana Rahan share Sumitra Devi, Sonapal OBC, Nagrana |
| 55 | 46//23 | Private | Agriculture | 0.253 | Ladhu S/o Panna Ram Kom Jaat, Nagrana Khatedar |
| 56 | 45//1 | Private | Agriculture | 0.0587 | Ram Chand S/o Ladhu, Kom Jaat, Nagrana Khatedar rahan OBC Branch Nagrana Murataheen |
| 57 | 46//4 | Private | Agriculture | 0.0779 | Krishn Kumar S/o Luna Ram Caste Jaat Sakin Nagrana Khatedar Rahan OBC, Nagrana |
| 58 | 46//5 | Private | Agriculture | 0.228 | Krishn Kumar S/o Luna Ram Caste Jaat Sakin Nagrana Khatedar Rahan OBC, Nagrana |
| 59 | 46//5 | Private | Agriculture | 0.025 | Krishn Kumar S/o Luna Ram Caste Jaat Sakin Nagrana Khatedar Rahan OBC, Nagrana 46//5 (Nullah) |
| 60 | 46//7 | Private | Agriculture | 0.1973 | Surja Ram S/o Luna Ram Caste Jaat Sakin Nagrana Khatedar Rahan OBC, Nagrana |
| 61 | 46//13 | Private | Agriculture | 0.0638 | Sumitra Devi W/o Atma Ram, Sonapal S/o Atma Ram, Shakti S/o Atma Ram Caste Jaat Sakin Nagrana Rahan share Sumitra Devi, Sonapal OBC, Nagrana |
| 62 | 46//15 | Private | Agriculture | 0.0732 | Sumitra Devi W/o Atma Ram, Sonapal S/o Atma Ram, Shakti S/o Atma Ram Caste Jaat Sakin Nagrana Rahan share Sumitra Devi, Sonapal OBC, Nagrana |

| | | | | | |
|----|--------|---------|-------------|--------|--|
| 63 | 46//16 | Private | Agriculture | 0.0012 | Ladhu S/o Panna Ram Kom Jaat, Nagrana Khatedar |
| 64 | 46//18 | Private | Agriculture | 0.1832 | Ladhu S/o Panna Ram Kom Jaat, Nagrana Khatedar |
| 65 | 46//22 | Private | Agriculture | 0.0501 | Ladhu S/o Panna Ram Kom Jaat, Nagrana Khatedar |
| 66 | 46//24 | Private | Agriculture | 0.0869 | Ladhu S/o Panna Ram Kom Jaat, Nagrana Khatedar |
| 67 | 50//16 | Private | Agriculture | 0.0135 | Gajanand, Dayaram, Jagdish Chandr, Suraj Bhan, Ravishankar S/o Harlal Caste Bairagi Sakin Nagrana Khatedar |
| 68 | 50//16 | Private | Agriculture | 0.0143 | Gajanand, Dayaram, Jagdish Chandr, Suraj Bhan, Ravishankar S/o Harlal Caste Bairagi Sakin Nagrana Khatedar 50//16 (Passage) |
| 69 | 50//25 | Private | Agriculture | 0.116 | Durga Devi W/o Late. Sahi Ram, Kom Bairagi sakin Nagrana Khatedar |
| 70 | 50//25 | Private | Agriculture | 0.025 | Durga Devi W/o Late. Sahi Ram, Kom Bairagi sakin Nagrana Khatedar 50//25 (Passage) |
| 71 | 51//2 | Private | Agriculture | 0.158 | Ladhu S/o Panna Ram Kom Jaat, Nagrana Khatedar |
| 72 | 51//2 | Private | Agriculture | 0.0113 | Ladhu S/o Panna Ram Kom Jaat, Nagrana Khatedar 51//2 (Passage) |
| 73 | 51//9 | Private | Agriculture | 0.2505 | Ladhu S/o Panna Ram Kom Jaat, Nagrana Khatedar |
| 74 | 51//10 | Private | Agriculture | 0.038 | Ladhu S/o Panna Ram Kom Jaat, Nagrana Khatedar |
| 75 | 51//11 | Private | Agriculture | 0.155 | Subash Alias Sajan Ram S/o Amar Singh, Kom Jaat, Saliwala Khatedar rahan OBC Branch Sangria Murataheen |
| 76 | 51//13 | Private | Agriculture | 0.0071 | सुभाष उर्फ साजन राम पुत्र अमर सिंह, कोम जाट साकिन सालीवाला खातेदार रहन ओबीसी शाखा सांगरिया मुर्तहीन |
| 77 | 51//20 | Private | Agriculture | 0.2468 | Subash Alias Sajan Ram S/o Amar Singh, Kom Jaat, Saliwala Khatedar rahan OBC Branch Sangria Murataheen |
| 78 | 51//22 | Private | Agriculture | 0.0128 | Subash Alias Sajan Ram S/o Amar Singh, Kom Jaat, Saliwala Khatedar rahan OBC Branch Sangria Murataheen |
| 79 | 74//11 | Private | Agriculture | 0.0845 | Sona Devi W/o Birbal Ram Caste Meghwal Sakin Nagrana Khatedar Rahan SBBJ, Sangria |
| 80 | 74//12 | Private | Agriculture | 0.2527 | Sona Devi W/o Birbal Ram Caste Meghwal Sakin Nagrana Khatedar Rahan SBBJ, Sangria |
| 81 | 74//13 | Private | Agriculture | 0.0523 | Sona Devi W/o Birbal Ram Caste Meghwal Sakin Nagrana Khatedar Rahan SBBJ, Sangria (74//13/1) Mani Ram S/o Sultan Ram Caste Meghwal |

| | | | | | |
|----|--------|---------|-------------|--------|--|
| | | | | | Sakin Nagrana Khatedar Rahan RMGB Branch Sangria (74//13/2) |
| 82 | 74//19 | Private | Agriculture | 0.1856 | Sahab Ram S/o Sultan Ram Caste Meghwal Sakin Nagrana Khatedar Rahan RMGB, Branch Sangria |
| 83 | 74//20 | Private | Agriculture | 0.2035 | Sahab Ram S/o Sultan Ram Caste Meghwal Sakin Nagrana Khatedar Rahan RMGB, Branch Sangria |
| 84 | 74//21 | Private | Agriculture | 0.253 | Harbans S/o Sultan Ram Caste Meghwal Sakin Nagrana Khatedar Rahan RMGB, Sangria |
| 85 | 74//22 | Private | Agriculture | 0.0661 | Harbans S/o Sultan Ram Caste Meghwal Sakin Nagrana Khatedar Rahan RMGB, Sangria |
| 86 | 85//10 | Private | Agriculture | 0.0803 | Sima Devi W/o Krishn Caste Meghwal Sakin Nagrana rahan OBC, Nagrana |
| 87 | 85//11 | Private | Agriculture | 0.0018 | Mathara Devi W/o Dalip Ram Kom Jaat sakin Daulatpura, Khatedar |
| 88 | 86//5 | Private | Agriculture | 0.1898 | Panna Devi W/o Omprakash Caste Meghwal Sakin Nagrana Khatedar (86//5/1), Soma Devi W/o Krishn Caste Meghwal Sakin Nagrana rahan OBC, Nagrana (86//5/2), Sahab Ram S/o Sultan Ram Caste Meghwal Sakin Nagrana Khatedar Rahan RMGB, Branch Sangria (86//5/3) |
| 89 | 86//6 | Private | Agriculture | 0.253 | Sima Devi W/o Krishn Caste Meghwal Sakin Nagrana rahan OBC, Nagrana |
| 90 | 86//7 | Private | Agriculture | 0.0564 | Om Parkash Ram Singh s/o Bhadar Ram, Kom Jaat Sakin Malladkhera Khatedar |
| 91 | 86//14 | Private | Agriculture | 0.1757 | Lichhhi Ram S/o Bhagirath Kom Jaat sakin Malladkhera Khatedar |
| 92 | 86//15 | Private | Agriculture | 0.212 | Ganpat S/o Jivan,Kom Jaat Sakin Malladkhera Khatedar rahan Bank of Baroda, branch Sangria |
| 93 | 86//16 | Private | Agriculture | 0.0944 | Ganpat S/o Jivan,Kom Jaat Sakin Malladkhera Khatedar rahan Bank of Baroda, branch Sangria |
| 94 | 86//17 | Private | Agriculture | 0.2517 | Lichi Ram S/o Bhagirath,Kom Jaat, , Malhad Khera Khatedar |
| 95 | 86//18 | Private | Agriculture | 0.0435 | Lichhama Devi W/o Sultan, Satpal, Krishan Chand S/o Sultan, Guddi, Gomati, Saroj D/o's Sultan, Kom Jaat sakin Malladkhera Khatedar |
| 96 | 86//23 | Private | Agriculture | 0.1616 | Lichhama Devi W/o Sultan, Satpal, Krishan Chand S/o Sultan, Guddi, Gomati, Saroj D/o's Sultan, Kom Jaat sakin Malladkhera Khatedar |
| 97 | 86//24 | Private | Agriculture | 0.2228 | Lichi Ram S/o Bhagirath,Kom Jaat, , Malhad Khera Khatedar |
| 98 | 86//25 | Private | Agriculture | 0.005 | Ganpat S/o Jivan,Kom Jaat |

| | | | | | |
|-----|--------|---------|-------------|--------|---|
| | | | | | SakinMalladkhera Khatedar rahan Bank of Baroda, branch Sangria |
| 99 | 46//6 | Private | Agriculture | 0.19 | Surja Ram S/o Luna Ram Caste Jaat Sakin Nagrana Khatedar Rahan OBC, Nagrana |
| 100 | 46//17 | Private | Agriculture | 0.165 | Ladhu S/o Panna Ram Kom Jaat, Nagrana Khatedar |
| 101 | 51//3 | Private | Agriculture | 0.165 | Ladhu S/o Panna Ram Kom Jaat, Nagrana Khatedar |
| 102 | 51//8 | Private | Agriculture | 0.089 | Ladhu S/o Panna Ram Kom Jaat, Nagrana Khatedar |
| 103 | 51//12 | Private | Agriculture | 0.19 | Subash Alias Sajan Ram S/o Amar Singh, Kom Jaat, Saliwala Khatedar rahan OBC Branch Sangria Murataheen |
| 104 | 51//19 | Private | Agriculture | 0.101 | Subash Alias Sajan Ram S/o Amar Singh, Kom Jaat, Saliwala Khatedar rahan OBC Branch Sangria Murataheen |
| 105 | 51//21 | Private | Agriculture | 0.19 | Subash Alias Sajan Ram S/o Amar Singh, Kom Jaat, Saliwala Khatedar rahan OBC Branch Sangria Murataheen |
| 106 | 85//1 | Private | Agriculture | 0.19 | Panna Devi W/o Omprakash Caste Meghwal Sakin Nagrana Khatedar |
| 107 | 70//1 | Private | Agriculture | 0.1292 | Sahab Ram S/o Tanuram 1.265 Share, Prem Kumar S/o Sardul Singh 2.087 Share, Raj Kumar, Rajender S/o Lal Chand 2.720 Share, Kom jaat sakin Saliwala Khatedar rahan Prem Kumar, Raj Kumar, Rajender SBI Branch Sangria Murataheen |
| 108 | 70//10 | Private | Agriculture | 0.0202 | Sahab Ram S/o Tanuram 1.265 Share, Prem Kumar S/o Sardul Singh 2.087 Share, Raj Kumar, Rajender S/o Lal Chand 2.720 Share, Kom jaat sakin Saliwala Khatedar rahan Prem Kumar, Raj Kumar, Rajender SBI Branch Sangria Murataheen |
| 109 | 71//4 | Private | Agriculture | 0.0189 | Durga Devi W/o Late. Sahi Ram, Kom Bairagi, Nagrana Khatedar |
| 110 | 71//5 | Private | Agriculture | 0.2166 | Durga Devi W/o Late. Sahi Ram, Kom Bairagi, Nagrana Khatedar |
| 111 | 71//5 | Private | Agriculture | 0.025 | Durga Devi W/o Late. Sahi Ram, Kom Bairagi, Nagrana Khatedar 71//5 (Passage) |
| 112 | 71//6 | Private | Agriculture | 0.2255 | Durga Devi W/o Late. Sahi Ram, Kom Bairagi, Nagrana Khatedar |
| 113 | 71//6 | Private | Agriculture | 0.0171 | Durga Devi W/o Late. Sahi Ram, Kom Bairagi, Nagrana Khatedar 71//6 (Passage) |
| 114 | 71//7 | Private | Agriculture | 0.1268 | Durga Devi W/o Late. Sahi Ram, Kom Bairagi, Nagrana Khatedar |
| 115 | 71//13 | Private | Agriculture | 0.0118 | Durga Devi W/o Late. Sahi Ram, Kom Bairagi, Nagrana Khatedar |

| | | | | | |
|-----|--------|---------|-------------|--------|---|
| 116 | 71//14 | Private | Agriculture | 0.2345 | Durga Devi W/o Late. Sahi Ram, Kom Bairagi, Nagrana Khatedar |
| 117 | 71//15 | Private | Agriculture | 0.1437 | Durga Devi W/o Late. Sahi Ram, Kom Bairagi, Nagrana Khatedar |
| 118 | 71//16 | Private | Agriculture | 0.0296 | Bhoora Lal S/o Manna Ram Kom Jaat sakin Saliwala Khatedar rahan Raj Marudhara Gramin Bank, Branch Saliwala Murthan |
| 119 | 71//18 | Private | Agriculture | 0.1127 | Bhoora Lal S/o Manna Ram Kom Jaat sakin Saliwala Khatedar rahan Raj Marudhara Gramin Bank, Branch Saliwala Murthan |
| 120 | 71//22 | Private | Agriculture | 0.0063 | Sahab Ram S/o Tanuram 1.265 Share, Prem Kumar S/o Sardul Singh 2.087 Share, Raj Kumar, Rajender S/o Lal Chand 2.720 Share, Kom jaat sakin Saliwala Khatedar rahan Prem Kumar, Raj Kumar, Rajender SBI Branch Sangria Murataheen |
| 121 | 71//23 | Private | Agriculture | 0.2258 | Bhoora Lal S/o Manna Ram Kom Jaat sakin Saliwala Khatedar rahan Raj Marudhara Gramin Bank, Branch Saliwala Murataheen |
| 122 | 71//24 | Private | Agriculture | 0.1574 | Bhoora Lal S/o Manna Ram Kom Jaat sakin Saliwala Khatedar rahan Raj Marudhara Gramin Bank, Branch Saliwala Murataheen |
| 123 | 73//25 | Private | Agriculture | 0.0464 | Panna Devi W/o Omprakash, Sahab Ram S/o Sultan Ram Caste Meghwal Sakin Nagrana Khatedar Rahan Sahab Ram RMGB, Branch Nagrana |
| 124 | 73//25 | Private | Agriculture | 0.0242 | Panna Devi W/o Omprakash, Sahab Ram S/o Sultan Ram Caste Meghwal Sakin Nagrana Khatedar Rahan Sahab Ram RMGB, Branch Nagrana 73//25 (Nullah) |
| 125 | 74//2 | Private | Agriculture | 0.0986 | Subash Alias Sajan Ram S/o Amar Singh, Kom Jaat, Saliwala Khatedar rahan OBC Branch Sangria Murataheen |
| 126 | 74//3 | Private | Agriculture | 0.251 | Bhoora Lal S/o Manna Ram Kom Jaat sakin Saliwala Khatedar rahan Raj Marudhara Gramin Bank, Branch Saliwala Murataheen |
| 127 | 74//4 | Private | Agriculture | 0.0399 | Sahab Ram S/o Tanuram 1.265 Share, Prem Kumar S/o Sardul Singh 2.087 Share, Raj Kumar, Rajender S/o Lal Chand 2.720 Share, Kom jaat sakin Saliwala Khatedar rahan SBI Branch Sangria Murataheen |
| 128 | 74//8 | Private | Agriculture | 0.1715 | Bhoora Lal S/o Manna Ram Kom Jaat sakin Saliwala Khatedar rahan Raj Marudhara Gramin Bank, Branch Saliwala Murataheen |
| 129 | 74//9 | Private | Agriculture | 0.2155 | Sona Devi W/o Birbal Ram Caste |

| | | | | | |
|-----------------------|--------|---------|-------------|--------|--|
| | | | | | Meghwal Sakin Nagrana Khatedar Rahan SBBJ, Sangria |
| 130 | 74//10 | Private | Agriculture | 0.0026 | Bhadar Ram S/o Nanu Ram, Kom Jaat, Malladkhera Khatedar |
| 131 | 71//17 | Private | Agriculture | 0.24 | Bhoora Lal S/o Manna Ram Kom Jaat sakin Saliwala Khatedar rahan Raj Marudhara Gramin Bank, Branch Saliwala Murthan |
| Village: 2 NGR | | | | | |
| 132 | 24//1 | Private | Agriculture | 0.2456 | Sohan, Mani Ram S/o's Birbal Ram Kom Jaat Malladkhera Khatedar Ran Jagdish, SBBJ Branch Sangria Murthan |
| 133 | 24//2 | Private | Agriculture | 0.0253 | Radha Devi W/o Bhagirath, Maniram, Jagdish, Fateh Singh, Badri parsadh, Lichhi Ram S/o's Bhagirath , Tulchhi Devi, Niko Devi D/o's Bhagirath Kom Jaat Malladkhera Khatedar |
| 134 | 24//10 | Private | Agriculture | 0.1518 | Sohan, Mani Ram S/o's Birbal Ram Kom Jaat Malladkhera Khatedar Rahan SBBJ Branch Sangria Murthan |
| 135 | 24//11 | Private | Agriculture | 0.0357 | Sohan, Mani Ram S/o's Birbal Ram Kom Jaat Malladkhera Khatedar Rahan SBBJ Branch |
| Village: 4 NGR | | | | | |
| 136 | 5//2 | Private | Agriculture | 0.0324 | Krishn Chand S/o's Sultan Kom Jaat, Malladkhera Khatedar rahan OBC, Nagrana |
| 137 | 5//3 | Private | Agriculture | 0.2375 | Maniram S/o Bhagirath 0.126 share Lichchhi ram S/o Bhagirath caste Jaat sakin Malladkhera 0.127 share |
| 138 | 5//3 | Private | Agriculture | 0.0113 | Bhagirath caste Jaat sakin Malladkhera 0.127 share 5//3 (Passage) |
| 139 | 5//4 | Private | Agriculture | 0.0998 | Lichchhi ram S/o Bhagirath caste Jaat sakin Malladkhera khatedar |
| 140 | 5//4 | Private | Agriculture | 0.0083 | Lichchhi ram S/o Bhagirath caste Jaat sakin Malhadkheda 5//4 (Passage) |
| 141 | 5//7 | Private | Agriculture | 0.0099 | Tara Singh s/o Dariya Singh, Kom Raisikh, Malladkhera Khatedar Rahan Canara Bank branch, Hanumangarh Murataheen |
| 142 | 5//8 | Private | Agriculture | 0.232 | Krishan Chand S/o's Sultan Kom Jaat, Malladkhera Khatedar rahan OBC, Nagrana |
| 143 | 5//9 | Private | Agriculture | 0.1475 | Maniram S/o Bhagirath caste Jaat sakin Malladkhera khatedar |
| 144 | 5//11 | Private | Agriculture | 0.0225 | Ram Kumar S/o Maniram, Kom Meghwal sakin nagrana khatedar rahan OBC Branch nagrana Murtaheen |
| 145 | 5//12 | Private | Agriculture | 0.2441 | Maniram S/o Bhagirath caste Jaat sakin Malladkhera khatedar |

| | | | | | |
|-----|-------|---------|-------------|--------|---|
| 146 | 5//13 | Private | Agriculture | 0.1227 | Krishan Chand S/o's Sultan Kom Jaat, Malladkhera Khatedar rahan OBC, Nagrana |
| 147 | 5//18 | Private | Agriculture | 0.0167 | Krishan Chand S/o's Sultan Kom Jaat, Malladkhera Khatedar rahan OBC, Nagrana |
| 148 | 5//19 | Private | Agriculture | 0.2398 | Jagdish S/o Bhagirath caste Jaat sakin Malladkhera khatedar |
| 149 | 5//20 | Private | Agriculture | 0.1329 | Ram Kumar S/o Mani Ram, Kom Meghwal, nagrana khatedar rehan OBC Branch nagrana Murtaheen |
| 150 | 5//21 | Private | Agriculture | 0.2376 | Shankar Lal S/o Duni Ram 1/2 share, Surya D/o Ratti Ram, Ramsavroop, Jagdish, Shayoparkash S/o's Ratti Ram, Roshni Devi, Urmila Devi D/o's Ratti Ram 1/2 share, Kom Jaat sakin Malladkhera Khatedar rahan SBI Branch Sangria Murtaheen |
| 151 | 5//22 | Private | Agriculture | 0.1373 | Fateh Singh Alias Fataram S/o Bhagirath caste Jaat sakin Malladkhera |
| 152 | 6//5 | Private | Agriculture | 0.1122 | Shankar Lal S/o Duni Ram 1/2 share, Surya D/o Ratti Ram, Ramsavroop, Jagdish, Shayoparkash S/o's Ratti Ram, Roshni Devi, Urmila Devi D/o's Ratti Ram 1/2 share, Kom Jaat sakin Malladkhera Khatedar rhan SBI Branch Sangria Murtaheen |
| 153 | 6//5 | Private | Agriculture | 0.0062 | Shankar Lal S/o Duni Ram 1/2 share, Surya D/o Ratti Ram, Ramsavroop, Jagdish, Shayoparkash S/o's Ratti Ram, Roshni Devi, Urmila Devi D/o's Ratti Ram 1/2 share, Kom Jaat sakin Malladkhera Khatedar rhan SBI Branch Sangria Murtaheen 6//5 (Nullah) |
| 154 | 6//6 | Private | Agriculture | 0.2294 | Sohan, Mani Ram S/o's Birbal Ram Kom Jaat sakin Malladkhera Khatedar rahan SBBJ branch Sangria Murtaheen |
| 155 | 6//7 | Private | Agriculture | 0.0082 | Bhadar S/o Naanu Ram, Kom Jaat, Malladkhera Khatedar |
| 156 | 6//14 | Private | Agriculture | 0.1037 | Kesar Devi W/o Sahi Ram 1/6 share, Krishn Chand, Rajaram, Jotaram, Shyopal S/o's Sahi Ram 2/3 share Saroj W/o Rameshwar Lal, Suresh S/o's Rameshwar Lal, Kavita D/o Rameshwar Lal 1/6 share, Kom Jaat sakin Malladkhera Khatedar rahan Krishan Chand, Rajaram, Jotaram, Shyopal Share, SBI branch Sangria Murtaheen |
| 157 | 6//15 | Private | Agriculture | 0.25 | Sohan, Mani Ram S/os Birbal Ram Kom Jaat sakin Malladkhera Khatedar rahan SBBJ branch Sangria Murtaheen |
| 158 | 6//16 | Private | Agriculture | 0.1666 | Kesar Devi W/o Sahi Ram 1/6 share, Krishn Chand, Rajaram, Jotaram, Shyopal S/os Sahi Ram 2/3 share Saroj |

| | | | | | |
|-----|-------|---------|-------------|--------|---|
| | | | | | W/o Rameshwar Lal, Suresh S/os Rameshwar Lal, Kavita D/o Rameshwar Lal 1/6 share, Kom Jaat sakin Malladkhera Khatedar rahan Krishan Chand, Rajaram, Jotaram, Shyopal Share, SBI branch Sangria Murtaheen |
| 159 | 6//17 | Private | Agriculture | 0.2192 | Kesar Devi W/o Sahi Ram 1/6 share, Krishn Chand, Rajaram, Jotaram, Shyopal S/os Sahi Ram 2/3 share Saroj W/o Rameshwar Lal, Suresh S/os Rameshwar Lal, Kavita D/o Rameshwar Lal 1/6 share, Kom Jaat sakin Malladkhera Khatedar rahan Krishan Chand, Rajaram, Jotaram, Shyopal Share, SBI branch Sangria Murtaheen |
| 160 | 6//18 | Private | Agriculture | 0.0036 | Kesar Devi W/o Sahi Ram 1/6 share, Krishn Chand, Rajaram, Jotaram, Shyopal S/o's Sahi Ram 2/3 share Saroj W/o Rameshwar Lal, Suresh S/o's Rameshwar Lal, Kavita D/o Rameshwar Lal 1/6 share, Kom Jaat sakin Malladkhera Khatedar rahan Krishan Chand, Rajaram, Jotaram, Shyopal Share, SBI branch Sangria Murtaheen |
| 161 | 6//23 | Private | Agriculture | 0.0891 | Shanti Dukhtar, Ram Chand, Kom Arora sakin Malladkhera Khatedar |
| 162 | 6//24 | Private | Agriculture | 0.2523 | Kesar Devi W/o Sahi Ram 1/6 share, Krishn Chand, Rajaram, Jotaram, Shyopal S/o's Sahi Ram 2/3 share Saroj W/o Rameshwar Lal, Suresh S/o's Rameshwar Lal, Kavita D/o Rameshwar Lal 1/6 share, Kom Jaat sakin Malladkhera Khatedar rahan Krishan Chand, Rajaram, Jotaram, Shyopal Share, SBI branch Sangria Murtaheen |
| 163 | 6//25 | Private | Agriculture | 0.0481 | Kesar Devi W/o Sahi Ram 1/6 share, Krishn Chand, Rajaram, Jotaram, Shyopal S/o's Sahi Ram 2/3 share Saroj W/o Rameshwar Lal, Suresh S/o's Rameshwar Lal, Kavita D/o Rameshwar Lal 1/6 share, Kom Jaat sakin Malladkhera Khatedar rahan Krishan Chand, Rajaram, Jotaram, Shyopal Share, SBI branch Sangria Murtaheen |
| 164 | 13//2 | Private | Agriculture | 0.0009 | Malkiyat Singh S/o Sajan Singh Kom Jattsikh, Nagrana Khatedar |
| 165 | 13//3 | Private | Agriculture | 0.2073 | Sandeep Kaur W/o Sukhmandar Singh, Sukhpal Kaur W/o Gurdeep Singh, Kom Jattsikh, Malladkhera Khatedar |
| 166 | 13//4 | Private | Agriculture | 0.1811 | Sandeep Kaur W/o Sukhmandar Singh, Sukhpal Kaur W/o Gurdeep Singh, Kom Jattsikh, Malladkhera Khatedar |
| 167 | 13//7 | Private | Agriculture | 0.0619 | Kirpal Singh S/o Pahad Singh, Kom Jattsikh, Surewala Allotte |
| 168 | 13//8 | Private | Agriculture | 0.127 | Sandeep Kaur W/o Sukhmandar Singh, Sukhpal Kaur W/o Gurdeep Singh, Kom |

| | | | | | |
|-----|--------|---------|-------------|--------|---|
| | | | | | Jattsikh, Malladkhera Khatedar |
| 169 | 13//9 | Private | Agriculture | 0.0745 | Malkiyat Singh S/o Sajan Singh Kom Jatsikh, Nagrana Khatedar |
| 170 | 13//12 | Private | Agriculture | 0.1936 | Malkeet Singh S/o Sajan Singh, Kom Jattsikh, Nagrana Khatedar |
| 171 | 13//13 | Private | Agriculture | 0.1957 | Malkeet Singh S/o Sajan Singh, Kom Jattsikh, Nagrana Khatedar |
| 172 | 13//18 | Private | Agriculture | 0.0765 | Kripal Singh S/o Pahad Singh Kom Jatsikh Surewala Allotte gair khatedar |
| 173 | 13//19 | Private | Agriculture | 0.253 | Kripal Singh S/o Pahad Singh Kom Jatsikh Surewala Allotte gair khatedar |
| 174 | 13//20 | Private | Agriculture | 0.0599 | Kripal Singh S/o Pahad Singh Kom Jatsikh Surewala Allotte gair khatedar |
| 175 | 13//21 | Private | Agriculture | 0.1792 | Kalawati W/o Durga Ram 1/7 share, Omparkash, Rameshwar Lal, Jagdish S/o's Durga Ram 6/7 share, Kom Jaat, Malladkhera Khatedar rahan Omparksah Rameshwar Lal, Jagdish OBC Branch Nagrana Murtaheen |
| 176 | 13//22 | Private | Agriculture | 0.2092 | Kirpal Singh S/o Pahad Singh Kom Jatsikh sakin Surewala Allotte gair khatedar |
| 177 | 13//23 | Private | Agriculture | 0.0014 | Kirpal Singh S/o Pahad Singh Kom Jatsikh sakin Surewala Allotte gair khatedar |
| 178 | 14//1 | Private | Agriculture | 0.228 | Kirpal Singh S/o Pahad Singh Kom Jatsikh sakin Surewala Allotte gair khatedar |
| 179 | 14//1 | Private | Agriculture | 0.025 | Kirpal Singh S/o Pahad Singh Kom Jatsikh sakin Surewala Allotte gair khatedar 14//1 (Passage) |
| 180 | 14//2 | Private | Agriculture | 0.0771 | Chatar singh S/o Bajir singh Kom Bawari Malladkhera Allotte gair khatedar |
| 181 | 14//2 | Private | Agriculture | 0.0142 | Chatar singh S/o Bajir singh Kom Bawari Malladkhera Allotte gair khatedar 14//2 (Passage) |
| 182 | 14//9 | Private | Agriculture | 0.0042 | Chatar singh S/o Bajir singh Kom Bawari Malladkhera Allotte gair khatedar |
| 183 | 14//10 | Private | Agriculture | 0.2209 | Kripal Singh S/o Pahad Singh Kom Jatsikh sakin Surewala Allotte gair khatedar |
| 184 | 14//11 | Private | Agriculture | 0.1059 | Chatar singh S/o Bajir singh Kom Bawari Malladkhera Allotte gair khatedar |
| 185 | 14//20 | Private | Agriculture | 0.0091 | Narender Kumar S/o Tulchhi Ram, Arun Kumar S/o Surendra Kumar, Kom Jaat, Nagrana Khatedar rahan OBC Bank Branch Nagrana Murtaheen |

| | | | | | |
|-----|--------|---------|-------------|--------|--|
| 186 | 15//5 | Private | Agriculture | 0.0248 | Kalawati W/o Durga Ram 1/7 share, Omparkash, Rameshwar Lal, Jagdish S/o's Durga Ram 6/7 share, Kom Jaat, Malladkhera Khatedar rahan Omparksah Rameshwar Lal, Jagdish OBC Branch Nagrana Murtaheen |
| 187 | 15//5 | Private | Agriculture | 0.0195 | Kalawati W/o Durga Ram 1/7 share, Omparkash, Rameshwar Lal, Jagdish S/o's Durga Ram 6/7 share, Kom Jaat, Malladkhera Khatedar rahan Omparksah Rameshwar Lal, Jagdish OBC Branch Nagrana Murtaheen 15//5 (Nullah) |
| 188 | 15//6 | Private | Agriculture | 0.1396 | Kalawati W/o Durga Ram 1/7 share, Omparkash, Rameshwar Lal, Jagdish S/o's Durga Ram 6/7 share, Kom Jaat, Malladkhera Khatedar rahan Omparksah Rameshwar Lal, Jagdish OBC Branch Nagrana Murtaheen |
| 189 | 15//6 | Private | Agriculture | 0.025 | Kalawati W/o Durga Ram 1/7 share, Omparkash, Rameshwar Lal, Jagdish S/o's Durga Ram 6/7 share, Kom Jaat, Malladkhera Khatedar rahan Omparksah Rameshwar Lal, Jagdish OBC Branch Nagrana Murtaheen 15//6 (Nullah) |
| 190 | 15//14 | Private | Agriculture | 0.0342 | Bhag Singh S/o Gyan Singh Kom Raisikh Malladkhera Allotte gair khatedar |
| 191 | 13//8 | Private | Agriculture | 0.126 | Malkiyat Singh S/o Sajan Singh Kom Jatsikh, Nagrana Khatedar |
| 192 | 15//15 | Private | Agriculture | 0.2245 | Chatar singh S/o Bajir singh Kom Bawari sakin Malladkhera Allotte gair khatedar |
| 193 | 15//15 | Private | Agriculture | 0.025 | Chatar singh S/o Bajir singh Kom Bawari sakin Malladkhera Allotte gair khatedar 15//15 (Nullah) |
| 194 | 15//16 | Private | Agriculture | 0.2185 | Chatar singh S/o Bajir singh Kom Bawari sakin Malladkhera Allotte gair khatedar |
| 195 | 15//16 | Private | Agriculture | 0.0123 | Chatar singh S/o Bajir singh Kom Bawari sakin Malladkhera Allotte gair khatedar 15//16 (Nullah) |
| 196 | 15//17 | Private | Agriculture | 0.1498 | Bhag Singh S/o Gyan Singh, Kom Raisikh, Malladkhera Allotte gair khatedar |
| 197 | 15//23 | Private | Agriculture | 0.0239 | Dalip Kour W/o Pahad singh 0.106 share Amarjeet Kour D/o Pahad Singh 0.120 share Jagtar Singh S/o Pahad Singh 0.120 share Jagjit Singh S/o Haradayaal Singh 0.903 share Devendra Singh S/o Malkit Singh 0.902 share Gurmel Singh S/o Mehanga Singh 0.885 share Malkit Singh S/o Haradayaal Singh 0.018 share |

| | | | | | |
|-----|--------|---------|-------------|--------|--|
| | | | | | Koum Jatsikh sakin Nagrana Parvindra Kour W/o Gurmeet singh 0.557 sharre caste jatsikh Sakin 76 mini sachivalay, New Civil Line, Ward No. 1, Hanumangarh Jn. Mira Devi D/o Devsi Ram w/o Rajkapur alias Mohan Lal 0.506 share Brijlal, Devi lal, omprakash, Mira devi, Sharda Devi D/o's Kesar Devi W/o Devisi Ram all share equal 1.771 share Koum Jaat sakin Nagrana Khatedar rahan Mira Devi OBC, Nagrana, Devendra Singh SBP, Sangria |
| 198 | 15//24 | Private | Agriculture | 0.2449 | Chatar singh S/o Bajir singh Kom Bawari sakin Malladkhera Allotte gair khatedar |
| 199 | 15//25 | Private | Agriculture | 0.1208 | Chatar singh S/o Bajir singh Kom Bawari sakin Malladkhera Allotte gair khatedar |
| 200 | 20//3 | Private | Agriculture | 0.1275 | Gurmeet singh S/o Tek Singh Kom Jatsikh Nagrana Khatedar rahan OBC Branch Sangria, Murtaheen |
| 201 | 20//3 | Private | Agriculture | 0.0079 | Gurmeet singh S/o Tek Singh Kom Jatsikh Nagrana Khatedar rahan OBC Branch Sangria, Murtaheen 20//3 (Nullah) |
| 202 | 20//4 | Private | Agriculture | 0.2138 | Chatar singh S/o Bajir singh Kom Bawari sakin Malladkhera Allotte |
| 203 | 20//4 | Private | Agriculture | 0.025 | Chatar singh S/o Bajir singh Kom Bawari sakin Malladkhera Allotte 20//4 (Nullah) |
| 204 | 20//5 | Private | Agriculture | 0.0105 | Chatar singh S/o Bajir singh Kom Bawari sakin Malladkhera Allotte |
| 205 | 20//5 | Private | Agriculture | 0.0052 | Chatar singh S/o Bajir singh Kom Bawari sakin Malladkhera Allotte 20//5 (Nullah) |
| 206 | 20//7 | Private | Agriculture | 0.135 | Prithvi Raj, Chunni Lal, Dharmpal, Bhup Singh S/o Hukama Ram Caste Jaat Sakin Malladkheda Khatedar |
| 207 | 20//8 | Private | Agriculture | 0.2388 | Gurmeet singh S/o Tek Singh, Kom Jatt Sikh, Nagrana Khatedar rahan OBC Branch Sangria, Murtaheen |
| 208 | 20//9 | Private | Agriculture | 0.0156 | Dalip Kour W/o Pahad singh 0.106 share Amarjeet Kour D/o Pahad Singh 0.120 share Jagtar Singh S/o Pahad Singh 0.120 share Jagjit Singh S/o Haradayal Singh 0.903 share Devendra Singh S/o Malkit Singh 0.902 share Gurmel Singh S/o Mehanga Singh 0.885 share Malkit Singh S/o Haradayal Singh 0.018 share Koum Jatsikh sakin Nagrana Parvindra Kour W/o Gurmeet singh 0.557 sharre caste jatsikh Sakin 76 mini sachivalay, New Civil Line, Ward No. 1, Hanumangarh Jn. Mira Devi D/o Devsi Ram w/o Rajkapur alias Mohan Lal |

| | | | | | |
|-----|--------|---------|-------------|--------|--|
| | | | | | 0.506 share Brijlal, Devi lal, omprakash, Mira devi, Sharda Devi D/o's Kesar Devi W/o Devisi Ram all share equal 1.771 share Koum Jaat sakin Nagrana Khatedar rahan Mira Devi OBC, Nagrana, Devendra Singh SBP, Sangria |
| 209 | 20//12 | Private | Agriculture | 0.1206 | Dalip Kour W/o Pahad singh 0.106 share Amarjeet Kour D/o Pahad Singh 0.120 share Jagtar Singh S/o Pahad Singh 0.120 share Jagjit Singh S/o Haradayal Singh 0.903 share Devendra Singh S/o Malkit Singh 0.902 share Gurmel Singh S/o Mehanga Singh 0.885 share Malkit Singh S/o Haradayal Singh 0.018 share Koum Jatsikh sakin Nagrana Parvindra Kour W/o Gurmeet singh 0.557 sharre caste jatsikh Sakin 76 mini sachivalay, New Civil Line, Ward No. 1, Hanumangarh Jn. Mira Devi D/o Devsi Ram w/o Rajkapur alias Mohan Lal 0.506 share Brijlal, Devi lal, omprakash, Mira devi, Sharda Devi D/o's Kesar Devi W/o Devisi Ram all share equal 1.771 share Koum Jaat sakin Nagrana Khatedar rahan Mira Devi OBC, Nagrana, Devendra Singh SBP, Sangria |
| 210 | 20//13 | Private | Agriculture | 0.2449 | Gurmeet singh S/o Tek Singh, Kom Jatsikh, Nagrana Khatedar rahan OBC Branch Sangria, Murtaheen |
| 211 | 20//14 | Private | Agriculture | 0.0238 | Prithvi Raj, Chunni Lal, Dharmpal, Bhup Singh S/o Hukama Ram Caste Jaat Sakin Malladkheda Khatedar |
| 212 | 20//18 | Private | Agriculture | 0.1496 | Gurmeet singh S/o Tek Singh, Kom Jatsikh, Nagrana Khatedar rahan OBC Branch Sangria, Murtaheen |
| 213 | 20//19 | Private | Agriculture | 0.2307 | Dalip Kour W/o Pahad singh 0.106 share Amarjeet Kour D/o Pahad Singh 0.120 share Jagtar Singh S/o Pahad Singh 0.120 share Jagjit Singh S/o Haradayal Singh 0.903 share Devendra Singh S/o Malkit Singh 0.902 share Gurmel Singh S/o Mehanga Singh 0.885 share Malkit Singh S/o Haradayal Singh 0.018 share Koum Jatsikh sakin Nagrana Parvindra Kour W/o Gurmeet singh 0.557 sharre caste jatsikh Sakin 76 mini sachivalay, New Civil Line, Ward No. 1, Hanumangarh Jn. Mira Devi D/o Devsi Ram w/o Rajkapur alias Mohan Lal 0.506 share Brijlal, Devi lal, omprakash, Mira devi, Sharda Devi D/o's Kesar Devi W/o Devisi Ram all share equal 1.771 share Koum Jaat sakin Nagrana Khatedar rahan Mira Devi OBC, Nagrana, Devendra Singh SBP, Sangria |
| 214 | 20//20 | Private | Agriculture | 0.009 | Ramlal, Ranvir s/o Hariram Kamla, Sumitra D/o's Hariram all share eqaul koum Jaat sakin Malladkheda khatedar |

| | | | | | |
|-----|--------|---------|-------------|--------|---|
| 215 | 20//21 | Private | Agriculture | 0.1059 | रामलाल, रणवीर पिता हरीराम कमला, सुमित्रा पुत्रियां हरीराम बहिब कौम जाट साकिन मल्लडखेडा खातेदार |
| 216 | 20//22 | Private | Agriculture | 0.2493 | Ram Lal S/o Hari Ram, Kom Jaat, Malhadkhera Khatedar rehan 1.696 share, OBC Nagrana Murtaheen |
| 217 | 20//23 | Private | Agriculture | 0.0339 | Ram Lal S/o Hari Ram, Kom Jaat, Malhadkhera Khatedar rehan 1.696 share, OBC Nagrana Murtaheen |
| 218 | 25//1 | Private | Agriculture | 0.2042 | Ram Lal S/o Hari Ram, Kom Jaat, Malhadkhera Khatedar rehan 1.696 share, OBC Nagrana Murtaheen |
| 219 | 25//1 | Private | Agriculture | 0.0169 | Ram Lal S/o Hari Ram, Kom Jaat, Malhadkhera Khatedar rehan 1.696 share, OBC Nagrana Murtaheen 25//1 (Passage) |
| 220 | 25//2 | Private | Agriculture | 0.1428 | Ram Lal S/o Hari Ram, Kom Jaat, Malhadkhera Khatedar rehan 1.696 share, OBC Nagrana Murtaheen |
| 221 | 25//2 | Private | Agriculture | 0.0216 | Ram Lal S/o Hari Ram, Kom Jaat, Malhadkhera Khatedar rehan 1.696 share, OBC Nagrana Murtaheen 25//2 (Passage) |
| 222 | 25//9 | Private | Agriculture | 0.0459 | Ram Lal S/o Hari Ram, Kom Jaat, Malhadkhera Khatedar rehan 1.696 share, OBC Nagrana Murtaheen |
| 223 | 25//10 | Private | Agriculture | 0.2521 | Ram Lal S/o Hari Ram, Kom Jaat, Malhadkhera Khatedar rehan 1.696 share, OBC Nagrana Murtaheen |
| 224 | 25//11 | Private | Agriculture | 0.1788 | Jagdish S/o Dalip Singh 1/30 share Ranjeet Kour w/o Jagdish Singh 1/15 share Rajendra Singh s/o Dalip Singh all share equal 1/10 share Prithvi Singh, Pritam Singh, Nihal Singh, Man Singh, Makkha Singh, amar Singh s/o's Gajan Singh, Gurmeet kour D/o Gajan Singh all share equal 0.158 share caste Majabi sakin 7 LMDB tehsil Gharsana Angrej Kour w/o Fula Singh, Hardev Singh, Hardeep Singh s/o Fula singh, Param kour Indra Kour, Soma kour Manjeet Kour D/o's Fula Singh 1/5 share Balwant singh, Atma Singh, Mahavir singh, Bhagwan singh, Jaswant singh s/o Kripal singh, Savitri kour d/o Kripal Singh 1/5 share Ajmer kour w/o Jagar singh Raja Singh, Manisingh Balvinder Singh, Karamjeet kour, Kido kour, Manggu kour father Jagar singh 1/5 share caste Majbi Prithvi Raj s/o Chetram Meghwal sakin Nagrana 1.107 ha. khatedar |
| 225 | 25//20 | Private | Agriculture | 0.0596 | Bhikha Ram S/o Teja Ram, kom nayak, malladkhera Khatedar |

| | | | | | |
|-----|--------|---------|-------------|--------|---|
| 226 | 26//5 | Private | Agriculture | 0.0042 | Ramlal, Ranvir s/o Hariram Kamla, Sumitra D/o's Hariram all share eqaul koum Jaat sakin Malladkheda khatedar |
| 227 | 26//6 | Private | Agriculture | 0.0914 | Ramlal, Ranvir s/o Hariram Kamla, Sumitra D/o's Hariram all share eqaul koum Jaat sakin Malladkheda khatedar |
| 228 | 26//14 | Private | Agriculture | 0.0012 | Mam Chand, Sahi Ram, Sant Ram, Chunni lal, Ram Pratap S/o's Bahadur Ram, Kom Jaat, Nagrana Khatedar, Rampartap rahan OBC Branch Nagrana Murtaheen |
| 229 | 26//15 | Private | Agriculture | 0.2093 | Ramlal, Ranvir s/o Hariram Kamla, Sumitra D/o's Hariram all share eqaul koum Jaat sakin Malladkheda khatedar |
| 230 | 26//16 | Private | Agriculture | 0.253 | Mam Chand, Sahi Ram, Sant Ram, Chunni lal, Ram Partap S/o's Bahadur Ram, Kom Jaat, Nagrana Khatedar, Rampratap rahan OBC Branch Nagrana Murtaheen |
| 231 | 26//17 | Private | Agriculture | 0.0768 | Mam Chand, Sahi Ram, Sant Ram, Chunni lal, Ram Partap S/o's Bahadur Ram, Kom Jaat, Nagrana Khatedar, Rampratap rahan OBC Branch Nagrana Murtaheen |
| 232 | 26//24 | Private | Agriculture | 0.1959 | Narender Kumar S/o Tulchhi Ram, Arun Kumar S/o Surendra Kumar, Kom Jaat sakin Nagrana Khatedar rahan OBC Bank Branch Nagrana Murtaheen |
| 233 | 26//25 | Private | Agriculture | 0.1934 | Narender Kumar S/o Tulchhi Ram, Arun Kumar S/o Surendra Kumar, Kom Jaat sakin Nagrana Khatedar rahan OBC Bank Branch Nagrana Murtaheen |
| 234 | 29//3 | Private | Agriculture | 0.0618 | Narender Kumar S/o Tulchhi Ram, Arun Kumar S/o Surendra Kumar, Kom Jaat sakin Nagrana Khatedar rahan OBC Bank Branch Nagrana Murtaheen |
| 235 | 29//3 | Private | Agriculture | 0.0006 | Narender Kumar S/o Tulchhi Ram, Arun Kumar S/o Surendra Kumar, Kom Jaat sakin Nagrana Khatedar rahan OBC Bank Branch Nagrana Murtaheen 29//3 (Nullah) |
| 236 | 29//4 | Private | Agriculture | 0.228 | Ugarsen, Satpal S/o's Shyokaran, Kom Jaat, Nagrana Khatedar rahan OBC branch Nagrana Murtaheen |
| 237 | 29//4 | Private | Agriculture | 0.025 | Ugarsen, Satpal S/o's Shyokaran, Kom Jaat, Nagrana Khatedar rahan OBC branch Nagrana Murtaheen 29//4 (Nullah) |
| 238 | 29//5 | Private | Agriculture | 0.0619 | Ugarsen, Satpal S/o's Shyokaran, Kom Jaat, Nagrana Khatedar rahan OBC branch Nagrana Murtaheen |
| 239 | 29//5 | Private | Agriculture | 0.0125 | Ugarsen, Satpal S/o's Shyokaran, Kom Jaat, Nagrana Khatedar rahan OBC branch Nagrana Murtaheen 29//5 (Nullah) |

| | | | | | |
|-----|--------|---------|-------------|--------|---|
| 240 | 29//6 | Private | Agriculture | 0.0009 | Ugarsen, Satpal S/o's Shyokaran, Kom Jaat, Nagrana Khatedar rahan OBC branch Nagrana Murtaheen |
| 241 | 29//7 | Private | Agriculture | 0.2071 | Ugarsen, Satpal S/o's Shyokaran, Kom Jaat, Nagrana Khatedar rahan OBC branch Nagrana Murtaheen |
| 242 | 29//8 | Private | Agriculture | 0.1813 | Narender Kumar S/o Tulchhi Ram, Arun Kumar S/o Surender Kumar, Kom Jaat, Nagrana Khatedar rahan OBC Bank Branch Nagrana Murtaheen |
| 243 | 29//12 | Private | Agriculture | 0.0482 | Narender Kumar S/o Tulchhi Ram, Arun Kumar S/o Surender Kumar, Kom Jaat, Nagrana Khatedar rahan OBC Bank Branch Nagrana Murtaheen |
| 244 | 29//13 | Private | Agriculture | 0.2523 | Narender Kumar S/o Tulchhi Ram, Arun Kumar S/o Surender Kumar, Kom Jaat, Nagrana Khatedar rahan OBC Bank Branch Nagrana Murtaheen |
| 245 | 29//14 | Private | Agriculture | 0.0888 | Ugarsen, Satpal S/o's Shyokaran, Kom Jaat, Nagrana Khatedar rahan OBC branch Nagrana Murtaheen |
| 246 | 29//17 | Private | Agriculture | 0.0036 | Ugarsen, Satpal S/o's Shyokaran, Kom Jaat, Nagrana Khatedar rahan OBC branch Nagrana Murtaheen |
| 247 | 29//18 | Private | Agriculture | 0.219 | Narender Kumar S/o Tulchhi Ram, Arun Kumar S/o Surender Kumar, Kom Jaat, Nagrana Khatedar rahan OBC Bank Branch Nagrana Murtaheen |
| 248 | 29//19 | Private | Agriculture | 0.1667 | Mansi Devi W/o Aidan 1/9 share Bhadar Ram, Dharam Pal, Krishn Lal, Shyopat, Rohitash S/o's Aidan 5/9 share, Santosh, Nirmala, Sumitra D/o's Aidan 3/9 share, Kom Jaat, Nagrana Khatedar rahan Bhadar Ram, Krishan Lal, Dharampal, Shyopat S/o's Aidan 4/9 share, OBC branch Nagrana Murtaheen rahan Rohitash SBI, Sangria |
| 249 | 29//21 | Private | Agriculture | 0.0359 | Mansi Devi W/o Aidan 1/9 share Bhadar Ram, Dharam Pal, Krishn Lal, Shyopat, Rohitash S/o's Aidan 5/9 share, Santosh, Nirmala, Sumitra D/o's Aidan 3/9 share, Kom Jaat, Nagrana Khatedar rahan Bhadar Ram, Krishan Lal, Dharampal, Shyopat S/o's Aidan 4/9 share, OBC branch Nagrana Murtaheen rahan Rohitash SBI, Sangria |
| 250 | 29//22 | Private | Agriculture | 0.25 | Mansi Devi W/o Aidan 1/9 share Bhadar Ram, Dharam Pal, Krishn Lal, Shyopat, Rohitash S/o's Aidan 5/9 share, Santosh, Nirmala, Sumitra D/o's Aidan 3/9 share, Kom Jaat, Nagrana Khatedar rahan Bhadar Ram, Krishan Lal, Dharampal, Shyopat S/o's Aidan 4/9 share, OBC branch Nagrana Murtaheen rahan Rohitash SBI, Sangria |

| | | | | | |
|-----|--------|---------|-------------|--------|---|
| 251 | 29//23 | Private | Agriculture | 0.1034 | Mansi Devi W/o Aidan 1/9 share Bhadar Ram, Dharam Pal, Krishn Lal, Shyopat, Rohitash S/o's Aidan 5/9 share, Santosh, Nirmala, Sumitra D/o's Aidan 3/9 share, Kom Jaat, Nagrana Khatedar rahan Bhadar Ram, Krishan Lal, Dharampal, Shyopat S/o's Aidan 4/9 share, OBC branch Nagrana Murtaheen rahan Rohitash SBI, Sangria |
| 252 | 36//1 | Private | Agriculture | 0.1521 | Bhadar Ram S/o Birbal 1/3 share, Prithvi S/o Birbal 2/3 share total 7 dar 2/8 share, Rajaram, Bhoop Singh, Mohan Lal, Krishan S/o's Ganpat Ram all share equal 52 dar 2/8 share, Chhhoga S/o Daram 1/4 share, Manphul S/o Hunta 1/4 share, Sultan , Roopram S/o's Baluram 1/4 share, Kom Jaat sakin Nagrana Khatedar Rajaram, Bhoop Singh, Mohan Lal, Krishan, OBC branch Nagrana Murtaheen |
| 253 | 36//2 | Private | Agriculture | 0.2292 | Bhadar Ram S/o Birbal 1/3 share, Prithvi S/o Birbal 2/3 share total 7 dar 2/8 share, Rajaram, Bhoop Singh, Mohan Lal, Krishan S/o's Ganpat Ram all share equal 52 dar 2/8 share, Chhhoga S/o Daram 1/4 share, Manphul S/o Hunta 1/4 share, Sultan , Roopram S/o's Baluram 1/4 share, Kom Jaat sakin Nagrana Khatedar Rajaram, Bhoop Singh, Mohan Lal, Krishan, OBC branch Nagrana Murtaheen |
| 254 | 36//3 | Private | Agriculture | 0.0081 | Mansi Devi W/o Aidan 1/9 share Bhadar Ram, Dharam Pal, Krishn Lal, Shyopat, Rohitash S/o's Aidan 5/9 share, Santosh, Nirmala, Sumitra D/o's Aidan 3/9 share, Kom Jaat, Nagrana Khatedar rahan Bhadar Ram, Krishan Lal, Dharampal, Shyopat S/o's Aidan 4/9 share, OBC branch Nagrana Murtaheen rahan Rohitash SBI, Sangria |
| 255 | 36//9 | Private | Agriculture | 0.1181 | Bhadar Ram S/o Birbal 1/3 share, Prithvi S/o Birbal 2/3 share total 7 dar 2/8 share, Rajaram, Bhoop Singh, Mohan Lal, Krishan S/o's Ganpat Ram all share equal 52 dar 2/8 share, Chhhoga S/o Daram 1/4 share, Manphul S/o Hunta 1/4 share, Sultan , Roopram S/o's Baluram 1/4 share, Kom Jaat sakin Nagrana Khatedar Rajaram, Bhoop Singh, Mohan Lal, Krishan, OBC branch Nagrana Murtaheen |
| 256 | 36//10 | Private | Agriculture | 0.2458 | Bhadar Ram S/o Birbal 1/3 share, Prithvi S/o Birbal 2/3 share total 7 dar 2/8 share, Rajaram, Bhoop Singh, Mohan Lal, Krishan S/o's Ganpat Ram all share equal 52 dar 2/8 share, Chhhoga S/o Daram 1/4 share, Manphul S/o Hunta 1/4 share, Sultan , Roopram S/o's Baluram 1/4 share, Kom Jaat sakin |

| | | | | | |
|-----|--------|---------|-------------|--------|---|
| | | | | | Nagrana Khatedar Rajaram, Bhoop Singh, Mohan Lal, Krishan, OBC branch Nagrana Murtaheen |
| 257 | 36//11 | Private | Agriculture | 0.0238 | Bhadar Ram S/o Birbal 1/3 share, Prithvi S/o Birbal 2/3 share total 7 dar 2/8 share, Rajaram, Bhoop Singh, Mohan Lal, Krishan S/o's Ganpat Ram all share equal 52 dar 2/8 share, Chhhoga S/o Daram 1/4 share, Manphul S/o Hunta 1/4 share, Sultan , Roopram S/o's Baluram 1/4 share, Kom Jaat sakin Nagrana Khatedar Rajaram, Bhoop Singh, Mohan Lal, Krishan, OBC branch Nagrana Murtaheen |
| 258 | 36//12 | Private | Agriculture | 0.0143 | Bhadar Ram S/o Birbal 1/3 share, Prithvi S/o Birbal 2/3 share total 7 dar 2/8 share, Rajaram, Bhoop Singh, Mohan Lal, Krishan S/o's Ganpat Ram all share equal 52 dar 2/8 share, Chhhoga S/o Daram 1/4 share, Manphul S/o Hunta 1/4 share, Sultan , Roopram S/o's Baluram 1/4 share, Kom Jaat sakin Nagrana Khatedar Rajaram, Bhoop Singh, Mohan Lal, Krishan, OBC branch Nagrana Murtaheen |
| 259 | 36//20 | Private | Agriculture | 0.1327 | Bhadar Ram S/o Birbal 1/3 share, Prithvi S/o Birbal 2/3 share total 7 dar 2/8 share, Rajaram, Bhoop Singh, Mohan Lal, Krishan S/o's Ganpat Ram all share equal 52 dar 2/8 share, Chhhoga S/o Daram 1/4 share, Manphul S/o Hunta 1/4 share, Sultan , Roopram S/o's Baluram 1/4 share, Kom Jaat sakin Nagrana Khatedar Rajaram, Bhoop Singh, Mohan Lal, Krishan, OBC branch Nagrana Murtaheen |
| 260 | 36//21 | Private | Agriculture | 0.0224 | Bhadar Ram S/o Birbal 1/3 share, Prithvi S/o Birbal 2/3 share total 7 dar 2/8 share, Rajaram, Bhoop Singh, Mohan Lal, Krishan S/o's Ganpat Ram all share equal 52 dar 2/8 share, Chhhoga S/o Daram 1/4 share, Manphul S/o Hunta 1/4 share, Sultan , Roopram S/o's Baluram 1/4 share, Kom Jaat sakin Nagrana Khatedar Rajaram, Bhoop Singh, Mohan Lal, Krishan, OBC branch Nagrana Murtaheen |
| 261 | 37//6 | Private | Agriculture | 0.0255 | Bhadar Ram S/o Birbal 1/3 share, Prithvi S/o Birbal 2/3 share total 7 dar 2/8 share, Rajaram, Bhoop Singh, Mohan Lal, Krishan S/o's Ganpat Ram all share equal 52 dar 2/8 share, Chhhoga S/o Daram 1/4 share, Manphul S/o Hunta 1/4 share, Sultan , Roopram S/o's Baluram 1/4 share, Kom Jaat sakin Nagrana Khatedar Rajaram, Bhoop Singh, Mohan Lal, Krishan, OBC branch Nagrana Murtaheen |

| | | | | | |
|-----|--------|---------|-------------|--------|--|
| 262 | 37//15 | Private | Agriculture | 0.1375 | Bhadar Ram S/o Birbal 1/3 share, Prithvi S/o Birbal 2/3 share total 7 dar 2/8 share, Rajaram, Bhoop Singh, Mohan Lal, Krishan S/o's Ganpat Ram all share equal 52 dar 2/8 share, Chhhoga S/o Daram 1/4 share, Manphul S/o Hunta 1/4 share, Sultan , Rooram S/o's Baluram 1/4 share, Kom Jaat sakin Nagrana Khatedar Rajaram, Bhoop Singh, Mohan Lal, Krishan, OBC branch Nagrana Murtaheen |
| 263 | 37//16 | Private | Agriculture | 0.2399 | Bhadar Ram S/o Birbal 1/3 share, Prithvi S/o Birbal 2/3 share total 7 dar 2/8 share, Rajaram, Bhoop Singh, Mohan Lal, Krishan S/o's Ganpat Ram all share equal 52 dar 2/8 share, Chhhoga S/o Daram 1/4 share, Manphul S/o Hunta 1/4 share, Sultan , Rooram S/o's Baluram 1/4 share, Kom Jaat sakin Nagrana Khatedar Rajaram, Bhoop Singh, Mohan Lal, Krishan, OBC branch Nagrana Murtaheen |
| 264 | 37//17 | Private | Agriculture | 0.0168 | Bhadar Ram S/o Birbal 1/3 share, Prithvi S/o Birbal 2/3 share total 7 dar 2/8 share, Rajaram, Bhoop Singh, Mohan Lal, Krishan S/o's Ganpat Ram all share equal 52 dar 2/8 share, Chhhoga S/o Daram 1/4 share, Manphul S/o Hunta 1/4 share, Sultan , Rooram S/o's Baluram 1/4 share, Kom Jaat sakin Nagrana Khatedar Rajaram, Bhoop Singh, Mohan Lal, Krishan, OBC branch Nagrana Murtaheen |
| 265 | 37//24 | Private | Agriculture | 0.1229 | Bhadar Ram S/o Birbal 1/3 share, Prithvi S/o Birbal 2/3 share total 7 dar 2/8 share, Rajaram, Bhoop Singh, Mohan Lal, Krishan S/o's Ganpat Ram all share equal 52 dar 2/8 share, Chhhoga S/o Daram 1/4 share, Manphul S/o Hunta 1/4 share, Sultan , Rooram S/o's Baluram 1/4 share, Kom Jaat sakin Nagrana Khatedar Rajaram, Bhoop Singh, Mohan Lal, Krishan, OBC branch Nagrana Murtaheen |
| 266 | 37//25 | Private | Agriculture | 0.244 | Bhadar Ram S/o Birbal 1/3 share, Prithvi S/o Birbal 2/3 share total 7 dar 2/8 share, Rajaram, Bhoop Singh, Mohan Lal, Krishan S/o's Ganpat Ram all share equal 52 dar 2/8 share, Chhhoga S/o Daram 1/4 share, Manphul S/o Hunta 1/4 share, Sultan , Rooram S/o's Baluram 1/4 share, Kom Jaat sakin Nagrana Khatedar Rajaram, Bhoop Singh, Mohan Lal, Krishan, OBC branch Nagrana Murtaheen |
| 267 | 38//3 | Private | Agriculture | 0.01 | Bhadar Ram S/o Birbal 1/3 share, Prithvi S/o Birbal 2/3 share total 7 dar 2/8 share, Rajaram, Bhoop Singh, Mohan Lal, Krishan S/o's Ganpat Ram all share |

| | | | | | |
|-----|-------|---------|-------------|--------|---|
| | | | | | equal 52 dar 2/8 share, Chhhoga S/o Daram 1/4 share, Manphul S/o Hunta 1/4 share, Sultan , Roopram S/o's Baluram 1/4 share, Kom Jaat sakin Nagrana Khatedar Rajaram, Bhoop Singh, Mohan Lal, Krishan, OBC branch Nagrana Murtaheen |
| 268 | 38//4 | Private | Agriculture | 0.2321 | Bhadar Ram S/o Birbal 1/3 share, Prithvi S/o Birbal 2/3 share total 7 dar 2/8 share, Rajaram, Bhoop Singh, Mohan Lal, Krishan S/o's Ganpat Ram all share equal 52 dar 2/8 share, Chhhoga S/o Daram 1/4 share, Manphul S/o Hunta 1/4 share, Sultan , Roopram S/o's Baluram 1/4 share, Kom Jaat sakin Nagrana Khatedar Rajaram, Bhoop Singh, Mohan Lal, Krishan, OBC branch Nagrana Murtaheen |
| 269 | 38//5 | Private | Agriculture | 0.1473 | Bhadar Ram S/o Birbal 1/3 share, Prithvi S/o Birbal 2/3 share total 7 dar 2/8 share, Rajaram, Bhoop Singh, Mohan Lal, Krishan S/o's Ganpat Ram all share equal 52 dar 2/8 share, Chhhoga S/o Daram 1/4 share, Manphul S/o Hunta 1/4 share, Sultan , Roopram S/o's Baluram 1/4 share, Kom Jaat sakin Nagrana Khatedar Rajaram, Bhoop Singh, Mohan Lal, Krishan, OBC branch Nagrana Murtaheen |
| 270 | 38//6 | Private | Agriculture | 0.0323 | Bhadar Ram S/o Birbal 1/3 share, Prithvi S/o Birbal 2/3 share total 7 dar 2/8 share, Rajaram, Bhoop Singh, Mohan Lal, Krishan S/o's Ganpat Ram all share equal 52 dar 2/8 share, Chhhoga S/o Daram 1/4 share, Manphul S/o Hunta 1/4 share, Sultan , Roopram S/o's Baluram 1/4 share, Kom Jaat sakin Nagrana Khatedar Rajaram, Bhoop Singh, Mohan Lal, Krishan, OBC branch Nagrana Murtaheen |
| 271 | 38//7 | Private | Agriculture | 0.2488 | Bhadar Ram S/o Birbal 1/3 share, Prithvi S/o Birbal 2/3 share total 7 dar 2/8 share, Rajaram, Bhoop Singh, Mohan Lal, Krishan S/o's Ganpat Ram all share equal 52 dar 2/8 share, Chhhoga S/o Daram 1/4 share, Manphul S/o Hunta 1/4 share, Sultan , Roopram S/o's Baluram 1/4 share, Kom Jaat sakin Nagrana Khatedar Rajaram, Bhoop Singh, Mohan Lal, Krishan, OBC branch Nagrana Murtaheen |
| 272 | 38//8 | Private | Agriculture | 0.1083 | Bhadar Ram S/o Birbal 1/3 share, Prithvi S/o Birbal 2/3 share total 7 dar 2/8 share, Rajaram, Bhoop Singh, Mohan Lal, Krishan S/o's Ganpat Ram all share equal 52 dar 2/8 share, Chhhoga S/o Daram 1/4 share, Manphul S/o Hunta 1/4 share, Sultan , Roopram S/o's |

| | | | | | |
|-----|--------|---------|-------------|--------|---|
| | | | | | Baluram 1/4 share, Kom Jaat sakin Nagrana Khatedar Rajaram, Bhoop Singh, Mohan Lal, Krishan, OBC branch Nagrana Murtaheen |
| 273 | 38//12 | Private | Agriculture | 0.0049 | Bhadar Ram S/o Birbal 1/3 share, Prithvi S/o Birbal 2/3 share total 7 dar 2/8 share, Rajaram, Bhoop Singh, Mohan Lal, Krishan S/o's Ganpat Ram all share equal 52 dar 2/8 share, Chhhoga S/o Daram 1/4 share, Manphul S/o Hunta 1/4 share, Sultan , Roopram S/o's Baluram 1/4 share, Kom Jaat sakin Nagrana Khatedar Rajaram, Bhoop Singh, Mohan Lal, Krishan, OBC branch Nagrana Murtaheen |
| 274 | 38//13 | Private | Agriculture | 0.2226 | Bhadar Ram S/o Birbal 1/3 share, Prithvi S/o Birbal 2/3 share total 7 dar 2/8 share, Rajaram, Bhoop Singh, Mohan Lal, Krishan S/o's Ganpat Ram all share equal 52 dar 2/8 share, Chhhoga S/o Daram 1/4 share, Manphul S/o Hunta 1/4 share, Sultan , Roopram S/o's Baluram 1/4 share, Kom Jaat sakin Nagrana Khatedar Rajaram, Bhoop Singh, Mohan Lal, Krishan, OBC branch Nagrana Murtaheen |
| 275 | 38//14 | Private | Agriculture | 0.1619 | Bhadar Ram S/o Birbal 1/3 share, Prithvi S/o Birbal 2/3 share total 7 dar 2/8 share, Rajaram, Bhoop Singh, Mohan Lal, Krishan S/o's Ganpat Ram all share equal 52 dar 2/8 share, Chhhoga S/o Daram 1/4 share, Manphul S/o Hunta 1/4 share, Sultan , Roopram S/o's Baluram 1/4 share, Kom Jaat sakin Nagrana Khatedar Rajaram, Bhoop Singh, Mohan Lal, Krishan, OBC branch Nagrana Murtaheen |
| 276 | 38//17 | Private | Agriculture | 0.0439 | Bhadar Ram S/o Birbal 1/3 share, Prithvi S/o Birbal 2/3 share total 7 dar 2/8 share, Rajaram, Bhoop Singh, Mohan Lal, Krishan S/o's Ganpat Ram all share equal 52 dar 2/8 share, Chhhoga S/o Daram 1/4 share, Manphul S/o Hunta 1/4 share, Sultan , Roopram S/o's Baluram 1/4 share, Kom Jaat sakin Nagrana Khatedar Rajaram, Bhoop Singh, Mohan Lal, Krishan, OBC branch Nagrana Murtaheen |
| 277 | 38//18 | Private | Agriculture | 0.2518 | Bhadar Ram S/o Birbal 1/3 share, Prithvi S/o Birbal 2/3 share total 7 dar 2/8 share, Rajaram, Bhoop Singh, Mohan Lal, Krishan S/o's Ganpat Ram all share equal 52 dar 2/8 share, Chhhoga S/o Daram 1/4 share, Manphul S/o Hunta 1/4 share, Sultan , Roopram S/o's Baluram 1/4 share, Kom Jaat sakin Nagrana Khatedar Rajaram, Bhoop Singh, Mohan Lal, Krishan, OBC branch Nagrana Murtaheen |

| | | | | | |
|-----|--------|---------|-------------|--------|--|
| 278 | 38//19 | Private | Agriculture | 0.0937 | Bhadar Ram S/o Birbal 1/3 share, Prithvi S/o Birbal 2/3 share total 7 dar 2/8 share, Rajaram, Bhoop Singh, Mohan Lal, Krishan S/o's Ganpat Ram all share equal 52 dar 2/8 share, Chhhoga S/o Daram 1/4 share, Manphul S/o Hunta 1/4 share, Sultan , Roorpram S/o's Baluram 1/4 share, Kom Jaat sakin Nagrana Khatedar Rajaram, Bhoop Singh, Mohan Lal, Krishan, OBC branch Nagrana Murtaheen |
| 279 | 38//21 | Private | Agriculture | 0.0016 | Binder Singh, Gurjant Singh, Jarnail Singh S/o's Chottu Singh, Kom JatSikh, Nagrana Khatedar |
| 280 | 38//22 | Private | Agriculture | 0.2113 | Bhadar Ram S/o Birbal 1/3 share, Prithvi S/o Birbal 2/3 share total 7 dar 2/8 share, Rajaram, Bhoop Singh, Mohan Lal, Krishan S/o's Ganpat Ram all share equal 52 dar 2/8 share, Chhhoga S/o Daram 1/4 share, Manphul S/o Hunta 1/4 share, Sultan , Roorpram S/o's Baluram 1/4 share, Kom Jaat sakin Nagrana Khatedar Rajaram, Bhoop Singh, Mohan Lal, Krishan, OBC branch Nagrana Murta |
| 281 | 38//23 | Private | Agriculture | 0.1765 | Kalawati W/o Sahab Ram 0.295 Share, Kalu Ram, Bheem Sain S/o's Sahab Ram 0.843 Share, Atma Ram S/o Ram Baksh 0.127, Kom Meghwal, Nagrana Khatedar rehan Atmaram, Kalawati, kaluram, Bheemden Share, OBC branch Nagrana Murataheen |
| 282 | 44//1 | Private | Agriculture | 0.079 | Binder Singh, Gurjant Singh, Jarnail Singh S/o's Chottu Singh, Kom JatSikh, Nagrana Khatedar |
| 283 | 44//2 | Private | Agriculture | 0.253 | Kalawati W/o Sahab Ram 0.295 Share, Kalu Ram, Bheem Sain S/o's Sahab Ram 0.843 Share, Atma Ram S/o Ram Baksh 0.127, Kom Meghwal, Nagrana Khatedar rehan Atmaram, Kalawati, kaluram, Bheemden Share, OBC branch Nagrana Murataheen |
| 284 | 44//3 | Private | Agriculture | 0.0573 | Kalawati W/o Sahab Ram 0.295 Share, Kalu Ram, Bheem Sain S/o's Sahab Ram 0.843 Share, Atma Ram S/o Ram Baksh 0.127, Kom Meghwal, Nagrana Khatedar rehan Atmaram, Kalawati, kaluram, Bheemden Share, OBC branch Nagrana Murataheen |
| 285 | 44//9 | Private | Agriculture | 0.1911 | Binder Singh, Gurjant Singh S/o's Chottu Singh, Kom Jatt Sikh, Nagrana Khatedar |
| 286 | 44//10 | Private | Agriculture | 0.1981 | Binder Singh, Gurjant Singh, Jarnail Singh S/o's Chottu Singh, Kom JatSikh, Nagrana Khatedar |
| 287 | 44//11 | Private | Agriculture | 0.1264 | Binder Singh, Gurjant Singh, Jarnail |

| | | | | | |
|-----|--------|---------|--------------|----------------|---|
| | | | | | Singh S/o's Chottu Singh, Kom JatSikh, Nagrana Khatedar |
| 288 | 44//12 | Private | Agriculture | 0.0461 | Binder Singh, Gurjant Singh S/o's Chottu Singh, Kom Jatt Sikh, Nagrana Khatedar |
| | | | TOTAL | 33.4356 | |

[F. No. NHAI/PIU-JDH/BM/AJEC-RAJ/2018/LA/3D2]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.